

ॐ

श्रीदत्तात्रेयविरचिता—
* अवधूतगीता *
—

काशीनिवासि—श्रीस्वामिहंसदासशिष्य—स्वामि-
श्रीपरमानन्दजीकृत—परमानन्दीनामकः

भाषाटीकासहिता ।

जिसको

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास—
अध्यक्ष “ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापेखानेमें
मैनेजर पं० शिवदुठारे वाजपेयीने मालिकके लिये
छापकर प्रसिद्ध किया ।

संवत् १९७९, शकाब्दाः १८४४.

कल्याण—मुंबई.

सब हक यन्त्रालयाधिकारीने स्वार्धान रक्खे हैं.

भूमिका ।

संसारमें कौनसा ऐसा पांडित और महात्मा संन्यासी होगा जो कि, श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीके नामको न जानता होगा. यद्यपि स्वामी दत्तात्रेयजीके नामको तो इस भारतखण्डमें अनेक स्त्री पुरुष जानते हैं, तथापि उनके त्याग और चैराग्यके वृत्तान्तको बहुत ही कम पुरुष जानते हैं, सो मैंने इस ग्रन्थकी आदिमें उनके जीवनवृत्तान्तको प्रथम दिखलाकरके फिर स्वामी दत्तात्रेयजीकी बनाई हुई जो “ अवधूतगीता ” है उसके प्रत्येक शब्दके अर्थको और फिर तिसके भावार्थको भी दिखाया है मुझे आशा है कि उसको पढकरके संपूर्ण विरक्त महात्मा जन दत्तात्रेयजीकी तरह गुणोंको ग्रहण करके परम लाभ उठावेंगे ।

इस पुस्तकका सर्वाधिकार सेठ खेमराज कृष्णदास अध्यक्ष “श्रीवेङ्कटेश्वर ” स्टीम प्रेस मुंबईको सादर समर्पित है, और कोई महाशय छापने आदिका साहस न करें, नहीं तो लाभके बड़े हानि उठानी पड़ेगी ।

स्वामी परमानन्दजी-



इंश्वरगुरुवन्दना ।

दोहाः—नमो नमो तिस रूपको, आदि अन्त जोहि नहि ।
 सो साक्षी मम रूप है, घाट वाढ कहै नाह ॥ १ ॥
 अवगत अविनाशी अचल, व्याप रही सब थाहि ।
 जो जानै अत रूपको, मिटै जगत जम ताहि ॥ २ ॥
 हंसदास गुरुको प्रथम, प्रणमों वारंवार ।
 नाम लेत जेहि तम मिटै, अध होवत सब छार ॥

टीकाकारका परिचय ।

चौ०—परमानन्द मम नाम पछानो। उदासीन मम पथको जानो ॥
 रामदास मम गुरुको गुरु है । आत्म वित्त जो मुनिवर मुनि है ॥
 दोहाः—परशराम मम नगर है, सिंधु नदी उस पार ।
 भारतमंडलके विषै, जानै सब संसार ॥ ५ ॥

अथ श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीका वृत्तान्त ।

संसारमें जन्ममरणरूपी बन्धनसे छूटनेके लिये संपूर्ण मोक्षके साधनोंसे वैराग्यही प्रधान साधन है क्योंकि जबतक प्रथम पुत्रको वैराग्य नहीं होता है तबतक पुत्रका मन विषयमोगोंकी तरफसे नहीं हटता है और मनको मोगोंको तरफसे हटाये बिना कोई भी मोक्षका साधन सफल नहीं होता है इसीसे सिद्ध होता है कि संपूर्ण मोक्षके साधनोंका मूल कारण वैराग्य ही है क्योंकि आजतक जितने जीवन्मुक्त महात्मा हुए हैं वे सब वैराग्य करके ही हुए हैं सो वैराग्य तीन प्रकारका है एक तो मन्द वैराग्य है दूसरा तीव्र है तीसरा तीव्रतर वैराग्य है, स्त्रीपुत्रादिकोंमेंसे किसी एकके नष्ट होजानेसे जो वैराग्य होता है वह मन्द वैराग्य कहा जाता है क्योंकि वह थोड़े कालके पीछे नष्ट होजाता है तात्पर्य यह है कि, जिस कालमें किसीका धन या पुत्र स्त्री या कोई

दूसरी प्रिय वस्तु नष्ट होजाती है तब पुत्र्य अपनेको और संसारको दुःखी होकर विकार देने लगता है और कुछ कालके पीछे जब कि तिसका मन संसारके दूसरे पदार्थोंकी तरफ लग जाता है तब वह वैराग्य भी तिसको भूलजाता है इसीका नाम मन्द वैराग्य है और बिना ही किसी दुःखकी प्रातिके विप्रय-मोगोंके त्यागकी इच्छाका उत्पन्न होना जो है इसका नाम तीव्र वैराग्य है और अपनी अभिलाषाके अनुकूल समस्त राज्यादिक सांसारिक पदार्थ तथा स्त्री, पुत्र आदिके वर्तमान होनेपर भी उनके त्यागकी इच्छाका जो उत्पन्न होना है उसे तीव्रतर वैराग्य कहते हैं सो ऐसे वैराग्यवान् अर्थात् ज्ञानवैराग्यकी मूर्ति श्रीस्वामी दत्तात्रेयजी हुए हैं और जिसवास्ते वह अवधूत होकर संसारमें विद्ये हैं इसी वास्ते उन्होंने “अवधूतगीता” भी बनाई है उन्हींकी “अवधूतगीता” के अर्थोंको हम भाषाटीकामें दिखायेंगे अब प्रथम उनके जीवनवृत्तांतको दिखाते हैं इस वार्ताको तो हिंदूमात्र जानते हैं जो सत्ययुग त्रेता द्वापर कलि यह चारों युग बराबर ही अपनी २ पारीसे आते जाते रहते हैं । जिस जमानेमें सब लोग सत्यवादी और धर्म-मात्मा होते हैं उसी जमानेका नाम सत्ययुग है फिर जिस जमानेमें तीन हिस्सा सत्यवादी और चौथा हिस्सा असत्यवादी होते हैं उसी जमानेका नाम त्रेतायुग है और जिस जमानेमें आधे सत्यवादी और आधे असत्यवादी होते हैं उसका नाम द्वापर है जब कि चौथा हिस्सा सत्यवादी होते हैं तब कलियुग कहा जाता है और जब कि हजारों लाखोंमें एक आधा सत्यवादी होता है और सब असत्यवादी होते हैं तब उस जमानेका नाम घोर कलियुग है सो सत्ययुगमें जब कि, सब लोग सत्यवादी, ये उसी जमानेमें अत्रि नाम करके एक राजपि बड़े भारी तपस्वी राजा हुए हैं उनकी स्त्रीका नाम अनसूया था और अनसूयाके सन्तति नहीं थी, सो सन्ततिकी कामना करके अनसूयाने ब्रह्मा विष्णु और महादेव जो कि, संपूर्ण देवतामें प्रवान हैं इन्हीं तीनों देवताओंकी उपासनाको किया अर्थात् अनसूयाने बड़े भारी नियमको धारण करके इन तीनों देवताओंकी उपासनाको चिरकालतक किया जब कि, तपस्याको, करते २ अनुसूयाको बहुतसा समय व्यतीत होगया तब एक दिन तीनों देवता आकरके

अनसूयासे कहनेलगे हम तुम्हारेपर बडे प्रसन्न हुए है क्योंकि तुमने हमारी बडी कठिन उपासनाको कियाहै अब तुम हमसे वरको मांगो, जिस वरको तुम मांगोगी उसी वरको हम तुम्हारे प्रति देवेंगे । ब्रह्मा आदिक देवतोंकी इस वार्ताको सुनकर अनसूयाने उनसे कहा कि, यदि तुम तीनों देवता हमारेपर प्रसन्न हुए हो तो तुम तीनों देवता पृथक् २ पुत्ररूप होकर मेरे उदरसे जन्मको धारण करो अनसूयाकी इस प्रार्थनाको सुनकर तीनों देवतोंने तथास्तु कहा अर्थात् हम तीनों तुम्हारे घरमें पुत्ररूप होकर उत्पन्न होवेंगे इस प्रकारका वर अनसूयाको देकर तीनों देवता चलेगये फिर कुछ कालके बीतजावेपर तीनों देवतोंने क्रमसे अनसूयाके उदरसे अवतार लिया उन तीनोंमेंसे प्रथम विष्णुने अनसूयाके उदरसे अवतार लिया इनका नाम दत्तात्रेय रक्खा गया जिस कारणसे विष्णुने अपने वचनकी पालना करनेके वास्ते आप ही अनसूयाकी कुक्षिसे जन्मको धारण किया इसी वास्ते सब लोग इनको विष्णुका अवतार कहतेहैं और जैसे विष्णुमें स्वाभाविक ही ज्ञान वैराग्यादिक गुण भरे थे वैसेही स्वामी दत्तात्रेयजीमें भी थे फिर काल पाकर महादेवजीने भी अनसूयाकी कुक्षिसे अवतार लिया तब इनका नाम दुर्वासा रक्खा गया क्योंकि जैसे महादेवजी तमोगुण प्रधान थे वैसेही दुर्वासाका भी अवतार तमोगुणप्रधान था फिर कुछ कालके पीछे ब्रह्माने भी अनसूयाके घरमें अवतार लिया इसका नाम चन्द्रमा हुआ सो ब्रह्माजीकी तरह यह भी रजोगुणप्रधानही हुए । तीनोंमेंसे ज्येष्ठ पुत्र अनसूयाके दत्तात्रेयजी थे, सो वात्स्यावस्यासे ही ज्ञान और वैराग्य करके पूर्ण रहतेथे तथापि जब कि, यह सयाने हुए तब इनके पिताका देहान्त होगया और सब प्रजाने इनको बडा जानकर राजसिंहासनपर विठलादिया, राजा बनकर कुछ कालतक तो यह प्रजाकी पालनाको करते रहे और दुष्टोंको दण्ड देकर सज्जनोंकी रक्षाको भी करतेरहे कुछ कालके पीछे इनके चित्तमें राज्यकी तरफसे घृणा उत्पन्न हुई तब राज्यका त्याग करके यह अकेलेही विचरनेलगे इनकी सौम्य और दयालु मूर्तिको देखकर बहुतेसे मुनियोंके लडके भी इनके साथ होलिये और जहां २ दत्तात्रेयजी जायँ वहाँ वह बालक भी सब साथ ही साथ जायँ, कितना ही दत्तात्रेयजीने उन बालकोंको समझाकर हटाना चाहा परन्तु वह किसी प्रकारसे भी न

(८)

दत्तात्रेयवृत्तान्त ।

हटे तब दत्तात्रेयजीने अपने मनमें विचार किया, कि, कोई ऐसा कर्म करना चाहिये जिस कर्मको देखकर इन बालकोंको हमारी तरफसे घृणा उत्पन्न होजाय क्योंकि बिना ग्लानिके यह हमारा पीछा नहीं छोडेंगे ऐसा विचार करके एक दिन दत्तात्रेयजी वनमें विचरते २ एक तालाबके किनारे पर जाकर खडे होगये और कुछ देरके पीछे पानीमें गोता लगाय तीन दिनतक बराबर जलके भीतरही समाधि लगाये बैठे रहे पर तोनी वे मुनियोंके लडके बाहर तालाबके किनारे पर बैठेही रहे, क्योंकि मुनियोंके लडकोंका दत्तात्रेयजीके साथ अतिस्नेह होगया था । जब दत्तात्रेयजीने समाधिते देखा कि, मुनियोंके लडके तो इस तरहसे भी नर्सी हटतेहैं तब उन्होंने योगबलसे एक मायाकी युवा अक्षयावाली स्त्री रची और एक मंदिरकी बोटल रची फिर एक हाथमें तो मंदिरकी बोटलको पकडा और दूसरे हाथमें स्त्रीका हाथ पकडेहुए जलसे बाहर निकले और अपना विहार करनेलगे तब उनके इस निन्दित आवरणको देखकर मुनियोंके बालक भी सब इलगेये और कहनेलगेकि, यह तो उन्मत्त होगयेहैं अब इनका संग करना अच्छा नहीं है । जब कि सब मुनियोंके बालकोंने उनका पीछा छोडदिया तब दत्तात्रेयजीने उस मायाकी स्त्री और मंदिरकी बोटलका भी अपनी मायामें लयकरदिया और नम्र अवचूत होकर विचरने लगे विचरते २ कभी २ तो ग्रामोंमें जाकर लोगोंको अपने दर्शनमें कृतार्थ करते और कभी नगरोंमें जाकर लोगोंको अपने उपदेशमें कृतार्थ करते और कभी वनोंमें और पर्वतोंमें जाकर विचरते और कभी शून्यमन्दिरोंमें जाकर ध्यानावस्थित होकर बैठे रहते । श्रीस्वामी दत्तात्रेयजी वासनासे रहित होकर और जीवन्मुक्त होकर संसारमें जहां तहां विचरतेये और अपने कालको व्यतीत करतेये । एक दिन दत्तात्रेयजी अपने आपने नम्र मस्त हस्तीकी तरह बले जातेये, इनको मस्त देखकर एक राजाने इनसे पूछा आपको ऐसा आनन्द किस गुरुसे मिला है जो आप संपूर्ण चिन्तासे रहित होकर मस्त हस्तीकी तरह होकर विचरते फिरतेहैं । राजाके इस वाक्यको सुनकर श्रीस्वामीदत्तात्रेयजीने कहाः—

आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः ।

यत्प्रत्यक्षानुमानान्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ १ ॥

पुरुषका विशेषकरके गुरु अपना आत्मा ही है क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानसे अपने आत्माके ज्ञानसे ही पुरुष कल्याणको प्राप्त होताहै ॥ १ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! मैंने किसी एक मनुष्यको गुरु नहीं बनायाहै और न मैंने किसीसे कानोंमें झूफ मरवाकर मंत्र ही लियाहै किन्तु जिस २ से जितना २ गुण हमको मिलाहै उतने २ गुणका प्रदाता मानकर मैंने उस २ को गुरु बनायाहै इसीसे मैंने २४ को अपना गुरु मानाहै क्योंकि उनमेंसे हरएकसे हमको एक २ गुण मिलाहै इसवास्ते मैं उन सबको गुरु करके मानताहूँ । राजाने कहा कि, हे महाराज ! जिन चौबीसोंसे आपको गुण मिलेहैं उन सबके भिन्न २ नामोंको हमारे प्रति आप निरूपण करें और जो २ गुण उनसे आपको जिस २ रीतिसे मिलाहै उस २ गुणका भी आप हमारे प्रति निरूपण करें जिससे मेरेको भी उन गुणोंका और उनके फलोंका यथार्थ रीतिसे बोध होजाय ॥

दत्तात्रेयजीने राजाको जिज्ञासु जानकर कहा कि, हे राजन् ! तुम एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो प्रथम हम आपको उन चौबीस गुरुओंके नामोंको सुनातेहैं और फिर उनके गुणोंको श्रवण करावेंगे १ पृथिवी, २ जल, ३ अग्नि, ४ वायु, ५ आकाश, ६ चन्द्रमा, ७ सूर्य्य, ८ कपोत, ९ अजगर, १० सिंधु, ११ पतंग, १२ अमर, १३ मधुमाक्षिका, १४ गज, १५ मृग, १६ मीन, १७ पिंगला, १८ कुररपक्षी, १९ बालक, २० कुमारी, २१ साँप, २२ शरकत, २३ मकड़ी, २४ भृंगी, यह चौबीस गुरुओंके नाम हैं । इन्हीं चौबीस गुरुओंसे जो २ हमको गुण मिलेहैं उन सब गुणोंको भी आपके प्रति हम सुनातेहैं. हे राजन् ! क्षमा और परोपकार करना ये दो गुण हमको पृथिवीसे मिलेहैं, पृथिवी अपने प्रयोजनसे बिना संपूर्ण जीवोंके लिये अनेक प्रकारके पदार्थोंको उत्पन्न करतीहै और ताडना करनेसे भी वह बदलेको नहीं चाहतीहै ऐसी वह क्षमाशीलहै फिर जो कोई और भी पृथिवीसे इन गुणोंको ग्रहण करलेताहै वह भी संसारमें जीवन्मुक्त होकर विचरताहै इसमें कोई भी संदेह नहीं है इसीवास्ते हमने पृथिवीसे इन गुणोंको ग्रहण करके उसे अपना गुरु बनायाहै ॥ १ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! जलसे स्वच्छता और माधुर्यता ये दो गुण हमको मिलेहैं जैसे जल अपने स्वभावसे स्वच्छ और मधुर भी है तैसे मनुष्यको भी अपने स्वभावसेही स्वच्छ और मधुर भी होना चाहिये क्योंकि आत्मा अपने स्वभावसेही शुद्ध और सुखरूप भी है इसवास्ते मनुष्यको भी उचित है कि, छलकपटसे रहित होकर मधुर ही भाषण करे क्योंकि ये गुण कल्याणकारक हैं ये दो गुण हमको जलसे मिलेहैं इसवास्ते जलको भी हमने गुरु मानाहै ॥ २ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! अग्निका अपना उदर ही पात्र हैं जितना द्रव्य अग्निमें डालाजाताहै तिसको अग्नि अपने उदरमेंही रखलेता है तैसेही मैंने भी अपने उदरको ही पात्र बनाया हू क्योंकि मुझको भी समयपर जितना भोजन मिलजाताहै तिसको मैं भी अपने उदरमें ही रखलेता हूँ अपने पास दूसरे समयको वास्ते कुछ भी नहीं रखताहूँ इसीसे मैंने अग्निको भी गुरु बनाया है ॥ ३ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! जैसे वायु सर्वकाल चलता रहता है परन्तु किसी भी पदार्थमें आसक्त नहीं होताहै और जो शरीरके भीतर वायु है सो केवल आहार करके ही सन्तोषको प्राप्त होजाताहै और जो किसी भोगकी इच्छाको वह नहीं करता है वैसे हम भी चलते फिरतेहैं परन्तु किसीमें भी आसक्त नहीं होतेहैं और समयपर जो आहार मिलजाताहै तिसी करके सन्तोषको प्राप्त होजातेहैं और अधिक भोगकी इच्छाको भी हम नहीं करतेहैं इसीवास्ते हमने वायुको भी गुरु बनाया है ॥ ४ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! जैसे आकाशमें तारागण और वायु तथा बादल आदि रहतेहैं परन्तु आकाशका किसीके भी साथ सम्बन्ध नहीं होताहै किन्तु आकाश सबसे असंग ही रहताहै, और आकाश व्यापक भी है और असंग भी है तैसे आत्मा भी व्यापक है और असंग है इसीवास्ते शरीरादिकोंके साथ आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है और संसारमें रहकर भी किसीके साथ यह आत्मा लिप्त नहीं होताहै इस असंगतारूपी गुणको मैंने आकाशसे लियाहै इसीवास्ते आकाशको भी मैंने अपना गुरु बनायाहै ॥ ५ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! जैसे चन्द्रमण्डल सर्वकाल एकरस रहता अर्थात् न घटताहै न बढ़ताहै किन्तु पूर्णरूपसे उद्योक्ता त्यों रहताहै और जैसे

चन्द्रमंडलके जितने २ मागोंपर पृथिवीमंडलकी छाया पडतीजाती उतना २ भाग तिसका न्यूनसा प्रतीत होनेलगताहै परन्तु स्वरूपसे वह न्यून नहीं होता है किन्तु एकरस ही रहताहै वैसे आत्मामें भी घटना बढना नहीं होताहै किन्तु सर्वकाल एकरस ज्योंका त्यों ही रहताहै । आत्माकी पूर्णताका ज्ञानरूपी गुण हमने चन्द्रमासे लियाहै इसवास्ते हमने चन्द्रमाको भी गुरु माना है ॥ ६ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! जैसे सूर्य्य अपनी किरणोंके द्वारा जलको पृथिवीतलसे खींचकर फिर समयपर तिसका त्याग करदेताहै तैसे ही विद्वान् पुरुष भी इन्द्रियापेक्षित वस्तुओंका ग्रहण करके भी फिर उनका त्याग ही करदेताहै इस गुणको हमने सूर्य्यसे लियाहै इसवास्ते सूर्य्यको भी हमने गुरु बनायाहै ॥ ७ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! स्नेहका त्यागरूपी गुण हमने कपोतसे लिपिहै सो दिखाते हैं । वनमें एक वृक्षके ऊपर कपोत और कपोतिनी दोनों रहतेथे उन्होंने उसी वृक्षपर बच्चोंको भी उत्पन्न किया जब कि, उनके बच्चे दाना खानेलगे तब कपोत और कपोतिनी दोनों इधर उधरसे दाना लाकर उनको खिलानेलगे जब कि, वह दोनों बच्चे कुछ बड़े होगये तब उसी वृक्षके नीचे वह भी इधर उधर घूमकर खेलनेलगे । एक दिन एक फंदकने वहांपर आकर जालको लगाकर उन दोनों बच्चोंको उस जालमें फँसालिया इतनेमें वह कपोत और कपोतिनी भी अपने वृक्षपर आगये और अपने बच्चोंको जालमें बाँधाहुआ देखा दोनों ही स्नेहके वशमें होकर रुदन करनेलगे बहुतसा रुदन करके कपोतिनीने कहा कि, जिसकी सन्तति कष्टको प्राप्त होकर मारीजाय तिसका जीनेसे मरना ही अच्छा है इस प्रकार शोक कर वह कपोतिनी तिसी जालमें गिरपडी, उसको भी फंदकने बाँधलिया तब कपोतने भी विलाप करके कहा जिसका कुटुंब नष्ट होजाय तिसका मरना ही अच्छा है अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा ऐसे कहकर कपोतभी उसी जालमें गिरपडा । फंदकने उसको भी बांध लिया और चलीदिया । हे राजन् ! स्नेहके वशमें प्राप्त होकर वह कपोत और कपोतिनी भी मारेगये इससे सिद्ध होताहै कि, संपूर्ण जीवोंके जन्म और मरणका हेतु स्नेह ही है और स्नेहका त्याग

ही मोक्षरूपी सुखका परम साधन है सो स्नेहका त्यागरूप ही गुण मैंने कपोतसे सीखाहै इसीवास्ते मैंने कपोतको भी गुरु बनाया है ॥ ८ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! जैसे अजगर एक स्थानमें पड़ा रहताहै अपने भोजनके लिये भी यत्न नहीं करताहै जो कुछ तिसको दैवयोगसे प्राप्त होजाताहै उसीमें सन्तुष्ट रहताहै उससे अधिककी इच्छाकोभी वह नहीं करताहै इसी प्रकार हम भी शरीरके योगक्षेमकी इच्छाको नहीं करते हैं. यह गुण हमने अजगरसे लियाहै इसीवास्ते हमने अजगरको भी गुरु करके मानाहै ॥ ९ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! जैसे हजारों नदियां समुद्रमें जाकर मिलतीहैं परन्तु समुद्र अपनी मर्यादासे चलायमान नहीं होता है तैसे विद्वान्का मन भी अनेक प्रकारके विषयोंके प्राप्त होनेपरभी चलायमान नहीं होताहै । सो मनका अडोल रखनारूपी गुण हमने समुद्रसे लियाहै, इसीवास्ते हमने समुद्रको भी अपना गुरु मानाहै ॥ १० ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! जैसे पतंग रूपको देखकर अग्निमें भस्म होजाताहै और तिसका निशान भी नहीं मिलताहै । तैसे ही सुन्दर स्त्रियोंके रूपको देखकर पुरुषका मन भी तिसीमें लीन होजाताहै और संसारकी तिसको कोई भी खबर नहीं रहतीहै सो मनको आत्मामें लीन करदेना ही जीवन्मुक्तिकी साधन है यह गुण हमने पतंगसे लिया है । इससे हमने पतंगको भी अपना गुरु बनाया है ॥ ११ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! जैसे अमर एक पुष्पसे अरासा रस लेकर फिर दूसरे पुष्पपर चलाजाताहै उससे रस लेकर फिर तीसरे पुष्पसे रस लेताहै अर्थात् थोड़ा २ रस हरएक पुष्पसे लेकर बहुतसारा रस जमा करलेताहै तैसे हम-भी हरएक गृहसे एक १ रांटीके ग्रासको लेकर अपने उदरको भरलेतेहैं यह गुण हमने अमरसे लियाहै इससे हमने अमरको भी गुरु बनायाहै ॥ १२ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! मक्षिका जब बहुतसा मधु जमा करलेतीहै तब एक दिन शिकारी मनुष्य उनको मारकर जमा किया हुआ सब मधु उनसे छीन करके लेजाताहै और जैसे मक्षिका बड़े काष्ठसे मधुको जमा करतीहै इसी तरहसे मनुष्य भी बड़े २. कष्टोंको उठाकर पदार्थोंको इकट्ठा करते हैं और जिस-

कालमें यमराजके दूत आकर उनको पकडकर लेजातेहैं तब वे तो खाली हाथही चले जातेहैं और उनके पदार्थोंको दूसरा कोई आकर लेजाताहै इससे सिद्ध हुआ कि, संग्रह करनेमेंही महान् दुःख होताहै सो संग्रहका न करनारूपी गुण हमने मधुमक्षिकासे लिया है इसवास्ते हमने तिसको भी गुरु माना है ॥ १३ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! काम करके मदान्ध हुआ हाथी कागजोंकी हाथिनीको देखकरके गढेमें गिरपडताहै और फिर जन्मभर सैकड़ों लोहके धंकु-शोंको अपने शिरपर खातारहताहै तैसे ही कामातुर पुरुष भी स्त्रीको देखकर संसाररूपी गढेमें गिरपडतेहैं सो यह स्त्रीका त्यागरूपी गुण हमने गजसे लियाहै सो यह इससे गजको भी अपना गुरु बनाया है ॥ १४ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! हिरनको राग सुननेका बडा मारी व्यसन है और रागके ही पीछे वह बंधायमान भी होजाताहै इसी कारण शिकारी तिसको बांध भी लेताहै । तैसेही कामी पुरुष भी सुंदर स्त्रियोंके गायनको सुनकर और उनके हावभावरूपी कटाक्षों करके बंधायमान भी होजाताहै सो श्रोत्र इंद्रियका विषय सुंदर गायन है सो तिसको बंधनका हेतु जानकर उसका त्यागरूपी गुण हमने मृगसे लियाहै इससे मृगको भी हमने गुरु बनाया है ॥ १५ ॥

दत्तात्रेयजां कहते हैं—हे राजन् ! जैसे मछली आहारके लोभसे कुंडीमें फँस जातीहै तैसे ही आहारके लोभसे पुरुष भी परतन्त्र होजाताहै और परतन्त्र होकर अनेक प्रकारके दुःखोंको उठाताह सो आहारके लिये लोभका त्याग हमने मछलीसे सीखाहै इसवास्ते तिसको भी हमने गुरु बनायाहै ॥ १६ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! निराशतारूपी गुण हमने बेश्यासे लियाहै सो दिखाते हैं, किसी नगरमें पिंगला नामक बेश्या रहती थी सन्ध्याके समय वह नित्य ही हारशृंगार करके अपनी खिडकीमें ग्राहकके वास्ते बैठती थी जब कि, कोई ग्राहक आजाता तब तिसको लेकर सो जाती । एक दिन संध्याको खिडकीमें बैठकर अपने ग्राहककी आशा करनेलगी जब बहुतसी रात्रि बीतगई और कोई भी ग्राहक तिसके पास नहीं आया तब वह उठकर मकानके भीतर चलीगई थोडा देरके पीछे पुरुषकी आशासे फिर वह बाहर निकल आई फिर थोडी देरके पीछे भीतर चलीगई इसी प्रकार करते जब तिसको

आधी रात्रि व्यतीत होगई और कोई भी तिसके पास ग्राहक नहीं पहुँचा तब तिसके मनमें ऐसा विचार उठा कि, हमको धिक्कार है और हमारे इस पेशेको भी धिक्कार है जो मैं व्यभिचार कर्मके लिये कमी बाहरको जातीहूँ और कमी भीतरको जातीहूँ यदि मैं परमेश्वरके साथ मिलनेकी इतनी आशा छगाती तो क्या जानं मेरेको कौनसी उत्तम पदको प्राप्त होजाती ऐसे कहकर जब वह निराश होगई तब भीतर जाकर बड़े आनन्दके साथ सोभी रही सो यह निराशतारूपी गुण हमने वेश्यासे ग्रहण कियाहै इसलिये वेश्याको भी हमने गुरु बनायाहै और योगवासिष्ठमें भी रामजीने आशाको ही बंधनका हेतु कहा भी है ॥

आशाया ये दासास्ते दासाः सन्ति सर्वलोकस्य ।

आशा येषां दासी तेषां दासायते विश्वम् ॥ १ ॥

अन्यच्च—

तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम् ।

येनाशाः पृष्ठतः कृत्वा नैराश्यमवलम्बितम् ॥ २ ॥

ते धन्याः पुण्यभाजस्ते तैस्तीर्णः क्लेशसागरः ।

जगत्संमोहजननी यैराशाऽऽशीविषी जिता ॥ ३ ॥

इस संसारमें जो पुरुष आशाके दास हो रहे हैं अर्थात् जिन्होंने स्त्री पुत्र धनादिकोंकी प्राप्ति की और चिक्काळ तक जीनेकी आशा लगाई है उनको सब लोगोंका दास ही होना पड़ताहै और आशाको जिन्होंने अपनी दासी बना लियाहै संपूर्ण जगत् उनका दास बन गयाहै ॥ १ ॥ उसी पुरुषने संपूर्ण शास्त्रोंका अध्ययन कर लियाहै और उसीने सबशास्त्रका श्रवण भी किया जिसने आशाको पीछे हटाकर निराशताको अंगीकार कर लियाहै ॥ २ ॥ संसारमें वही पुरुष धन्य है और वही महात्मा भी है जो कि, दुःखरूपी संसारसे तरगये है और जिन्होंने जगत्को मोहन करनेवाली आशाका नाश कर दिया है ॥ ३ ॥ आशा ही जन्म और मरणका हेतु है जो निराश होगये हैं वही मुक्त होगये हैं ॥ १७ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—कि, हे राजन् ! कुरुर नामक एक पक्षी होताहै उस कुरुर पक्षीको कहींसे एक मांसका टुकड़ा मिला तिसको लेकर वह आकाशमार्गसे उम्मेदपर उडा जाता था कि, कहींपर बैठकरके इसको मैं खाऊँगा । तिस पक्षीके मुखमें पकड़ेहुए टुकड़ेको देखकर और भी पक्षी तिसको छीननेके वास्ते तिसके पीछे दौड़े और तिसको मारनेलगे उस कुरुर पक्षीने देखा कि, इस मांसके टुकड़ेके लिये सब पक्षी मेरेको मारतेहैं यदि मैं इसको फेंक देऊँगा तो वह मेरेको नहीं मारेंगे ऐसा विचार करके उसने तिस टुकड़ेको भूमिपर फेंकदिया तब सब पक्षियोंने तिसको मारना भी छोड दिया और वह भी मारखानेसे बचगया । इसी प्रकार पुरुषने भी जबतक भोगोंको पकडरक्खा है तबतक दुष्ट तस्करादिकोंकी मारको पडा खाताहै जब त्याग करदेताहै तब उनकी मारसे बच जाताहै । सो भोगोंका त्यागरूपी गुण मैंने कुरुरपक्षीसे लिया है इसवास्ते मैंने कुरुरपक्षीको भी गुरु बनाया है ॥ १८ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन्! जैसे दूध पीनेवाले बालकको किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं होतीहै किन्तु दूधको पान करके अपने आनन्दमें मग्न होकर वह पडा रहता है और आनन्दसे हंसता ही रहताहै तैसे भिक्षान्नको भोजन करके हम भी चिन्तासे रहित होकर पडे रहतेहैं । यह गुण हमने दूध पीनेवाले बालकसे लिया है इसलिये तिसको भी हमने गुरु माना है ॥ १९ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! एकग्राममें हम भिक्षाके वास्ते गये और वहां देखा कि एक ब्राह्मणके घरके और सब लोग तो कहीं गये एक कुमारी कन्या ही अकेली घरमें थी और एक भिक्षुकने धाकर उसीके द्वारपर हरिनारायण जगाया, तब कन्याने कहा महाराज ठहरजावो मैं धानोंको कूटकर घावल निकाल करके आपके प्रति भिक्षाको देती हूँ भिक्षुक तो बाहर खडा होगया और भीतर घरमें वह कन्या जब धानोंको कूटने लगी तब तिसके हाथकी चूड़ियाँ छन २ करनेलगीं उनके छन २ शब्दसे कन्याको लज्जा आई तब वह एक २ करके उतारने लगी जब दो बाकी रह गईं तब भी थोडा २ शब्द होता ही रहा जब एक ही बाकी रह गई तब शब्दका होना भी बंद होगया तब सो मुझे यह निश्चय हुआ कि—

वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ता द्वयोरपि ।

एकाकी विचरेद्विद्वान्कुमार्या इव कंकणः ॥ १ ॥

बहुतसे आदमियोंमें निवास करनेसे नित्य ही लड़ाई झगडा होता है एवं दोके इकहा रहनेसे भी बातें होती हैं विचार ध्यान नहीं होता है इसवास्ते विद्वान् कुमारीके कंगनकी तरह अकेला ही विचरे सो हे राजन् ! अकेला रहना यह गुण हमने कुमारी कन्यासे लिया है इसवास्ते हमने तिसको भी गुरु बनाया है २०

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! जैसे सर्प अपना घर नहीं बनाता है किन्तु बने बनाये घरमें वह रहता है तैसे हम भी अपने घरको नहीं बनाते हैं किन्तु बने बनाये मन्दिरों और गुफाओंमें रहते हैं यह गुण हमको सर्पसे मिला है इसलिये हमने सर्पको भी अपना गुरु बनाया है ॥ २१ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! किसी नगरके बाजारमें अपनी दुकानपर एक बाणोंका बनानेवाला बाण बनारहाथा और बाणके सीधा करनेमें उसकी दृष्टि जमी थी, दैवयोगसे उसी समय राजाकी सवारी आ निकली पर तिसकी दृष्टि सवारीपर न गई क्योंकि वह बाणको सीधा करनेके लिये एक दृष्टिसे देखरहाथा जब राजाकी समस्त सेना तिसके आगेसे निकल गई तब पीछेसे एक सवारने आकर उससे पूछा कि क्या इधरको राजाकी सवारी गई है ? तब उसने कहा हम नहीं जानते ह ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! तिसका मन बाण बनानेमें ऐसा एकाकार हुआ था जिससे सामनेसे भी जाती हुई फ़ैजको उसने नहीं देखा था सो मनके एकाग्र करनेका गुण हमने उस बाण बनानेवालेसे सीखा है इसवास्ते हमने उसको भी गुरु बनाया है ॥ २२ ॥

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे राजन् ! जैसे मकड़ी एक छोटासा जीव होता है वह अपने मुखसे तारको निकालकर फिर उसीमें फँस जाता है तैसे जीव भी अपने मनसे अनेक प्रकारके संकल्परूपी तारोंको निकालकर फिर उन्हींमें फँसजाता है । सो मनके संकल्पोंका त्याग हमने मकड़ीसे सीखा है इसवास्ते मकड़ीको भी हमने गुरु बनाया है ॥ २३ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं हे राजन् ! भृंगी एक जीव होताहै सो एक कीटको पकडकर अपने घोंसलेमें उसको लाकरके अपने सम्मुख रखकर शब्दको करंताहै । वह कीट उसी भृंगीके शब्दको सुनकर भृंगीरूप होकर और फिर तिस भृंगीमें मोहका त्याग करके उडजाताहै तैसे हम भी इस देहमें आत्माका ध्यान करके आत्मरूप होकर देहमें मोहको नहीं करते हैं सो देहमें मोहका व्यागरूपी गुण हमने भृंगीसे सांखाहै इसवास्ते तिसको भी हमने गुरु बनायाहै ॥ २४ ॥

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे राजन् ! मेरेको चौबीस गुरुओंसे परमार्थका बोध हुआहै इसलिये मैं अब अपने स्वरूपमें स्थित हूं आत्मानन्दको प्राप्त होकर जीवमुक्त होकरके संसारमें विचरताहूं । इसीवास्ते मैं विन्तासे रहित होकर और निर्द्वंद्व होकरके विचरताहूं । दत्तात्रेयजीके उपदेशसे राजाको भी आत्मज्ञानका लाभ हुआ और राजा भी मोहसे रहित होकर अपने घरको अलगये और दत्तात्रेयजी फिर मस्त हस्तीकी तरह आत्मानन्दमें मग्न होकर विचरनेलगे । आठ महीना तो दत्तात्रेयजी एक स्थानमें निरन्तर ही रहतेथे किन्तु जहाँ तहाँ रागसे रहित होकरके विचरते ही रहते थे और वर्षाऋतुके ऋतुर्मासमें निरन्तर एक स्थानमें रहजाते थे । सो ऋतुर्मासमें जिन २ स्थानोंमें उन्होंने निवास कियाहै वह स्थान आजतक उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हैं और तीर्थरूप करके पूजे भी जातेहैं क्योंकि जिस २ स्थानमें स्थित होकर महात्मा लोग तप-या निवास करतेहैं वह स्थान तीर्थरूप और दूसरोंको पवित्र करने वाला होजाताहै । दत्तात्रेयजीका एक स्थान गोदावरीके किनारेपर नासिकसे कुछ दूर है और दूसरा जूनागढसे तीन मील पर गिरनार पर्वतपर है, तीसरा कडभीरके श्रीनगरशहरसे दो मील दूर एक पर्वतपर है और भी बहुतसे स्थान उन्हींके नामसे प्रसिद्धहैं श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीके जिवनचरित्रसे यह वार्ता सिद्ध होतीहै कि जितना गुण जिससे जिसको मिलजाय वह उतने गुणका उसको गुरु मानलवे और वह गुण चाहे व्यवहारको सुधारनेवाला हो चाहे परमार्थको सुधारनेवाला हो और गुणका लेना सबसे उचित है, दोषका छोडदेना भी एक गुण है और कानमें झूक लगाकर आजकल जो गुरु बन जातेहैं वह तो एक अपनी जीविकाके वास्ते करते

हैं। आजकल भारतवर्षमें दम्भ पाखण्ड बहुत बढ़ गया है इसीवास्ते दम्भियोंने वेद और शास्त्रकी रीतिको हटाकर अपने नये २ पाखण्डोंको चलाकर नये २ मंत्रोंको बनाकर मखोंके कान फूँककर अपनेको पशु बनालेतेहैं वह मूर्ख भी उनके पूरे २ पशु बन जातेहैं और उन्हीं दम्भियों पाखण्डियोंकी पूजा सेवाआदि करतेहैं सो उनका ऐसा व्यवहार वेदशास्त्रसे विरुद्ध होनेसे नरकका ही हेतु है इसीवास्ते उनको इस लोक और परलोकमें भी सुख नहीं मिलताहै इसवास्ते मुमुक्षुको उचित है कि, स्वामी दत्तात्रेयजीकी तरह गुणग्राही बनकर संसारमें विचरे किसी बालकके फंदेमें फँसकर कान फूँकवाये तिसका पशु न बने जो वेदान्ती कहातेहैं और फिर कान फूँकवाकर दूसरेके पशु बनतेहैं वह अत्यन्त मूर्खहैं। और जो बच्चोंके कान फूँककरके उनके गुरु बनते हैं वह भी वेदशास्त्रकी रीतिसे स्वार्थी मूर्खही कहे जातेहैं क्योंकि वेदशास्त्रमें ऐसा लेख नहीं है किन्तु शिष्यके संदेहोंको दूर करके तिसको आत्मज्ञानका उपदेश करके तिसके अज्ञानको दूर करदेना ही वेदान्तमें गुरुशिष्यकी रीति है। देखो रामजीने वसिष्ठजीसे कान फूँकवाकर कोई भी मंत्र नहीं सुनाया किन्तु हजारों प्रश्न कियेये और उनके उत्तरोंको देकर जब वसिष्ठजीने उसके अज्ञानको दूर कियाथा तब रामजीने वसिष्ठजीको गुरु माना था इसी तरह अर्जुननेभी श्रीकृष्णजीसे अनेक प्रश्न किये जिगकी कि गीता बनी है, जब अर्जुनके सब संदेह दूर होगयेथे तब भगवान्को गुरु मानाथा कान नहीं फूँकवाये थे ऐसेही जनकजीने याज्ञवल्क्यको गुरु बनायाथा कान नहीं फूँकवाये थे शुक्रदेवजीने जनकजीको गुरु बनायाथा कानोंमें उनसे मंत्र नहीं सुनाया। याज्ञवल्क्यजीने सूर्यसे उपदेश लियाथा कान नहीं फूँकवाये थे। नचिकेताने यमराजसे आत्मविद्याको लियाथा कान नहीं फूँकवाये थे। विदुरजीने सनत्कुमारोंसे आत्मविद्याको ग्रहण कियाथा कान नहीं फूँकवाये थे कहांतक कहै इसी प्रकार और भी बड़े २ तत्त्ववेत्ता वेदान्ती पूर्व युगोंमें हुए हैं और इस युगमें भी गुरुनानकजीसे आदिलेकर महात्मा वेदान्ती हुए हैं उन्हींने भी किसीसे नहीं फूँकवायेथे इन्हीं युक्तियोंसे और उपनिषदादिके प्रमाणोंसे यह बात सिद्ध होती है कि, वेदान्तके सिद्धान्तमें कान फूँककर गुरु बनना और कान फूँकवाकर बच्चा बनना यह व्यवहार नहीं है इसने जो कि ऐसा करतेहैं वह मूर्ख या दम्भी पाखंडी

कहे जाते हैं और जो कर्मी हैं, वेदान्ती नहीं हैं और द्विज हैं उनके लिये संस्कारोंके समयमें यज्ञोपवीत करानेवालेसे गायत्री मंत्रका उपदेश लेना कहा है क्योंकि विना गायत्री मंत्रके शूद्र ही होता है और फिर गायत्रीमंत्रके ऊपर दूसरा कोई भी शिवमंत्र या और कोई भी मंत्र लेकर गुरु बनाना द्विजा-तिके वास्ते नहीं लिखा है जो कर्मी कहाते हैं और फिर गायत्रीमंत्रके ऊपर अपना दूसरा शिवादिकोंका मंत्र कानोंमें फूँककर गुरु बनकर चेलोंके घनको वंचन करते हैं वह दम्भी कलियुगी गुरु कहेजाते हैं और वह चले भी मर्ख ही कहे जाते हैं । वस पूर्वोक्त युक्तियोंसे यह वार्ता सिद्ध होती है कि, आज-कलके कलियुगी मनुष्य वेद और शास्त्रके विरुद्ध व्यवहारका प्रचार करके लोगोंके और अपने धर्मका नाश कर रहे हैं इसवास्ते मुमुक्षु पुरुषोंको उचित है कि, श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीकी तरह गुणप्राही बनें और कलियुगी गुरुओंके फंदेमें न फँस और हरएक महात्मोंके सत्संगसे गुणोंको ग्रहण करके संसारमें राजा जनककी तरह या श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीकी तरह होकरके विचरें ॥

श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीके जीवनवृत्तान्तका तो संक्षेपसे वर्णन कर दिया अब उनकी बनाईहुई जो “अवधूतगीता” है जिसमें कि, उन्होंने अपने अनुभवका निरूपण किया है तिसकी मायाटीकाका प्रारम्भ करेंगे । जिसको पढ़कर सब लोग लाभ उठावेंगे. इस टीकामें प्रथम ऊपर मूल फिर नीचे पदच्छेद तिसके नीचे पदार्थ अर्थात् प्रत्येक पदका अर्थ फिर नीचे भावार्थ लिखा है जिसको कि, थोडासा भी हिन्दीका बोध होगा वह भी इसके तात्पर्यको भले प्रकारसे जान लेवेगा ।

इति श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीका वृत्तान्त ।



अवधूतगीताकी विषयानुक्रमणिका ।



अध्यायोंका:

विषया:

पृष्ठोंका:

- १ मङ्गलाचरण, आत्माका निरूपण, "अहम्" और "मे" शब्दका व्याख्यान, ब्रह्म और आत्माका ऐक्यभाव, ब्रह्मतत्त्वज्ञा स्वरूप, आत्मज्ञानज्ञा उपदेश अवधूत और शिष्यका संवाद १
- २ गुणाद्गुणस्वरूपका वर्णन, निर्द्वन्द्वभावका कथन, स्थूलसूक्ष्मस्वरूप, पञ्चमहाभूतोंकी परिस्थिति, ज्ञानमैदवर्णन, गुह्यप्रसादका प्रभावकथन ६७
- ३ जीवशिवज्ञा ब्रह्मैक्यकथन, जीव और गगन इतका साम्यवर्णन, जीव तत्र पदायोंसे रहित है ऐसा संदर्भपूर्वक वर्णन, संसारका त्याग करनेके वास्ते उपदेश १००
- ४ शिवका पूजनतत्त्व जिसमें है वैसा समाप्तमनुद्धि रखनेके वास्ते श्रद्धित्तान्त्रेयजीकी शिष्यको उपदेश, ब्रह्म और जीवकी सर्वव्यापिताका वर्णन १४९
- ५ प्रणवका स्वरूपवर्णन तथा वर्णाक्षरका और ब्रह्मका साम्यभावका वर्णन, तत्त्वमसिप्रभृति महावाक्योंका अर्थ विवरणपूर्वक मनका समाधानकरण, ज्ञानतत्त्वनिर्णय १७२
- ६ जीव और ब्रह्मविषयमें श्रुतियोंका अभिप्राय कथन, जीव और ब्रह्मका सत्त्वसे ही सत्यत्वका वर्णन, ब्रह्मके विना सत्त्व यज्ञादि तुच्छ हैं ऐसा निरूपण, मोक्षका निर्णय २०६
- ७ जीवका वसतिस्थान और परिस्थितिका दिग्गवरूपसे वर्णन, योगी और योगीका अर्थ कथन, जीवशिवकी जन्ममरणसे रहितताका वर्णन २२९
- ८ मनको विषयादिसे लोडुशताको दूर करनेके वास्ते उपदेश कथन, अवधूतका लक्षण, अवधूतशब्दकी व्याख्या, ज्ञानका त्याग करनेके विषय निश्चरूपसे विषयका वर्णन, मनको अवश्य ही वशमें रखना चाहिये ऐसा उपदेशरूपसे वर्णन, प्रथोपसंहार २३७

इति अवधूतगीताकी विषयानुक्रमणिका संपूर्ण ।



अथावधूतगीताः

भाषाटीकासहितौ

ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासिनाम् ।
महद्भयपरित्राणा विप्राणामुपजायते ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

ईश्वरानुग्रहात्, एव, पुंसाम्, अद्वैतवासिनाम् ।
महद्भयपरित्राणा, विप्राणाम्, उपजायते ॥

पदार्थः ।

ईश्वरानुग्र- हात्	} = ईश्वरके अनुग्रहसे, कृपासे.	महद्भयपरि- त्राणा	} = महान् भयसे रक्षा को करनेवाली
एव	= निश्चय करके	अद्वैतवासिनाम्	= अद्वैतकी वासिनाम्
पुंसाम्	= पुरुषोंके मध्यमें	उपजायते	= उत्पन्न होतीहै ।
विप्राणाम्	= विप्राओंके		

भाषार्थः ।

श्रांस्वामी दत्तात्रेयजी कहतेहैं—ईश्वरको कृपासे ही पुरुषोंको अद्वैतकी वासिनाम्
अर्थात् जीव और ब्रह्मके अमेदकी वासिना उत्पन्न होतीहै । अब इसमें यह
शंका होतीहै कि, यदि ईश्वरके अनुग्रहसे ही अद्वैतकी वासिनायें उत्पन्न होतीं
हैं, तब सभीको अद्वैतकी वासिनायें उत्पन्न होनी चाहिये क्योंकि ईश्वरके

अनुग्रह जीवमात्रपर है, भगवद्गीतामें भी भगवान्ने कहा है—“समोऽहं सर्वभू-
 तेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः” भगवान् कहतेहैं, मैं संपूर्ण प्राणियोंमें सम हूँ
 मेरा किसीके साथ द्वेष और प्रियत्व नहीं है । इसी वाक्यसे ईश्वरका अनुग्रह
 सब जीवोंपर तुल्य ही सिद्ध तो होताहै परन्तु अद्वैतकी वासनायें सबको उत्पन्न
 नहीं होतीहैं तो फिर दत्तात्रेयजीने कैसे कहा ईश्वरके अनुग्रहसे अद्वैतकी
 वासनायें उत्पन्न होतीहैं । इस शंकाका यह उत्तर है—भगवद्गीतामें ही भग-
 वान्ने कहा है—“थे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ॥” जो पुरुष
 जिस २ कामनाको लेकरके मेरा भजन करतेहैं उनको मैं भी उसी प्रकारसे
 भजताहूँ । सो श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीका यही तात्पर्य है कि, जो पुरुष निष्काम
 होकर परमेश्वरकी उपासनाको करताहै उसीके ऊपर ईश्वरका अनुग्रह होताहै
 और ईश्वरके अनुग्रहसे ही अद्वैतकी वासनायें भी उत्पन्न होतीहैं । पुंसाम्—
 पुरुषोंको अर्थात् चारों वर्णोंमेंसे किसी वर्णका भी हो क्याकि आत्मज्ञानमें
 मनुष्यमात्रका अधिकार है । जब कि मनुष्यमात्रपर उसकी उपासनाद्वारा
 कृपा होजातीहै तब फिर जो कि वेदका अम्यास करके विप्रपदवीको प्राप्त
 हुए हैं, वह यदि ईश्वरकी उपासनाको करेंगे तब उनके ऊपर ईश्वरकी कृपा
 क्यों नहीं होवेगी? किन्तु अवश्य ही होवेगी । इसी तात्पर्यको लेकरके विप्रोंको
 भी कहदिया । ननु अद्वैतवासना उत्पन्न होनेसे फिर फल क्या होवेगा ।
 उच्यते “महद्भयपरित्राणा” अर्थात् जन्ममरणरूपी जो महान् भय है उससे
 वह अद्वैतकी वासनायें रक्षा करलेवेगी अर्थात् जन्ममरणरूपी संसारद्वारसे
 वह छूटकरके ब्रह्मरूप होजायगा ॥ १ ॥

ननु—ग्रन्थके आदिमें श्रेष्ठ पुरुष मंगलाचरणको करतेहैं अर्थात् अपने इष्ट-
 देवको नमस्कार करके पीछे ग्रन्थका आरम्भ करतेहैं सो इस ग्रन्थके आदिमें
 स्वामीजीने मंगलाचरणको क्यों नहीं किया है ? उच्यते—जीवन्मुक्तोंका मंग-
 लाचरण इतर प्राकृत भेदवादी पुरुषोंकी तरह नहीं होताहै, क्योंकि उनको
 सर्वत्र एक आत्मदृष्टि ही रहतीहै । सो स्वामीजीने भी भेदका दर्शनरूपी
 मंगलाचरण द्वितीयश्लोक करके दर्शाया है—

येनेदं पूरितं सर्वमात्मनैवात्मनात्मनि ।

निराकारं कथं वन्दे ह्यभिन्नं शिवमव्ययम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

येन, इदम्, पूरितम्, सर्वम्, आत्मना, एव, आत्मना, आत्मनि ।

निराकारम्, कथम्, वन्दे, हि, अभिन्नम्, शिवम्, अव्ययम् ॥

पदार्थः ।

येन = जिस

आत्मना = आत्माकरके

एव = निश्चयसे

आत्मनि = अपनेमें ही

आत्मना = अपने करके

इदम् = यह दृश्यमान

सर्वम् = संपूर्ण जगत्

पूरितम् = पूर्ण हो रहा है तिस

निराकारम् = निराकार आत्माको

कथम् = किस प्रकार

वन्दे = मैं वन्दन करूँ

हि = क्योंकि वह

अभि- } = जीवसे अभिन्न है फिर

न्नम् } वह कैसा है ?

शिवम् = कल्याणस्वरूप है ।

अव्ययम् = फिर वह अव्यय है ।

भावार्थः ।

जिस आत्माकरके अर्थात् जिस चेतन ब्रह्मकरके यह दृश्यमान संपूर्ण प्रपञ्च पूर्ण हो रहा है अर्थात् संपूर्ण प्रपञ्चके भीतर और बाहर वही आत्मा व्यापक होकर स्थित है वह जगत् भी जिस चेतनमें शुक्ति और रजतकी तरह काल्पित होकर स्थित है वास्तवसे नहीं है उस निराकार आत्माको हम कैसे वन्दना करें अर्थात् उसकी वन्दना करनी ही नहीं बनती है क्योंकि वन्दना उसकी की जाती है जिसका कि, अपनेसे भेद होता है उसका तो भेद नहीं है किन्तु वह अभिन्न है "अयमात्मा ब्रह्म" यह अपना आत्माही ब्रह्म है इत्यादि अनेक श्रुतियां इस जीवात्माको ही ब्रह्मरूप करके कथन करती हैं, फिर यह आत्मा कैसा है ? शिवरूप है अर्थात् कल्याणस्वरूप है फिर वह अव्यय है अर्थात् नाशसे भी रहित है । तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मात्मा अपनेसे भिन्न ही नहीं है अर्थात् अपना आत्माही ब्रह्मरूप है तब वन्दना कैसे बन सकती

४)

अवधूतगीता ।

६१ किन्तु कभी नहीं, इसवास्ते इस ग्रन्थके आदिमें अभेदचितनरूप ही मंगल किया है ॥ २ ॥

ननु—ब्रह्म चेतन है, जगत् जब है और जब चेतनका अभेद किसी प्रकारसे भी नहीं बनता है इसीसे अभेदचितनरूपी मंगल भी नहीं बनता है ॥

पञ्चभूतात्मकं विश्वं मरीचिजलसन्निभम् ।

कस्याप्यहो नमस्कुर्यामहमेको निरञ्जनः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

पञ्चभूतात्मकम्, विश्वम्, मरीचिजलसन्निभम् ।

कस्य, अपि, अहो, नमस्कुर्याम्, अहम्, एकः, निरञ्जनः ॥

पदार्थः ।

पञ्चभूता- { = पांच भूतोंका समुदा-
त्मकम् { यरूप ही

विश्वम् = यह जगत् है और

मरीचिजल- { = मृगतृष्णाके जलके
सन्निभम् { सदृश मिथ्या भी है

अपि = निश्चयकरके

अहो = इति खेदे

कस्य = किसको

अहम् = मैं

नमस्कुर्याम् = नमस्कार करूं क्योंकि

एकः = मैं एक ही हूँ

निरञ्जनः = मायामलसे रहित भी हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—यह जितना दृश्यमान जगत् है सो मृगतृष्णाके जलकी तरह मिथ्या है अर्थात् जैसे मृगतृष्णाका जल वास्तवमें नहीं होता है और भ्रम करके प्रतीत होता है तैसे यह जगत् भी वास्तवमें नहीं है किन्तु अज्ञान करके अज्ञानी पुरुषोंको सच्चा प्रतीत होता है परन्तु जिसका अज्ञान दूर हो-या है उसको मिथ्या प्रतीत होता है जब कि चेतनसे भिन्न जगत् सब मिथ्या है और मैं एक ही द्वैतसे रहित मायामलसे रहित शुद्ध हूँ तब फिर नमस्कार किसको करूं नमस्कार तो अपनेसे भिन्न सत्यवस्तु चेतनको किया जाता है ॥ सो अपनेसे भिन्न दूसरा चेतन तो है नहीं और जगत् सब मिथ्या असत्यरूप है । मिथ्या जड़ वस्तुको तो नमस्कार करना बनता नहीं है और एकमें भी यह व्यक्तहार नहीं बनता है इसवास्ते अभेदका चितनरूप मंगल सिद्ध होता है ॥ ३ ॥

आत्मैव केवलं सर्वं भेदाभेदो न विद्यते ।

अस्ति नास्ति कथं ब्रूयां विस्मयः प्रतिभाति मे ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

आत्मा, एव, केवलम्, सर्वम्, भेदाभेदः, न, विद्यते ।

अस्ति, नास्ति, कथम्, ब्रूयात्, विस्मयः, प्रतिभाति, मे ॥

पदार्थः ।

आत्मा=आत्माही
एव=निश्चयकरके
केवलम्=केवल है और
सर्वम्=सर्वरूप भी है तिसमें
भेदाभेदः=भेद और अभेद
न विद्यते=विद्यमान नहीं है
अस्ति=है और

नास्ति=नहीं है
कथम्=किस प्रकार
ब्रूयाम्=मैं कहूँ
विस्मयः=आश्चर्यरूप
मे=मेरेको
प्रतिभाति=प्रतीत होताहै

भावार्थः ।

इत्तान्नेपजी कहतेहैं—संपूर्ण ब्रह्माण्डमें एक आत्मा ही केवल सत्यरूप है आत्मासे भिन्न दूसरा कोईभी पदार्थ सत्य नहीं है किन्तु मिथ्या है और सर्व-रूप आत्मा ही है क्योंकि कल्पित पदार्थकी सत्ता अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होतीहै इसवास्ते संपूर्ण विश्व आत्मासे भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं कहसकतेहैं । क्योंकि संपूर्ण विश्व चक्षु इन्द्रिय करके दिखाई पडताहै यदि अभिन्न हो तब आत्माकी तरह कदापि दिखाई न पडै और दिखाई भी पड-ताहै इसवास्ते अनिर्वचनीय है । जिसका सत्य असत्यरूपसे कुछभी निर्व-चन न होसकै उसीका नाम अनिर्वचनीय है । जैसे श्रुक्तिमें रजत, आका-शमें नीलता, रज्जुमें सर्प यह सब जैसे अनिर्वचनीय हैं क्योंकि सत्य होवें तो अधिष्ठानके ज्ञानसे इनका नाश न हो और यदि असत्य होवें तो इनकी प्रतीति न हो परन्तु इनकी प्रतीति होतीहै और इनका नाश भी होताहै इसी

प्रकार जगत्की भी प्रतीति होताहै और नाश भी इसका होताहै इसवास्ते यह अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय पदार्थका अपने अधिष्ठानके साथ भेद अमेद भी नहीं कहाजाताहै क्योंकि सत्यरूप आनन्दरूप ज्ञानरूप चेतन अधिष्ठान ब्रह्मके साथ असद्रूप दुःखरूप जडरूप प्रपंचका अमेद कदापि नहीं होसकताहै और भेद भी नहीं होसकताहै, क्योंकि सत्य असत्यके अमेदमें कोई भी इष्टान्त नहीं मिलताहै इसवास्ते यह जगत् नास्ति और अस्ति दोनों रूपोंसे नहीं कहाजाताहै । इसीवास्ते विस्मयकी तरह अर्थात् आश्चर्यकी तरह यह जगत् हमको प्रतीत होताहै अर्थात् विना हुए षृगतृष्णाकी तरह प्रतीत होताहै ॥ ४ ॥

ननु दत्तात्रेयजीका सिद्धान्त क्या है ?

वेदान्तसारसर्वस्वं ज्ञानविज्ञानमेव च ।

अहमात्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः ॥५॥

पदच्छेदः ।

वेदान्तरसारसर्वस्वम्, ज्ञानविज्ञानम्, एव, च ।

अहम्, आत्मा, निराकारः, सर्वव्यापी, स्वभावतः ॥

पदार्थः ।

वेदान्तसा-	} = वेदान्तका जो सार अर्थात् है वही हमारा सर्वस्व है	अहम् = मैं ही
रसर्वस्वम्		
च एव = और निश्चय करके		निराकार = निराकार भी हूँ
ज्ञानवि-	} = वही हमारा ज्ञान विज्ञान भी है	स्वभावतः = स्वभावसे ही मैं
ज्ञानम्		सर्वव्यापी = सर्वव्यापी भी हूँ ॥

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—वेदान्तका सारभूत जो अर्थात् ब्रह्मका चिन्तन है वही हमारा सर्वस्व है और वही हमारा ज्ञान विज्ञान भी है अर्थात् परोक्ष तथा अपरोक्ष

ज्ञान भी हमारा वही है और मैं ही व्यापकरूप आत्मा हूँ और निराकार भी हूँ अणु, ह्रस्व, मध्यम और दीर्घ आदि आकारोंसे रहित हूँ और स्वभावसे ही मैं सर्वव्यापी भी हूँ ॥ ५ ॥

यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपमः ।

स्वभावा निर्मलः शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥ ६ ॥

पदच्छेद ।

यः, वै, सर्वात्मकः देवः, निष्कलः, गगनोपमः ।

स्वभावा निर्मलः, शुद्धः, सः, एव, अहम्, न, संशयः ॥

पदार्थः ।

यः = जो

सर्वात्मकः = सर्वरूप

देवः = देव है

वै = निश्चयकरके

निष्कलः = निरवयव है

गगनो- { = आकाशकी तरह अखोल

पमः { है

स्वभाव- { = स्वभावसे ही निर्मल है

निर्मलः {

शुद्धः = शुद्ध है

स एव = सोई निश्चयकरके

अहम् = मैं हूँ

संशय = संशय इसमें

न = नहीं है ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो सर्वरूप प्रकाशमान देव है सो निरवयव है और गगन जो आकाश है उसकी उपमावाला भी है अर्थात् जैसे आकाश किसी प्रकारसे भी चलायमान नहीं होताहै वैसे वह देवभी अर्थात् प्रकाशस्वरूप ब्रह्म भी चलायमान नहीं होताहै और स्वभावसे ही वह निर्मल है स्वच्छ और शुद्ध भी है सोई निर्मल शुद्ध चेतन ब्रह्म मैं हूँ इसमें किसी प्रकारका भी संदेह नहीं है ॥ ६ ॥

अहमेवाव्ययोऽनन्तः शुद्धविज्ञानविग्रहः ।

सुखं दुःखं न जानामि कथं कस्यापि वर्तते ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

अहम्, एव, अव्ययः, अनन्तः, शुद्धविज्ञानविग्रहः ।

सुखम्, दुःखम्, न, जानामि, कथम्, कस्य, अपि, वर्तते ॥

पदार्थः ।

अहम् = मैं ही	सुखम् = सुखको और
एव = निश्चयकरके	दुःखम् = दुःखको
अव्ययः = नाशसे रहित हूँ	न जानामि = मैं नहीं जानता हूँ
अनन्तः = अनन्त भी हूँ और	कथम् = किस प्रकार
शुद्धविज्ञान नविग्रहः } = शुद्ध विज्ञान स्वरूप } भी हूँ	कस्य = किसको
	अपि = निश्चयकरके
	वर्तते = वर्तते हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी अपने अनुभवको कहते हैं—मैं ही अग्नय हूँ अर्थात् नाशसे रहित हूँ, अनन्त हूँ, फिर मैं शुद्धविज्ञानस्वरूप हूँ अर्थात् मायामलसे रहित शुद्ध हूँ और ज्ञानस्वरूप हूँ, फिर मैं सुख और दुःखको भी नहीं जानता हूँ। तात्पर्य यह है कि, जिसका शरीरादिकोंके साथ अध्यास होता है वही शरीरादिकोंके धर्म जो कि सुखदुःखादिक हैं उनको जानता है अर्थात् दूसरोंके धर्मोंको अपनेमें मन्तता है क्योंकि उसका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है और हमारा अज्ञान नष्ट होगया है और देहादिकोंमें हमारा अध्यास भी नहीं रक्षित है, अध्यासके नष्ट होजानेसे देहादिकोंमें हमारी अहंता और प्रमत्ता भी नहीं रही है । अहं-प्रमत्ताके नाश होजानेसे त्रिषयइन्द्रियोंके सम्बन्धसे जन्य जो सुख दुःख हैं उनको भी मैं नहीं जानता हूँ, सुखदुःखादिक किस प्रकार किसको होते हैं किसमें वर्तते हैं क्योंकि जीवन्मुक्त विद्वान्को दृष्टि केवल ब्रह्मके सिवाय दूसरा कोईभी नहीं होता है ॥ ७ ॥

न मानसं कर्म शुभाशुभं मे ।

न कायिकं कर्म शुभाशुभं मे ॥

न वाचिकं कर्म शुभाशुभं मे ।

ज्ञानामृतं शुद्धमतीन्द्रियोऽहम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

न, मानसम्, कर्म, शुभाशुभम्, मे ।

न कायिकम्, कर्म, शुभाशुभम्, मे ॥

न, वाचिकम्, कर्म, शुभाशुभम्, मे ।

ज्ञानामृतम्, शुद्धम्, अतीन्द्रियः, अहम् ॥

पदार्थः ।

मानसम्=मनस

कर्म=कर्म जितने कि

शुभाशुभम्=शुभ और अशुभ है

मे न=मेरेको नहीं लगतेहैं

कायिकम्=शारीरिक

कर्म=कर्म जो कि

शुभाशुभम्=शुभ अशुभ हैं

मे न=मेरेको नहीं लगते हैं

वाचिकम्=वाणीकृत

कर्म=कर्म भी

शुभाशुभम्=शुभ और अशुभ

मे न=मेरे नहीं है क्योंकि

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूपी अमृत

शुद्धम्=शुद्ध और

अतीन्द्रियः=इन्द्रियोंका अविषय

अहम्=मैं हूँ

भावार्थः ।

मनुस्मृतिमें कायिक वाचिक मानसिक ये तीन तरहके कर्म लिखे हैं, शरीरके जितने कि अच्छे बुरे कर्म होतेहैं उनका नाम कायिक है और वाणीकरके जितने अच्छे बुरे कर्म होतेहैं उनका नाम वाचिक है और मनकरके जितने अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनका नाम मानसिक है, शरीरकरके जो कर्म होतेहैं उनका फल उनका फल शरीर ही भोगताहै, वाणी करके जो कर्म होतेहैं उनका फल वाणी ही भोगती है, मनकरके जो अच्छे बुरे कर्म होतेहैं उनका फल पुरुष मनकरके ही भोगता है, क्योंकि अज्ञानी पुरुषोंका इनके साथ अध्यास होताहै इसवास्ते वह शरीरारिकोंके कर्मोंको अपनेमें मानते हैं. ज्ञानवान् जित्नुमुक्तका इनके साथ अध्यास नहीं रहताहै इसवास्ते वह इनके कर्मोंको अपनेमें नहीं मानताहै किन्तु वह अपनेको इनसे असंग चिद्रूप मानताहै सो

दत्तात्रेयजी कहते हैं जिसवास्ते ज्ञानस्वरूप अनृतस्वरूप शुद्ध और इन्द्रियोंके हम अविषय हैं इसीवास्ते कायिक, वाचिक, मानसिक यह तीन प्रकारके कर्म भी हमारे नहीं हैं किन्तु देहादिकोंके हैं । किन्तु हम इनके साक्षी द्रष्टा हैं । ननु—जबतक शरीर विद्यमान है, ज्ञानी भी खानपानादिक और गमनागमनादिक कर्मोंको करता है तब फिर यह कथन नहीं बनता है कि हमारे ये कर्म नहीं हैं । उच्यते—जो अपनेमें कर्मोंको मानता है या जिसको शुभ अशुभ कर्मोंका ज्ञान होता है उसीको कर्मोंका फल भी मिलता है । जो न मानता है और न उसको शुभ अशुभ कर्मोंका ज्ञान ही है तिसको फलभी नहीं होता है जैसे बालक और पागल अपनेमें न तो कर्मोंको मानते हैं और न उनको शुभ अशुभ कर्मोंके स्वरूपका ही ज्ञान है इसी वास्ते उनको कर्मोंका फल भी नहीं होता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्त ज्ञानवान्को भी कायिक वाचिक और मानसिक कर्मोंका फल कुछ भी नहीं होता है क्योंकि एक तो वह अपनेमें मानता नहीं है, द्वितीय आत्मानन्दमें वह सर्वकाल मग्न रहता है इसवास्ते उसको उनका ज्ञान भी नहीं । इसी तात्पर्यको लेकरके दत्तात्रेयजीने भी कहा है ॥८॥

मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोमुखम् ।

मनोऽतीतं मनः सर्वं न मनः परमार्थतः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

मनः, वै, गगनाकारम्, मनः, वै, सर्वतोमुखम् ।

मनः, अतीतम्, मनः, सर्वम्, न, मनः, परमार्थतः ॥

पदार्थः ।

मनः=मन ही

वै=निश्चयकरके

गगनाकारम्=गगनके आकारवाला है

मनः=मन ही

वै=निश्चयकरके

सर्वतो=सर्व ओरको

मुखम्=मुख है

मनः=मनसे आत्मा

अतीतम्=अतीत है

मनः=मन ही

सर्वम्=संपूर्ण विश्व है

परमार्थतः=परमार्थसे

मनः=मन भी

न=सत्य नहीं है

भावार्थः ।

जीवोंका मन जो है सोई गगनके आकारवाला है अर्थात् जिसकालमें मन संकल्पोंको करने लगताहै तत्र संपूर्ण आकाशमें भी व्याप्त हो जाताहै फिर मन कैसा है, सर्व ओर मुखवाला है क्योंकि जिस तरफका संकल्प करताहै उधरकोही वेधडक चलाजाताहै कोई भी इसकी रुकावट नहीं करसकताहै इस वास्ते मनही संपूर्ण विश्वरूप भी है क्योंकि संपूर्ण जगत् इसका बनाया है ब्रह्म मन भी परमार्थसे सत्यरूप नहीं है और आत्मा चेतन मनसे भी अतीत और सूक्ष्म है इसी वास्ते वही सत्यरूप है ॥ ९ ॥

अयमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरन्तरम् ।

पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

अहम्, एकम्, इदम्, सर्वम्, व्योमातीतम्, निरन्तरम् ।
पश्यामि, कथम्, आत्मानम्, प्रत्यक्षम्, वा, तिरोहितम् ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं

आत्मानम्=आत्माको

प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष

वा=अथवा

तिरोहितम्=तिरोहित

कथम्=किस प्रकार

पश्यामि=देखूँ क्योंकि

एकम्=मैं एक ही हूँ और

इदम्=वह दृश्यमान

सर्वम्=सर्वरूप भी हूँ और

निरन्तरम्=निरन्तर

व्योमातीतम्=आकाशसे भी सूक्ष्म
हूँ ।

भावार्थः ।

श्रीस्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं—हम आत्माको प्रत्यक्ष अर्थात् अपरोक्ष और तिरोहित अर्थात् परोक्ष कैसे देखें क्योंकि वह आत्मा एक है और देखना जो होताहै सो भेदको लेकर अपनेसे भिन्नका ही होता है जब कि आत्मासे भिन्न दूसरी वस्तु ही कोई नहीं है तब देखना कैसे हो सकता है । ननु—यद्यपि आत्मा एकभी है तथापि जगत् दृश्यमान तो तिससे भिन्न है

इसब्रह्ममें जगत्का देखना तो अनुजायेगा । उच्यते—यह संज्ञा जगत् भी आत्मरूप ही है क्योंकि कथित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होती है । इन्हीं-पर आत्मीजी कहते हैं वह निरन्तर आत्मा एक ही है और आकारसे भी अति सूक्ष्म है इन्हीं अर्थको श्रुति भी कहती है—“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” वह ब्रह्म जेहन एक ही दैतसे रहित है इस ब्रह्ममें जो कि वास्तव्य काके जगत् प्रतीत होता है सो ब्रह्मबन्धे नहीं है ॥ १० ॥

त्वसंभवंकं हि कथं न बुध्यसे

समं हि सर्वेषु विमृष्टमव्ययम् ।

सदादितोऽसि त्वमखण्डितः प्रभो

दिवा च नक्तं च कथं हि मन्यसे ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।

त्वम्, एव, एकम्, हि, कथम्, न, बुध्यसे, समम्, हि,
सर्वेषु, विमृष्टम्, अव्ययम् । सदा, उदितः, असि, त्वम्,
अखण्डितः, प्रभो, दिवा, च, नक्तम्, कथम्, हि, मन्यसे ॥

पदार्थः ।

त्वम्=तू

एव=निश्चय कथके

एकं हि=एक ही है

कथम्=क्यों अपनेको

न बुध्यसे=नहीं जानता है

सर्वेषु=संज्ञा की गीमें

समम्=सरासर तू है

विमृष्टम्=विचार किया गया है

अव्ययम्=नाशले रहित

प्रभो=हे प्रभो

त्वम्=तू ही

सदा=सर्वकाल

उदितः=प्रकाशमान

असि=हैं और

अखण्डितः=भेदसे रहित ही है

च=और फिर तू

दिवा=दिनको

च=और

नक्तम्=रात्रिको

कथं हि=किस प्रकार

मन्यसे=मानता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी अपनेको ही कहतेहैं—हे प्रभो ! एक ही ब्रह्मचेतन आत्माको क्यों नहीं जानते हो ? यह कैसा है संपूर्ण प्राणियोंमें सम है अर्थात् तुल्य ही है विमृष्ट अर्थात् विचार किया गया है फिर यह कैसा है अव्यय है नाशसे रहित है सो तुम ही हो फिर तुम सर्वकाळ उदित हो अर्थात् प्रकाशमान हो, फिर तुम भेदसे रहित हो, स्वयं स्वप्रकाश होनेपर दिन और रात्रिको तुम कैसे मानते हो, क्योंकि स्वयंप्रकाशमें दिन और रात्रि बन नहीं सकते हैं १ ॥

आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रैकं निरन्तरम् ।

अहं ध्याता परं ध्येयमखण्डं खण्डयते कथम् ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

आत्मानम्, सततम्, विद्धि, सर्वत्र, एकम्, निरन्तरम् ।

अहम्, ध्याता, परम्, ध्येयम्, अखण्डम्, खण्डयते, कथम् ॥

पदार्थः ।

एकम्=एकही

आत्मानम्=आत्माको

सततम्=निरन्तर

सर्वत्र=सर्वत्र

निरन्तरम्=एकरस

विद्धि=तुम जानो

अहम्=मैं

ध्याता=ध्यानका कर्ता हूँ

परम्=आत्मा

ध्येयम्=ध्यानका कर्म है इस प्रकार

अखण्डम्=भेदसे रहित

कथम्=किस प्रकार

खण्डयते=भेद कहतेहो ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी अधिकारियोंके प्रति कहतेहैं—हे अधिकारी जानो ! सर्व तुम एकरस एक ही आत्मा चेतनको व्योक्ता त्यों जानो जब कि, सर्वत्र भेदसे रहित एकही आत्मा है तब फिर उस एकमें यह भेद कैसे बनताहै जो मैं ध्याता हूँ अर्थात् ध्यानका कर्ता हूँ और आत्मा ध्येय है अर्थात् ध्यानका

कर्म है क्यों भेदमें ही सब व्यवहार होता है अभेदमें नहीं होता है । यदि कहो बुद्धि आत्माका ध्यान करता है आत्मा अपना ध्यान नहीं करता है तो हम कहते हैं कि, बुद्धि जड़ है, जड़ पदार्थमें ध्यान करनेकी शक्ति ही नहीं है । यदि कहो बुद्धिस्वी उपाधिमें स्थित होकरके आप ही अपना ध्यान करता है तो यह कथन भी नहीं बनता क्योंकि उपाधि सब आप ही मिथ्या है और कल्पित है वह मिथ्यायस्तु सत्ययस्तुका वास्तवसे भेद भी कदापि नहीं कर सकता है इसवास्ने भेदकी कल्पना सब मिथ्या है, अभेदमें भेदबुद्धि करना इसका नाम अज्ञान है ॥ १२ ॥

न जातो न मृतोसि त्वं न ते देहः कदाचन ।
सर्वं ब्रह्मेति विख्यातं ब्रवीति बहुधा श्रुतिः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

न, जातः, न, मृतः, असि, त्वम्, न, ते, देहः, कदाचन ।
सर्वम्, ब्रह्म, इति, विख्यातम्, ब्रवीति, बहुधा, श्रुतिः ॥

पदार्थः ।

त्वम्=न

न जातः=न तो उत्पन्न हुआ

असि=है और

न मृतः=न मरना है

न ते=न तो तुम्हारा

देहः=देह ही

कदाचन=कभी है

सर्वम्=संपूर्ण जगत्

ब्रह्म=ब्रह्मरूप ही है

इति=इस प्रकार

विख्यातम्=प्रसिद्ध है और

बहुधा=बहुतसी

श्रुतिः=श्रुत भी

ब्रवीति=ऐसे ही कथन करता है

भावार्थः ।

हे शिष्य ! वास्तवसे तो न तू कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता ही है अर्थात् यह जन्म मरण तुम्हारे नहीं है क्योंकि तुम परम सत्य व्यापक हो और तुम्हारा यह देहभी नहीं है क्योंकि देह आत्माको "अकायम्" अर्थात्

शरीरसे रहित कहती है वार (सर्वत्र) संपूर्ण जगत् ही ब्रह्म अर्थात् ब्रह्मरूप है । इस प्रकार संपूर्ण जगत्में यह वार्ता प्रतिष्ठ है और ब्रह्मसत्ता श्रुतियाँ भी इसी वार्ताको कहती हैं ॥ १३ ॥

स बाह्यभ्यन्तरोऽसि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा ।

इतस्ततः कथं भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

सः, बाह्याभ्यन्तरः, असि, त्वम्, शिवः, सर्वत्र, सर्वदा ।

इतः, ततः, कथम्, भ्रान्तः, प्रधावसि, पिशाचवत् ॥

पदार्थः ।

स बाह्या-	} =नो जो चेतन बाह्य और अभ्यन्तर है वह	त्वम् असि=तू ही है
भ्यन्तरः		इतः ततः=इधर उधर
शिवः		भ्रान्तः=भ्रान्त होकर
सर्वत्र		पिशाचवत्=पिशाचकी तरह
सर्वदा		कथम्=क्या तू
		प्रधावसि=दौड़ता फिरता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस चेतन ब्रह्मका पीछे निरूपण किया है जो एक ही भेदसे रहित है सोई चेतन सबके बाहर और भीतर भी है और कल्याण-स्वरूप भी है और सर्वत्र एकरूप सर्वदा विद्यमान भी है, सो तुम ही हो, जब कि शुद्धस्वरूप चेतन तुम ही हो तब फिर जिसको प्राप्तिके वास्ते पिशाचकी तरह तुम इधर उधर क्या दौड़ते फिरते हो किन्तु मत इधर उधर दौड़ो, अपने ही विचार करके तिसको जानो ॥ १४ ॥

संयोगश्च विभागश्च वर्तते न च ते न मे ।

न त्वं नाहं जगत्त्रेदं सर्वमात्मैव केवलम् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

संयोगः, च, विभागः, च, वर्तते, न, च, ते, न, मे ।
 न, त्वम्, न, अहम्, जगत्, न, इदम्, सर्वम्, आत्मा, एव, केवलम् ॥

पदार्थः ।

संयोगः=संयोग

च=और

विभागः=विभाग

ते=तुम्हारेमें

न च=नहीं

वर्तते=वर्तते हैं

च=और

मे=मेरेमें भी

न=नहीं वर्ततेहैं

त्वम्=तुम भी और

अहम्=मैं भी

न=नहीं है और

इदम्=यह दृश्यमान

जगत्=जगत् भी

न=वास्तव नहीं है

केवलम्=केवल

आत्मा=आत्मा ही

एव=निश्चयकरके

सर्वम्=सर्वरूप है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे मुमुक्षुजन ! संयोग और विभाग तुम्हारेमें नहीं है और मेरेमें भी नहीं है और तुम हम यह भेद भी एक आत्मामें नहीं बनता फिर यह दृश्यमान जगत् भी वास्तवसे रज्जुमें सर्पकी तरह नहीं है किन्तु सर्वरूप केवल आत्मा ही है आत्मामें भिन्न कोई भी वस्तु स्वरूपसे सत्य नहीं है ॥ १५ ॥

शब्दादिपञ्चकस्यास्य नैवासि त्वं न ते पुनः ॥

त्वमेव परमं तत्त्वमतः किं परितप्यसे ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

शब्दादिपञ्चकस्य, अस्य, न, एव, असि, त्वम्, न, ते, पुनः ।

त्वम्, एव, परमम्, तत्त्वम्, अतः, किम्, परितप्यसे ॥

पदार्थः ।

अस्य=इस	त्वम्=तुहो
शब्दादि- } =३. शब्दादिप्रत्ययकत्वा	एव=निश्चयकरके
पञ्चकस्य }	परमम्=परम
एव=निश्चयकरके	तत्त्वम्=तत्त्व हो
त्वम्=तु	अतः=इत्ना हेतुसे
न आसि=नहीं है और	किम्=किसवास्ते
पुनः=फिर वह	परित- } तुम संतप्त होतेहो
ते=तुम्हारे भी	प्यसे }
न=नहीं है	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी अपने चित्तको ही उपदेश करते हैं- यह जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पांच विषय हैं, इनके साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ये सब असद्रूप मिथ्या हैं और तुम सद्रूप चेतन हो मिथ्या और सत्यका वास्तवसे कोई भी सम्बन्ध नहीं बनता है और तुम ही परमतत्त्वसार वस्तु भी हो इस वास्ते क्यों संतप्त होते हो ? ६।७

जन्म मृत्युर्न ते चित्तं बन्धमोक्षौ शुभाशुभौ ॥

कथं रोदिषि रे वत्स नामरूपं न ते न मे ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

जन्म, मृत्युः, न, ते, चित्तम्, बन्धमोक्षौ, शुभाशुभौ ॥
कथम्, रोदिषि, रे, वत्स, नामरूपम्, न, ते, न, मे ॥

पदार्थः ।

जन्म } जन्म और मरण
 मृत्युः }
 चित्तम्=चित्तके धर्म हैं
 ते न=तुम्हारे नहीं है
 बन्धमोक्षौ=बन्ध और मोक्ष तथा
 शुभाशुभौ=शुभ और अशुभ भी
 सब चित्तके धर्म हैं

रे वत्स=हे वत्स !
 कथम्=किसवास्ते
 रोदिषि=तू रुदन करता है
 नामरूपम्=नाम और रूपभी
 ते न=तुम्हारे नहीं है
 मे न=मेरे भी नहीं है

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे वत्स ! पैदा होना और मरना ये सब चित्तके धर्म हैं, तुम्हारे नहीं हैं अर्थात् यह सब तुम्हारेमें नहीं है और बन्ध मोक्ष तथा शुभ अशुभ जितने कर्म हैं येभी सब चित्तके ही धर्म हैं तुम्हारे नहीं है और नाम रूप भी चित्तके धर्म हैं तुम्हारे और हमारे नहीं हैं क्यों कि हम तो चित्तके साक्षी हैं ॥ १७ ॥

अहो चित्त कथं भ्रान्तः प्रधावसि पिशाचवत् ॥

अभिन्नं पश्य चात्मानं रागत्यागात्सुखी भव ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

अहो, चित्त, कथम्, भ्रान्तः, प्रधावसि, पिशाचवत् ।

अभिन्नं, पश्य, च, आत्मानम्, रागत्यागात्, सुखी, भव ॥

पदार्थः ।

अहो=बड़ा खेद है
 चित्त=हे चित्त
 भ्रान्तः=भ्रान्त हुआ
 कथम्=किस प्रकार
 पिशाचवत्=पिशाचकी तरह
 प्रधावसि=दौडता फिरता है

अभिन्नम्=भेदसेर हित
 आत्मानम्=आत्माको
 पश्य=तुम देखो और
 रागत्यागात्=रागका त्याग करके
 सुखी भव=तुम सुखी होजाओ

मावार्थः ।

हे चित्त ! बड़ा खेद है तुम भ्रान्त होकर पिशाचकी तरह आत्माको अपनेसे भिन्न जानकरके वनों और पर्वतोंमें पड़े खोजते फिरते हो यहीं तुम्हारी बड़ी भूल है तुम आत्माको अभिन्न करके अर्थात् भेदसे रहित देखो और विषयोंमें रागका त्याग करके सुखी हो जाओ क्योंकि जबतक राग है तबतक ही दुःख है, गमका अभाव होजानेसे दुःखका भी अभाव होजाताहै ॥ १८ ॥

त्वमेव तत्त्वं हि विकारवर्जितं

निष्कम्पमेकं हि विमोक्षविग्रहम् ।

न ते च रागो ह्यथवा विरागः

कथं हि संतप्यसि. कामकामतः ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

त्वम्, एव, तत्त्वम्, हि, विकारवर्जितम्, निष्कम्पम्
एकम्, हि, विमोक्षविग्रहम् । न, ते, च, रागः, हि,
अथवा, विरागः, कथम्, हि, संतप्यसि, कामकामतः ॥

पदार्थः ।

त्वम्=तू ही

एव=निश्चयकरके

तत्त्वम्=आत्मस्वरूप है और

हि=निश्चयकरके

विकारवर्जितम् } =विकारसे भी तू
तम् } रहित है

निष्कम्पम्=निष्कम्प और

एकम् हि=एक ही

विमोक्षविग्रहम्=मोक्षस्वरूप भी तू है

च=और

ते=तुम्हारे

रागः=राग

वा=अथवा

विरागः=विराग भी

न=नहीं है

कामकामतः=तो फिर कामोंकी
कामनासे

हि=निश्चय करके

कथम्=किस प्रकार

संतप्यसि=संतप्त होता है।

भावार्थः ।

तुम ही चेतन आत्मस्वरूप षड्विकारोंसे रहित हो और निष्कम्प हो अर्थात् किसी देवता विशेषकरके कन्यायमान होनेके योग्य भी तुम नहीं हो किन्तु अचल हो और विशेष करके तुमही मोक्ष स्वरूप भी हो जिसवास्ते तुम मुक्तस्व हो इसवास्ते तुम्हारे राग और विरागका भी कोई सन्बन्ध नहीं है क्योंकि राग और विराग बन्धवालेमें ही रहते हैं, फिर तुम कामोंकी कामनाकरके क्यों संतप्त होतेहो ॥ १९ ॥

वदन्ति श्रुतयः सर्वा निर्गुणं शुद्धमव्ययम् ।

अशरीरं समं तत्त्वं तन्मां विद्धि न संशयः ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

वदन्ति, श्रुतयः, सर्वाः, निर्गुणम्, शुद्धम्, अव्ययम् ।

अशरीरम्, समम्, तत्त्वम्, तत्, माम्, विद्धि, न, संशयः ॥

पदार्थः ।

सर्वाः=संपूर्ण

श्रुतयः=श्रुतियाँ आत्माको

निर्गुणम्=निर्गुण ही

वदन्ति=कथनकरतीहैं, और तिसीको

शुद्धम्=शुद्ध

अव्ययम्=नाशसे रहित

अशरीरम्=शरीरसे रहित

समम्=सबमें समरूप और

तत्त्वम्=तत्त्व कथन करतीहैं

तत्=तोई

माम्=मेरेको

विद्धि=तुम जानो

न संशयः=इसमें संशय नहीं है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—संपूर्ण श्रुतियाँ आत्माको निर्गुण अर्थात् सत्त्व, रज्जु, तम इन तिनों गुणोंसे रहित कथन करती हैं और मांयामलसे भी रहित कथन करती हैं, नाशसे भी रहित और शरीरसे भी रहित तथा सबमें समरूप करके ही आत्माको कथन करती हैं सो पूर्वोक्त विशेषणोंकरके युक्त जो

आत्मा है तो तू हे चित्त ! मेरेको ही ज्ञान इसमें संशय नहीं है । इस प्रकार अपने चित्तको अपना अनुभव कहते हैं ॥ २० ॥

साकारमनृतं विद्धि निराकारं निरन्तरम् ।

एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसंभवः ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

साकारम्, अनृतम्, विद्धि, निराकारम्, निरन्तरम् ।

एतत्तत्त्वोपदेशेन, न, पुनः, भवसंभवः ॥

पदार्थः ।

साकारम्=साकारको

अनृतम्=मिथ्य

विद्धि=तू जान आर

निराकारम्=निराकारको

निरन्तरम्=सद्रूप जान

एतत्तत्त्वोपदेशेन=इसी तत्त्वके
उपदेशसे

पुनः=फिर

भवसंभवः=संसारका होना

न=नहीं होवेगा

भावार्थः ।

ब्रह्माण्डके भीतर जितने साकार पदार्थ दिखाई पडते हैं इन सबको तुम मिथ्या जानो और जो कि श्वको सत्ता देनेवाला निराकार चेतन है तिसको तुम सद्रूप करके जानो यही यथार्थ उपदेश है इसके धारण करनेसे फिर जन्ममरणरूपी संसार जीवको कदापि नहीं होताहै ॥ २१ ॥

एकमेव समं तत्त्वं वदन्ति हि विपश्चितः ।

रागत्यागात्पुनश्चित्तमेकानेकं न विद्यते ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

एकम्, एव, समम्, तत्त्वम्, वदन्ति, हि, विपश्चितः ।

रागत्यागात्, पुनः, चित्तम्, एकानेकम्, न, विद्यते ॥

पदार्थः ।

विपश्चितः=विद्वान् जन
 एव हि=निश्चय करके
 एकम्=एक ही
 तत्त्वम्=आत्मतत्त्वको
 समम्=समरूप
 वदन्ति=कथन करतेहै

रागत्यागात्=रागके त्याग देनेसे
 पुनः=फिर
 चित्तम् = चित्त
 एकानेकम् = द्वैत अद्वैतको भी
 न विद्यते = नहीं जानता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहै—विपश्चित् जो ज्ञानवान् हैं सो संपूर्ण ब्रह्माण्डमें एक ही आत्मतत्त्वको समरूप करके कथन करते हैं जो आत्मा सर्वत्र एक है और सबमें सम है अर्थात् प्राणिमात्रमें तूत्य ही है विषयोंमें राग करके ही जोशोंका अनेक आत्मा मान होरहे है । जब चित्त रागका त्याग करदेता है तब उसे अनेक अर्थात् द्वैत अद्वैतका भान नहीं होता है किन्तु आत्मा ही ज्योंका त्यों एकरस अपनी महिमामें स्थित होजाता है ॥ २२ ॥

अनात्मरूपं च कथं समाधि-
 रात्मस्वरूपं च कथं समाधिः ॥
 अस्तीति नास्तीति कथं समाधि-
 मोक्षस्वरूपं यदि सर्वमेकम् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

अनात्मरूपम्, च, कथम्, समाधिः, आत्मस्वरूपम्, च,
 कथम्, समाधिः । अस्ति, इति, नास्ति, इति, कथम्,
 समाधिः, मोक्षस्वरूपम्, यदि, सर्वम्, एकम् ॥

पदार्थः ।

अनात्मरूपम्=अनात्मरूपको
समाधिः=समाधि
कथम्=कैसे होसकता है
च=और
आत्मस्वरूपम्=आत्मस्वरूपकी
कथम्=कित्त प्रकार
समाधिः=समाधि होतीहै
च=और

अस्ति इति=है इस प्रकार
नास्तिइति=नहीं है इस प्रकार
कथं समाधिः=कैसे समाधि हो
सकती है
मोक्षस्वरूपम्=मोक्षस्वरूप
यदि=जो
सर्वम्=सब
एकम्=एकही है तब कैसे समाधि
होती है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—संसारमें दो ही पदार्थ हैं, एक तो आत्मा दूसर अनात्मा तो दोनोंमेंसे एकमें भी समाधि व्यवहार नहीं बनताहै । समाधि नाम एकाग्रताका है सो जो कि अनात्मरूप जडपदार्थ है उसमें तो समाधि किसीप्रकारसे भी नहीं बनती है क्योंकि तिसको तो किसी प्रकारका ज्ञानही नहीं है और जो कि चैतन आत्मा है वह शुद्ध है और व्योका त्यों विक्षेपादि-कोंसे रहित अपनी महिभामें स्थित है उसमें भी समाधि नहीं बनती क्योंकि जो कि पहले एकाग्र नहीं उसीको एकाग्र होनेकी इच्छा होती है सो आत्मामें यह बात नहीं है और जो पदार्थ सदैव विद्यमान है उसमें भी समाधि नहीं बन सकतीहै और जो कि नास्ति है अर्थात् तीनों कालोंमें विद्यमान नहीं है उसमें तो समाधिकी संभावना मात्र भी नहीं हो सकती है और फिर जो आत्माकी नित्य शुद्ध मुक्तस्वरूप सर्वत्र पूर्ण और एक ही है अर्थात् द्वैतसे रहित है तिसमें तो समाधिकी संभावना मात्र भी नहीं बनती है ॥ २३ ॥

विशुद्धोऽसि समं तत्त्वं विदेहस्त्वमजोऽव्ययः ।

जानामीह न जानामीत्यात्मानं मन्यसे कथम् ॥२४॥

पदच्छेदः ।

विशुद्धः, असि, समम्, तत्त्वम्, विदेहः, त्वम्, अजः,
अव्ययः । जानामि, इह, न, जानामि, इति, आत्मानम्
मन्यसे, कथम् ॥

पदार्थः ।

त्वम्=तू

विशुद्धोऽसि=विशेषकरके शुद्ध है

समम्=एकरस

तत्त्वम्=आत्मतत्त्व है

विदेहः=विदेह है तू

अजः=जन्मसे रहित है

अव्ययः=नाशसे रहित

इह=लोकमें

आत्मानम्=आत्माको

जानामि=मैं जानताहूँ

न जानामि=मैं आत्माको नहीं

जानता हूँ

इति=इस प्रकार

कथम्=कैसे

मन्यसे=तू मज्जताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे वित्त ! अथवा शिष्य! तू शुद्धस्वरूप है मायामलसे रहित है और सर्वत्र एकरस सम भी है फिर तू विदेह है अर्थात् वास्तवसे तुम्हारा देहके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है क्यों कि तू अज अर्थात् जन्मसे रहित है इसीवास्ते अव्यय भी है अर्थात् नाशसे भी रहित है । जब ऐसा तेरा स्वरूप है तब फिर तुम कैसे कहता है कि, मैं आत्माको जानताहूँ, मैं आत्माको नहीं जानता हूँ, क्यों कि इस प्रकारका तेरा कथन युक्त नहीं है ॥२४॥

नमु—इस वार्ताको कौन कहताहै कि, तू मैं अज अव्यय हूँ । उच्यतेः—

तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च स्वात्मा हि प्रतिपादितः ॥

नेति नेति श्रुतिर्न्यादनृतं पाञ्चभौतिकम् ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ।

तत्त्वमस्यादिवाक्यैः, च, स्वात्मा, हि, प्रतिपादितः, ।

नेति, नेति, श्रुतिः, ब्रूयात्, अनृतम्, पाञ्चभौतिकम् ॥

पदार्थः ।

तत्त्वमस्या- } = "तत्त्वमसि" आदि-
दिवाक्यैः } वाक्योंसे
हि=निश्चयकरके
स्वात्मा=अपना आत्मा ही
प्रतिपादितः=प्रतिपादन किया है

नेति नेति=नेति नेति इस प्रकार
श्रुतिः=श्रुति
ब्रूयात्=कथन करती है
पाञ्चभौतिक- } = पांचभौतिक प्रपञ्च
कम् }
अनृतम्=सब मिथ्या है ।

भावार्थः ।

वेदने "तत्त्वमसि" आदि वाक्यों करके अपना आत्मा ही प्रतिपादन किया है और श्रुति भी "नेति नेति" अर्थात् यह जितना दृश्यमान जगत् है सो वास्तवसे ब्रह्ममें नहीं है ऐसे कहती है और जितना पञ्चभौतिक जगत् है वह सब मिथ्या है ॥ २५ ॥

आत्मन्येवात्मना सर्वं त्वया पूर्णं निरन्तरम् ।

ध्याता ध्यानं न ते चित्तं निर्लज्जं ध्यायते कथम् ॥ २६

पदच्छेदः ।

आत्मनि, एव, आत्मना, सर्वम्, त्वया, पूर्णम्, निरन्तरम् ।
ध्याता, ध्यानम्, न, ते, चित्तम् निर्लज्जम्, ध्यायते, कथम् ॥

पदार्थः ।

त्वया=तुम्हारे
आत्मना=आत्माकरके
आत्मनि=आत्मामें
निरन्तरम्=निरन्तरही
सर्वम्=सब
पूर्णम्=पूर्ण है
ध्याता=ध्यानवाला और

ध्यानम्=ध्यान
ते न=तुम्हारे नहीं है
निरलज्जम्=निरलज्ज
चित्तम्=चित्त
कथम्=कैसे
ध्यायते=ध्यान करता है

भावार्थः ।

तुम्हारे कर्के ही तुम्हारेमें अर्थात् व्यापक तुम्हारे आत्मामें निरन्तर एकरस संपूर्ण यह जगत् पूर्ण होरहाहै, दूसरा तो कोई भी तुम्हारेसे विना नहीं है । जब कि एक ही चेतन आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब फिर मैं ध्यानका कर्ता हूँ, आत्मा ध्येय है, यह व्यवहार कैसे बनताहै किन्तु किसी तरहसे भी नहीं बनताहै । फिर लज्जासे रहित चित्त ध्यान कैसे करता है? क्योंकि एकमें तो ध्यान बनता ही नहीं है ॥ २६ ॥

शिवं न जानामि कथं वदामि

शिवं न जानामि कथं भजामि ।

अहं शिवश्चेत्परपार्थतत्त्वं

समस्वरूपं गगनोपमं च ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ।

शिवम्, नः जानामि, कथम्, वदामि, शिवम्, न, जानामि, कथम्, भजामि । अहम्, शिवः, चेत्, परमार्थ-तत्त्वम्, समस्वरूपम्, गगनोपमम्, च ॥

पदार्थः ।

शिवम्=कल्याणरूपको
न जानामि=मैं नहीं जानताहूँ
कथम्=किस प्रकार
वदामि=मैं तिसको कहूँ
शिवम्=शिवको
न जानामि=मैं नहीं जानताहूँ
कथम्=किस प्रकार
भजामि=कैसे भजूँ

चेत्=यदि
अहम्=मैं ही
शिवः=कल्याणरूप हूँ
परमार्थतत्त्वम्=परमार्थस्वरूप भी हूँ
समस्वरूपम्=समस्वरूप भी हूँ
च=और
गगनोपमम्=आकाशके तुल्य भी हूँ

भावार्थः ।

कल्याणरूप ब्रह्मको मैं नहीं जानताहूँ अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों करके मैं तिसके स्वरूपको नहीं विषय करसकता हूँ तो फिर मैं कैसे तिसके स्वरूपको कहूँ ? जब कि, वह किसी भी इंद्रिय करके जाना नहीं जाता है तब फिर तिसका भजन मैं कैसे करूँ ? क्योंकि बिना जानेका भजन हो नहीं सकताहै । यदि वेद हमकोही शिवरूप करके कथन करता है और मैं ही शिवरूप परमार्थस्वरूप और आकाशके तुल्य अवल हूँ तब भी फिर जानना और भजन नहीं बनसकता है क्यों कि जो चेतन सद्यको जाननेवाला है तिसका जानना किस करके होसकताहै ? किन्तु किसी करके भी नहीं होसकता है ॥२७॥

नाहं तत्त्वं सद्यं तत्त्वं कल्पनाहेतुवर्जितम् ।

ग्राह्यग्राहकनिर्मुक्तं स्वसंवेद्यं कथं भवेत् ॥ २८ ॥

पदच्छेदः ।

न, अहम्, तत्त्वं, समम्, तत्त्वं, कल्पनाहेतुवर्जितम् ।

ग्राह्यग्राहकनिर्मुक्तम्, स्वसंवेद्यम्, कथम्, भवेत् ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं

तत्त्वम्=तत्त्व

न=नहीं हूँ और

समम्=सम

तत्त्वम् = तत्त्व भी नहीं हूँ

कल्पना- { कल्पना और
हेतुवर्जितम् } हेतुसे भी रहित हूँ

ग्राह्यग्राहक- { = ग्राह्य और ग्राहक
निर्मुक्तम् } व्यवहारसेभी रहित हूँ

स्वसंवेद्यम् = स्वसंवेद्य भी

कथम् = कैसे

भवेत्=होवे

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं भिन्नतत्त्व और समतत्त्व भी नहीं हूँ और कल्पना तथा कल्पनाके कारणसे भी रहित हूँ । और ग्राह्य (ग्रहण करने योग्य) तथा

ग्राहक (ग्रहण करनेवाला) के व्यवहारसे भी रहित हूँ क्योंकि एकमें ग्राह्यग्राहक व्यवहारही नहीं बनताहै तब फिर स्वसंवेद्यता कैसे बनेगी किन्तु नहीं बनेगी २८

अनन्तरूपं न हि वस्तु किञ्चित्

तत्त्वस्वरूपं न हि वस्तु किञ्चित् ।

आत्मैकरूपं परमार्थतत्त्वं

न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा ॥ २९ ॥

पदच्छेदः ।

अनन्तरूपम्, नहि, वस्तु, किञ्चित्, तत्त्वस्वरूपम्, न, हि, वस्तु, किञ्चित् । आत्मा, एकरूपम्, परमार्थतत्त्वम्, न हिंसकः, वा, अपि, न, च, अपि, अहिंसा ॥

पदार्थः ।

अनन्त { =ब्रह्म चेतन अनन्तरूप है
रूपम् { उससे भिन्न

वस्तु किञ्- { किञ्चित् वस्तु भी सत्य-
चित् { रूप

नहि=नहीं है

तत्त्वस्व- { =वह ब्रह्म ही वास्तविक
रूपम् { भी है उससे भिन्न

वस्तु किञ्चित्=सब वस्तु कोई भी
नहि=नहीं है वह

आत्मा=आत्मा ब्रह्म

एकरूपम्=एक रूप ही है और

परमार्थ { =परमार्थसे तत्त्वस्वरूप
तत्त्वम् { भी है

वा अपि=अथवा निश्चय करके

न हिंसकः=न तो कोई हिंसक है

अपि=निश्चय करके

अहिंसा=अहिंसा भी

न च=नहीं है

भावार्थः ।

द्वानुप्रेयजी कहतेहैं—वह चेतन आत्माका अनन्तरूप है अर्थात् उसका अन्त नहीं मिलताहै कहाँसे कहाँतक है, उससे भिन्न और कोई भी वस्तु अनन्त नहीं है किन्तु परिच्छिन्न है, अथवा वह आत्मा अनन्त है अर्थात् नाशसे रहित है और सब वस्तु नाशसे रहित नहीं है किन्तु नाशवान् है

किन्तु नाशवान् हैं और आत्मा सदैव एकरूपसे ही रहताहै और वही वास्तविक तत्त्व भी है आत्माले भिन्न और कुछ भी नहीं है इसवास्ते न तो कोई हिंसक अर्थात् हिंसाका कर्ता है और न अहिंसा वास्तवसे है क्योंकि द्वैतको लेकरके अहिंसा और हिंसकका व्यवहार हो जब कि द्वैत ही नहीं है तो फिर अहिंसा हिंसकका व्यवहार कैसे होसके, किन्तु कदापि नहीं होसकता है २९

घटे भिन्ने घटाकाशं सुलीनं भेदवर्जितम् ॥

शिवेन मनसा शुद्धो न भेदः प्रतिभाति मे ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ।

घटे, भिन्ने, घटाकाशम्, सुलीनम्, भेदवर्जितम् ।

शिवेन, मनसा, शुद्धः, न, भेदः, प्रतिभाति, मे ॥

पदार्थः ।

घटे भिन्ने=घटके नाश होनेपर

घटाकाशम्=घटाकाश

सुलीनम्=महाकाशमें लीन होजाताहै

भेदवर्जितम्=भेदसे रहित होजाताहै

शिवेन=शुद्ध

मनसा=मनकरके

शुद्धः=शुद्ध प्रतीत होता है इसवास्ते

मे=मेरेको

भेदः=आत्माका भेद भी

न=नहीं

प्रतिभाति=प्रतीत होताहै ।

भावार्थः ।

जबतक घट बना है तबतक घटाकाश यह व्यवहार भी होजाताहै तब घटका नाश होजाताहै तब घटाकाश यह व्यवहार भी नहीं होताहै क्योंकि घटाकाश महाकाशमें लीन होजाताहै इसी प्रकार जबतक लिंगशरीररूपी उपाधि विद्यमान है तबतक ही जीवव्यवहार भी होताहै आत्मज्ञान करके अज्ञानके नाश होनेपर अज्ञानका कार्य जो लिंगशरीररूपी उपाधि है तिसके नाश होनेपर जीवात्मा भी परमात्मामें लीन होजाताहै अर्थात् फिर भेद-व्यवहार नहीं होताहै और अशुद्ध मनवालेको अशुद्ध मान होताहै । शुद्ध मनकरके आत्मा भी पुरुषको शुद्ध प्रतीत होताहै । सो दत्तात्रेयजी कहतेहैं— जिसवास्ते शुद्ध मनकरके शुद्ध आत्माको हमने जान लियाहै इसवास्ते आत्माका भेद भी हमको नहीं मान होताहै ॥ ३० ॥

न घटो न घटाकाशो न जीवो जीवविग्रहः ।
केवलं ब्रह्म संविद्धि वेद्यवेदकवर्जितम् ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः ।

न, घटः, न, घटाकाशः, न, जीवः, जीवविग्रहः ।
केवलम्, ब्रह्म, संविद्धि, वेद्यवेदकवर्जितम् ॥

पदार्थः ।

न घटः=घट नहीं है

घटाकाशः=घटाकाश भी
न=नहीं है

न जीवः=जीव भी नहीं है

जीवविग्रहः=जीवका जीवित्व भी
नहीं है

केवलम्=केवल

ब्रह्म=ब्रह्मचेतनको

संविद्धि=तू सम्यक् जान कैसा ब्रह्म

वेद्यवेदक- } =जन्यज्ञानके विषयसे है
वर्जितम् } और जन्यज्ञानसे रहित है

भावार्थः ।

जब कि एकरस भेदसे रहित ब्रह्म चेतन ही वास्तवसे सद्रूप है तब उपाधि-
रहित घट भी नहीं है घटके अभाव होनेसे वास्तवसे घटाकाश भी नहीं है
इसी प्रकार अन्तःकरणरूपी उपाधिके अभावसे जीव भी नहीं है क्योंकि जीव
न-म अन्तःकरणरहित चेतनका है सो अन्तःकरणके भिन्ना होनेसे जीव-
का विग्रह अर्थात् अन्तःकरणविशिष्ट जीवका स्वरूप भी फिर नहीं रहता है
किन्तु केवल अद्वैतसे भले प्रकार तू ब्रह्मको जान जो कि विषयविषयीभावसे
भी रहता है ॥ ३१ ॥

सर्वत्र सर्वदा सर्वमात्मानं सततं ध्रुवम् ।

सर्वं शून्यमशून्यं च तन्मा विद्धि न संशयः ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वत्र, सर्वदा, सर्वम्, आत्मानम्, सततम्, ध्रुवम् ।

सर्वम्, शून्यम्, अशून्यम्, च, तत्, माम्, विद्धि, न, संशयः ॥

पदार्थः ।

आत्मानम्=आत्माको ही	शून्यम्=शून्य जान
सर्वत्र=सर्वत्र	च=और आत्माको
सर्वदा=सर्वकाल	अशून्यम्=शून्यसे रहित जान
सर्वम्=सर्वरूप	तत्=सो आत्मा
सततम्=निरन्तर	माम्=मेरेको ही
शुभम्=नित्य	विद्धि=तू जान
विद्धि=तू जान और	न संशयः=इसमें संशय नहीं है
सर्वम्=सर्व प्रपंचको	

भावार्थः ।

सर्वकाल सर्वत्र सर्वरूप एकरस और नित्य आत्माको ही तुम जानो क्योंकि यह जितना दृश्यमान जगत् है सो सब स्वरूपसे शून्य है अर्थात् वास्तवसे असद्रूप है, और वह आत्मा अशून्य है शून्यसे रहित शून्यका भी वह साक्षी है । दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे शिष्य ! सो आत्मा तुम मुझको ही जानो इसमें कोई भी संशय नहीं है ॥ ३२ ॥

वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा
वर्णाश्रमौ नैव कुलं न जातिः ।
न धूममार्गो न च दीप्तिमार्गो
ब्रह्मैकरूपं परमार्थतत्त्वम् ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ।

वेदाः, न, लोका, न, सुराः, न, यज्ञाः, वर्णाश्रमौ,
न, एव, कुलम्, न, जातिः । न, धूममार्गः, न, च,
दीप्तिमार्गः, ब्रह्मैकरूपम्, परमार्थतत्त्वम् ॥

पदार्थः ।

वेदाः=वास्तवसे वेद भी
न=नहीं हैं
लोकाः=लोक भी
न=नहीं है
सुराः=देवता भी
न=नहीं है
यज्ञाः=यज्ञ भी
न=नहीं हैं
वर्णाश्रमौ=वर्णाश्रम भी
न=नहीं है
एव=निश्चयकरके

कुलम्=कुल भी कोई
न=नहीं है
जातिः=जाति भी
न=नहीं है
धूममार्गः=धूममार्ग भी
न=नहीं है
दीप्तिमार्गः=अग्निमार्ग भी
न च=नहीं है
ब्रह्मैकरूपम्=ब्रह्म ही केवल एकरूप
परमार्थतत्त्वम्=परमार्थसे तत्त्व वस्तु है

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजीका तात्पर्य यह है कि जैसे सुप्रसिद्धकालमें बाहरका जितना प्रपञ्च है इसका अभाव होजाता है और जाग्रत अवस्थामें सब प्रपञ्च ज्योंका त्यों बना रहताहै । इसीप्रकार चतुर्थी भूमिकावाले ज्ञानीकी दृष्टिमें तां संपूर्ण वेद शास्त्र और यज्ञादिक कर्मरूप प्रपञ्च सब बना रहताहै परन्तु जीवन्मुक्त छठी और सप्तमी अवस्थावालेकी दृष्टिमें वेद, लोक, देवता और उत्तरायण दक्षिणायन आदि कुछ भी नहीं रहताहै किन्तु परमार्थसे सद्ब्रह्म ही उसकी दृष्टिमें रहताहै उसीकी दृष्टिका यह निरूपण है ॥ ३३ ॥

व्याप्यव्यापकनिर्मुक्तं त्वमेकः सफलो यदि ।

प्रत्यक्षं चापरोक्षं च ह्यात्मानं मन्यसे कथम् ॥३४॥

पदच्छेदः ।

व्याप्यव्यापकनिर्मुक्तम्, त्वम्, एकः, सफलः, यदि ।

प्रत्यक्षम्, च, अपरोक्षम् च, हि, आत्मानम्, मन्यसे, कथम् ॥

पदार्थः ।

यादि=यदि	}	हि=निश्चयकरके
त्वम्=तू		प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष
व्याप्यव्याप-		च=और
क निर्मुक्तम्		अपरोक्षम्=अपरोक्ष
एकः=एकही		आत्मानम्=आत्माको
सफलः=फलके सहित है		कथम्=कैसे
		मन्यसे=तू मानता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी अपने चित्तको अप्रणी करके सर्व मुमुक्षुओंके प्रति उपदेश करते हैं—हे शिष्यरूपी चित्त ! तू एक ही सर्वमें फलके सहित है अर्थात् जीवन्मुक्तिरूपी फलके सहित है, व्याप्य और व्यापकभावसे भी रहित है तब फिर तू आत्माको प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कैसे मानता है । यह व्यवहार तो किसी प्रकार एक ही अपने आत्मामें नहीं बनसकता है, और बन्ध मोक्ष व्यवहार भी नहीं बनताहै ॥ ३४ ॥

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे ॥

समं तत्त्वं न विन्दन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम् ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः ।

अद्वैतम्, केचित्, इच्छन्ति, द्वैतम्, इच्छन्ति, च, अपरे ।

समं, तत्त्वम्, न, विन्दन्ति, द्वैताद्वैतविवर्जितम् ॥

पदार्थः ।

कोचित्=कोई एक विद्वान्	}	च=आर वे सब
अद्वैतम्=अद्वैतकी		समं तत्त्वम्=समतत्त्वको
इच्छन्ति=इच्छा करते हैं		न=नहीं
अपरे=और कोई		विन्दन्ति=जानते हैं जो कि
द्वैतम्=द्वैतकी		द्वैताद्वैतविव- } =द्वैताद्वैतसे रहित
इच्छन्ति=इच्छा करते हैं		र्जितम् } है

भावार्थः ।

कोई एक आधुनिक मुमुक्षु अथवा आधुनिक वेदान्ती अद्वैतकी ही इच्छा करतेहैं परन्तु अद्वैतमें उनका पूरा २ विश्वास नहीं है क्योंकि भक्तोंके सामने तो बड़ा भारी अद्वैत ज्ञान छौटते हैं परन्तु जब मरनेका समय आजाताहै तब गंगा और काशीमें मरनेके वस्ते ढौडते हैं, तिस काउमें अपने भक्तोंसे कहते हैं, कि, हमको गंगा या काशी लेचओ जिससे वहांपर हमारे शरीरका त्याग हो. वाजे २ नवीन वेदान्ती हरिद्वार और काशी आदि तीर्थोंमें रहकर भी बरसातके दिनोंमें भी वहाँका नाद्योंका मैला जल पीते हैं और उन्हींमें स्नान करके रोगों भी हो जाते हैं तब भी वह अपने हठका त्याग नहीं करतेहैं जल जलादिकोंमें अपने कल्याणको चाहते हैं अद्वैतपर उन मूर्खोंका विश्वास नहीं है उन्हींपर कहा है कि, कोई एक मूर्ख वेदान्ती केवल अद्वैतकी इच्छामात्र ही करतेहैं, विश्वास नहीं करतेहैं, और कोई एक वैष्णव और आचारी वगैरह भक्तोंवाले द्वैतकी ही इच्छा करतेहैं जो मांक्षावस्थामें भी हम जुदा रहकर विषयभोगोंको भोगते रहें परन्तु वह द्वैतके असली स्वरूपको नहीं जानतेहैं इसवास्ते मिथ्या जगत्को वह सत्य मानतेहैं और तिलक छापखर्पा पाखंडोंको धर्म मानतेहैं, जीव ईश्वरके यथाथ रूपको तो वह जानते ही नहीं हैं इसवास्ते वह भी केवल द्वैतमात्रकी इच्छा करतेहैं, अपने कल्याणकी इच्छाको वह नहीं करतेहैं, इसवास्ते पूर्वोक्त दानों हां असली तत्त्वको नहीं जानतेहैं वह तत्त्व कैसा है ? द्वैत और अद्वैतसे रहित है, क्योंकि ब्रह्मचेतनसे अतिरिक्त यदि दूसरा कोई सत्यपदार्थ हो तब तो द्वैत है और अद्वैत भी दूसरेकी अपेक्षा करके ही कहा जाताहै सो ब्रह्मसे भिन्न जब कि दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है तब द्वैताद्वैतसं भी वर्जित है ॥ ३५ ॥

श्वेतादिवर्णरहितं शब्दादिगुणवर्जितम् ॥

कथयन्ति कथं तत्त्वं मनोवाचामगोचरम् ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः ।

श्वेतादिवर्णरहितम्, शब्दादिगुणवर्जितम् ।

कथयन्ति, कथम्, तत्त्वम्, मनोवाचाम्, अगोचरम् ॥

पदार्थः ।

श्वेतादिव- } =श्वेतादि वर्णोंसे	अगोचरम्=अविषयको
णैरहितम्- } रहित	
शब्दादिगुण- } =शब्दादि गुणोंसे	कथम्=किस प्रकार
बर्जितम् } भी रहित	
मनोवाचाम्=मन और वाणीके	तत्त्वम्=तत्त्व
	कथयन्ति=कथन करते हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, जिसमें कि श्वेत, पीत आदि वर्ण होतेहैं और शब्दादिक गुण होते हैं वही मन और वाणीका विषय होताहै अर्थात् उसीको मन और वाणी कथन करतेहैं और जो कि निर्गुण ब्रह्म है उसमें तो कोई भी गुण नहीं है अर्थात् श्वेत, पीतादि वर्णभी सब उसमें नहीं हैं और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये गुण भी उसमें नहीं हैं तब फिर तिसको तत्त्वरूप करके कैसे कथन करते हैं अर्थात् तत्त्वरूप करके तिसका कथन भी नहीं वनताहै ॥ ३६ ॥

यदाऽनृतमिदं सर्वं देहादि गगनोपमम् ॥

तदा हि ब्रह्म संवेत्ति न ते द्वैतपरम्परा ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः ।

यदा, अनृतम्, इदम्, सर्वम्, देहादि, गगनोपमम् ।

तदा, हि, ब्रह्म, संवेत्ति, न, ते, द्वैतपरम्परा ॥

पदार्थः ।

यदा =जिस कालमें

इदम् =इस दृश्यमान

सर्वम् =संपूर्ण प्रपंच को

अनृतम् =मिथ्या जानताहै

देहादि गग- } =शरीरादिकोंको आ

नोपमम् } काशके तुल्य शून्य जानता है

तदा =उसी कालमें

हि =निश्चय करके

ब्रह्म =ब्रह्मको

संवेत्ति =सम्यक् जानताहै

ते =तुम्हारेको तब

द्वैतपरम्परा =द्वैतकी परम्पराका भी

न =मान नहीं होवैगा

भावार्थः ।

जिस कालमें विद्वान् पुरुष संपूर्ण जगत्को मिथ्या जानलेताहै और शरीर-
रादिकोंको आकाशके तुल्य शून्य जान लेताहै उसी कालमें ब्रह्मको भी यह भले
प्रकार जाना जाता है तब द्वैतकी परम्पराका भी मान तिसको नहीं होताहै ॥३७॥

परेण सहजात्मापि ह्यभिन्नः प्रतिभाति मे ॥

व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत् ॥ ३८ ॥

पदच्छेदः ।

परेण, सहजात्मा, अपि, हि, अभिन्नः, प्रतिभाति, मे ।

व्योमाकारम्, तथा, एव, एकम्, ध्याता, ध्यानम्, कथम्, भवेत् ॥

पदार्थः ।

परेण=परब्रह्मके

सहजात्मा=साथ अनादि आत्मा

अपि हि=निश्चय करके

मे=मुझको

प्रतिभाति=मान होता है फिर कैसा

वह है

अभिन्नः=ब्रह्मसे अभिन्न है और

व्योमाकारम्=व्यापक है

तथा एव=तैसे ही निश्चय करके

एकम्=एक भी है तब फिर

ध्याता=ध्यानका कर्ता और

ध्यानम्=ध्याकारवृत्ति

कथम्=कैसे

भवेत्=होवे

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जैसे ब्रह्म चेतन अनादि है तैसे जीव चेतन भी
अनादि है और जीव ब्रह्मका अभेद भी हमको मान होता है । फिर वह ब्रह्म
चेतन एक है और आकाशकी तरह व्यापक भी है । जब कि चेतन सर्वत्र
एकही है तब फिर एकमें ध्याता और ध्यानका व्यवहार कैसे होसकताहै ? किन्तु
कदापि नहीं, क्योंकि ध्याता ध्यानका व्यवहारभेदको ही लेकरके होताहै अभेद
दृष्टिको लेकरके नहीं होसकता है । ननु—ज्ञानी लोगभी एकान्तमें बैठकर ध्यान
करतेहैं और उनको अभेद निश्चय भी है तब फिर कैसे आप कहतेहैं कि, ध्याता
ध्यानका व्यवहार नहीं होताहै ॥ उच्यते—ज्ञानी दो प्रकारके हैं, एक तो चतुर्थी-
भूमिकावाले जो कि आचार्य्यकहेजातेहैं, दूसरी पांचवीं, छठी, सप्तमी इन तीन

भूमिकावाले जीवन्मुक्त कहे जातेहैं सो दोनोंमें जो कि चतुर्य भूमिकावाले हैं वह चित्तके विक्षेपकी निवृत्तिके वास्ते और जिज्ञामुओंकी अन्तर्मुखप्रवृत्ति करानेके वास्ते ध्यानको करते हैं और जो कि जीवन्मुक्त हैं उनके चित्तोंमें विक्षेप नहीं है । अतएव उनकी दृष्टिमें ध्याता ध्यानका व्यवहार भी नहीं है सो उन्हीं जीवन्मुक्तोंकी दृष्टिको लेकरके दत्तात्रेयजीने कहा है ॥ ३८ ॥

यत्करोमि यदश्रामि यज्जुहोमि द्दामि यत् ॥

एतत्सर्वं न मे किञ्चिद्विशुद्धोऽहमजोऽव्ययः ॥ ३९ ॥

पदच्छेदः ।

यत्, करोमि, यत्, अश्रामि, यत्, जुहोमि, द्दामि,
यत् । एतत्, सर्वम्, न, मे, किञ्चित्, विशुद्धः,
अहम्, अजः, अव्ययः ॥

पदार्थः ।

यत्=जो कुछ

करोमि=मैं करताहूँ

यत्=जो कुछ

अश्रामि=मैं भक्षण करता हूँ

यत्=जो कुछ

जुहोमि=मैं हवन करता हूँ

यत्=जो कुछ

द्दामि=मैं देता हूँ

एतत्=यह

सर्वम्=संपूर्ण

मे=मेरा

किञ्चित्=किञ्चित् भी

न=नहीं है क्योंकि

अहम्=मैं

विशुद्धः=शुद्धस्वरूप हूँ

अजः=जन्मसे रहित हूँ

अव्ययः=नाशसे रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो कर्म मैं करताहूँ फिर जो कुछ कि मैं खाता पीता हूँ, और जो कि हवन करताहूँ, जो कुछ देताहूँ, यह सब कुछ मैं नहीं करताहूँ क्योंकि ये सब इंद्रियोंके धर्म हैं सो इन्द्रिय सब अपने २ धर्मोंको करतीहै । मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है मैं तो शुद्ध हूँ, अज अर्थात् जन्मसे रहित हूँ, नाशसे भी रहित हूँ ॥ ३९ ॥

सर्वं जगद्विद्धि निराकृतीदं सर्वं जगद्विद्धि विकारहीनम् ॥
सर्वं जगद्विद्धि विशुद्धदेहं सर्वं जगद्विद्धि शिवैकरूपम् ४०

पदच्छेदः ।

सर्वम्, जगत् विद्धि, निराकृति, इदम्, सर्वम्, जगत्,
विद्धि, विकारहीनम् । सर्वम्, जगत्, विद्धि, विशुद्धदे-
हम्, सर्वम्, जगत्, विद्धि शिवैकरूपम् ॥

पदार्थः ।

सर्वम्=संपूर्ण

जगत्=जगत्को

निराकृति=आकारसे रहित

विद्धि=तू जान

इदम्=इस दृश्यमान

सर्वम्=संपूर्ण

जगत्=जगत्को

विकारहीनम्=विकारसे रहित

विद्धि=तू जान

सर्वम्=संपूर्ण

जगत्=जगत्को

विशुद्ध- } =ब्रह्मका शरीर
देहम् }

विद्धि=तू जान

सर्वम्=संपूर्ण

जगत्=जगत्को

शिवैकरूपम्=कल्याणस्वरूप

विद्धि=तू जान

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे चित्त ! संपूर्ण जगत्को तू निराकार ही जान
क्योंकि, कल्पित वस्तु साकार नहीं होतीहै । जिसवास्ते यह जगत् सब ब्रह्ममें
कल्पित है इसवास्ते निराकार है और फिर निराकार वस्तु विकारी भी नहीं
होतीहै इसीवास्ते संपूर्ण इस जगत्को विकारसे रहित जान और इस जग-
त्को विशुद्ध देह अर्थात् शुद्धस्वरूप तथा कल्याणस्वरूप भी तू जान, क्योंकि
शुद्धस्वरूप और कल्याणस्वरूप ब्रह्म कल्पित जगत् भिन्न नहीं है ॥ ४० ॥

तत्त्वं त्वं हि न संदेहः किं जानाम्यथ वा पुनः ॥

असंवेद्यं स्वसंवेद्यमात्मानं मन्यसे कथम् ॥ ४१ ॥

पदच्छेदः ।

तत्, त्वम्, त्वम्, हि, न, संदेहः, किम्, जानामि,
अथवा, पुनः । असंवेद्यम्, स्वसंवेद्यम्, आत्मानम्,
मन्यसे, कथम् ॥

पदार्थः ।

हि=निश्चयकरके

तत् त्वम्=सो तू है

त्वम् तत्=तू सो है

संदेह=इसमें संदेह

न=नहीं है

अथवा=अथवा

पुनः=फिर और

किम्=क्या

जानामि=मैं जानूँ

आत्मानम्=आत्माको

असंवेद्यम्=असंवेद्य

स्वसंवेद्यम्=स्वसंवेद्य

कथम्=कैसे तू

मन्यसे=मानता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—सो ब्रह्म तू है और तू ही सो ब्रह्म है इसमें किसी प्रकारका भी संदेह नहीं है क्योंकि वेद भगवान् आप ही इस वार्ताको स्पष्टरूपसे कहता है तो क्या फिर तुम आत्माको अनवेद्य किसीसे भी नहीं जानने योग्य है और (स्वसंवेद्य अपनेसे ही जानने योग्य) ही कैसे मानते हो तात्पर्य यह है कि, जब एक ही चेतन आत्मा ब्रह्म सर्वत्र है तब फिर उपयुक्त सब व्यवहार किसी प्रकारसे भी नहीं बनता है ॥ ४१ ॥

मायाऽमाया कथं तात छायाऽच्छाया न विद्यते ॥

तत्त्वमेकमिदं सर्वं व्योमाकारं निरञ्जनम् ॥४२॥

पदच्छेदः ।

माया, अमाया, कथम्, तात, छाया, अच्छाया, न,

विद्यते । तत्, त्वम्, एकम्, इदम्, सर्वम् व्योमाकारम्,

निरञ्जनम् ॥

पदार्थः ।

तात=हे तात !

माया=माया और

अमाया=अमाया

कथम्=कैसे है

छाया=छाया और

अच्छाया=अच्छाया

न=नहीं

विद्यते=विद्यमान है

तत्=सो

त्वम्=तू

एकम्=एक ही है

इदम्=यह

सर्वम्=संपूर्ण जगत्

व्योमाकारम्=आकाशके तुल्य आ-

कारवाला

निरञ्जनम्=निरञ्जन ही है

मावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जब कि चेतन निराकार निरवयव एक ही है तब फिर माया और अमाया, छाया और अच्छाया यह सब व्यवहार कैसे होसकता है ? सो ब्रह्म चेतन एक ही है और वह तू ही है । यह जितना कि दृश्यमान जगत् है, सो सब आकाशके तुल्य आकारवाला है अर्थात् ब्रह्मरूप है और वह ब्रह्म मायामलसं रहित है ॥ ४२ ॥

आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन ॥

स्वभावनिर्मलः शुद्धः इति मे निश्चिता मतिः ॥४३॥

पदच्छेदः ।

आदिमध्यान्तमुक्तः, अहम्, न, बद्धः, अहम्, कदाचन ।

स्वभावनिर्मलः, शुद्धः, इति, मे, निश्चिता, मतिः ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं	स्वभाव- } =स्वभावसे ही निर्मल हूँ
आदिमध्या- } =आदि, मध्य और	
न्तमुक्तः } अन्तसे रहित हूँ और	निमलः }
अहम्=मैं	शुद्धः=शुद्ध हूँ
कदाचन=कभी	इति=इस प्रकारकी
वद्मः=वद्म	मे=मेरी
न=नहीं हूँ	निश्चिता=निश्चित
अहम्=मैं	मतिः=बुद्धि है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो वस्तु कि अपनी उत्पत्तिसे पहले, न हो किन्तु उत्पत्तिसे पीछे हो वह आदिवाली कही जाती है और जो उत्पत्तिसे पहले और नाशसे उत्तर न हो वही मध्यवाली और अन्तवाली भी कही जाती है सो आत्मा ऐसा नहीं है किन्तु आदि, मध्य, अन्त तीनोंसे रहित अर्थात् न तिसका कोई आदि है, न मध्य है, न अन्त है, किन्तु एकरस अणुका त्यों है सो मेरा स्वरूप है इसवास्ते मैं कदापि वद्म नहीं होता हूँ और स्वभावसे ही निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ ऐसा मेरा निश्चय है ॥ ४३ ॥

महदादि जगत्सर्वं न किञ्चित्प्रतिभाति मे ॥
ब्रह्मैव केवलं सर्वं कथं वर्णाश्रमस्थितिः ॥ ४४ ॥

पदच्छेदः ।

महदादि, जगत्, सर्वम्, न, किञ्चित्, प्रतिभाति, मे ।
ब्रह्म, एव, केवलम्, सर्वम्, कथम्, वर्णाश्रमस्थितिः ॥

पदार्थः ।

महदादि=महत्तत्त्व आदिसे लेकर
 सर्वम्=संपूर्ण
 जगत्=जगत्
 किञ्चित्=किञ्चित् भी
 मे=मुझको
 प्रतिभाति=भान
 न=नहीं होता है

ब्रह्म=ब्रह्म ही
 एव=निश्चय करके
 केवलम्=केवल
 सर्वम्=सर्वरूप है
 वर्णाश्रम- } =वर्णाश्रमकी स्थिति
 स्थितिः }
 कथम्=कैसे हो सकती है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, महत्तत्त्व आदिसे लेकर जितने तत्त्वकार सांख्यके मतमें हैं और उन संपूर्ण तत्त्वोंका कार्यरूप जितना यह जगत् है सो सब मेरेको किञ्चित् भी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि केवल द्वैतसे रहित आनन्दरूप ब्रह्म ही हमको सर्वत्र ध्योंका त्यों भान होता है जब कि ब्रह्मसे भिन्न दूसरा कोई भी वस्तु हमको भान नहीं होता तो फिर हमारी दृष्टिमें वर्णाश्रमकी स्थिति अर्थात् विभाग भी कैसे सिद्ध होवे ॥ ४४ ॥

जानामि सर्वथा सर्वमहमेको निरन्तरम् ॥

निरालम्बमशून्यं च शून्यं व्योमादिपञ्चकम् ॥४५॥

पदच्छेदः ।

जानामि, सर्वथा, सर्वम्, अहम्, एकः, निरन्तरम् ।

निरालम्बम्, अशून्यम्, च, शून्यम्, व्योमादिपञ्चकम् ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं
 सर्वम्=सबको
 सर्वथा=सर्व प्रकारसे
 जानामि=जानता हूँ
 अहम्=मैं
 एकः=एक ही हूँ
 निरन्तरम्=निरन्तर हूँ

निरालम्बम्=निरालम्ब हूँ
 अशून्यम्=शून्यसे रहित हूँ
 च=और
 शून्यम्=शून्य
 व्योमादि- } =आकाशादि पांच हैं
 पञ्चकम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं सर्वथा संपूर्ण जगत् और आकाशादि पांच भूतोंको शून्यरूप जानता हूँ, और मैं अपनेको शून्यतासे रहित शून्यका साक्षी जानता हूँ, और मैं एक ही हूँ, और निरन्तर हूँ, अर्थात् एकरस हूँ, आलम्बसेभी रहित हूँ ॥ ४१ ॥

न षण्डो न पुमान् स्त्री न बोधो नैव कल्पना ।

सानन्दो वा निरानन्दमात्मानं मन्यसे कथम् ॥ ४६ ॥

पदच्छेदः ।

न, षण्डः, न, पुमान्, न, स्त्री, न, बोधः, नैव, कल्पना । सानन्दः, वा, निरानन्दम्, आत्मानम्, मन्यसे, कथम् ॥

पदार्थः ।

न षण्डः=आत्मा न नपुंसक है
न पुमान्=न पुरुष है
न स्त्री=न स्त्री है
न बोधः=न ज्ञान है
एव=निश्चयकरके
न कल्पना=कल्पना भी नहीं है

सानन्दः=आनन्दके सहित
वा=अथवा
निरानन्दम्=आनन्दसे रहित
आत्मानम्=आत्माको
कथम्=किस प्रकार
मन्यसे=तुम मानते हो

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मा नपुंसक नहीं है, और पुरुष तथा स्त्री भी नहीं है, और वृत्तिज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानस्वरूप है, और कल्पनारूप भी नहीं है किन्तु कल्पनाका भी साक्षी है, फिर आत्मा आनन्दके सहित भी नहीं है किन्तु आनन्दरूप है और आनन्दसे रहित भी नहीं है तो फिर हे शिष्य ! आत्माको तुम कैसे मानते हो ? यदि तुम पुनपुंसकादिक रूप करके आत्माको मानते हो तो ऐसा मानना तुम्हारा मिथ्या है ॥ ४६ ॥

ननु—हम स्त्री पुरुषादिक रूपोंसे तो आत्माको भिन्न ही मानते हैं परंतु तिसको अशुद्ध मानकर उसके शोधनका यत्न करते हैं । उच्यते—ऐसा कथन भी ठीक नहीं है—

षडंगयोगात् न तु नैव शुद्ध
मनोविनाशात् न तु नैव शुद्धम् ॥
गुरूपदेशात् न तु नैव शुद्धम्
स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव शुद्धम् ॥४७॥

पदच्छेदः ।

षडंगयोगात्, न, तु, न, एव, शुद्धम्, मनोविनाशात्,
न, तु, नैव, शुद्धम् । गुरूपदेशात्, न, तु, नैव, शुद्धम्,
स्वयम्, च, तत्त्वं, स्वयम्, एव, शुद्धम् ॥

पदार्थः ।

षडंग- } =षडंगयोगसे भी	गुरूपदेशात्=गुरुके उपदेशसे भी
योगात् } आत्मा	आत्मा
एव=निश्चयकरके	शुद्धम्=शुद्ध
शुद्धम्=शुद्ध	न तु नैव=नहीं होता २
न तु नैव=नहीं होता २	स्वयम्=आप ही आत्मा
मनोविनाशात्=मनके नाश होनेसे	तत्त्वं=सारवस्तु है
मी आत्मा	च=और
शुद्धम्=शुद्ध	स्वयम्=आप ही
न तु नैव=नहीं होता २	एव=निश्चयकरके
	शुद्धम्=शुद्ध वस्तु है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं पद अंगोंके सहित योगाम्यासके करनेसे भी आत्माकी शुद्धि नहीं होती है। ननु—मनके नाश करनेसे आत्माकी शुद्धि होती है। उच्यते—नहीं होती है २। ननु—गुरुके उपदेशसे आत्माकी शुद्धि होती है। उच्यते—नहीं होती है।

है २ । ननु—तो फिर आत्माकी शुद्धि किस उपायके करनेसे होती है। उच्यते—
आत्मा स्वतः शुद्ध है, जो वस्तु स्वरूपसे ही शुद्ध है, उसको जो अशुद्ध मानते हैं
वे मूर्ख कहे जाते हैं और संसारमें इस प्रकार कोई भी नहीं कहता है। कि मेरा
आत्मा अशुद्ध है किन्तु मूर्खसे मूर्खभी यही कहता है कि, मेरा मन बड़ा अशुद्ध
है इसीवास्ते मनके निरोधका ही सब लोग साधन पूछते है, आत्माके निरो-
धका और आत्माकी शुद्धिका साधन न तो कोई पूछता है और न कहीं लिखा
ही है इसवास्ते आत्मा नित्य शुद्धस्वरूप है ॥ ४७ ॥

न हि पञ्चात्मको देहो विदेहो वर्तते न हि ।

आत्मैव केवलं सर्वं तुरियं च त्रयं कथम् ॥४८ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, पञ्चात्मकः, देहः, विदेहः, वर्तते, न, हि ।

आत्मा, एव, केवलम्, सर्वम्, तुरीयम्, च, त्रयम्, कथम् ॥

पदार्थः ।

पञ्चात्मकः = पाञ्चभौतिक

देहः = देह भी

हि = निश्चय करके

न = नहीं है

विदेहः = देहसे रहित भी

हि = निश्चय करके

न = नहीं

वर्तते = वर्तता है

आत्मा = आत्मा ही

एव = निश्चयकरके

केवलम् = केवल है

सर्वम् = सर्वरूप भी है

तुरीयम् = तुरीय

च = और

त्रयम् = तीन अवस्था

कथम् = कैसे है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मा पाञ्चभौतिकरूपों देह नहीं है क्यों कि देह जड
है, आत्मा चेतन है, और विदेह अर्थात् देहसे रहित भी नहीं है, क्यों कि संपूर्ण
देहोंमें पूर्ण होकरके स्थित है, और आत्मा ही केवल सद्रूप है, सर्वरूप भी है
आत्मासे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। जब कि आत्मासे भिन्न कोई भी वस्तु
नहीं है तब फिर तीन अवस्था और तुरीय अवस्था कैसे बनती हैं ॥ ४८ ॥

न बद्धो नैव मुक्तोऽहं न चाहं ब्रह्मणः पृथक् ॥

न कर्ता न च भोक्ताहं व्याप्यव्यापकवर्जितः ॥ ४९ ॥

पदच्छेदः ।

न, बद्धः, नैव, मुक्तः, अहम्, न, च, अहम्, ब्रह्मणः, पृथक् ।

न कर्ता, न, च, भोक्ता, अहम्, व्याप्यव्यापकवर्जितः ॥

अहम्=मैं

| पृथक् = भिन्न भी

बद्धः=बद्ध

न = नहीं हूँ

न च=नहीं हूँ और

न कर्ता = कर्ता भी नहीं हूँ

मुक्तः=मुक्त भी

अहम् = मैं

एव=निश्चयकरके

भोक्ता = भोक्ता भी

न=नहीं हूँ

न च = नहीं हूँ और

अहम्=मैं

व्याप्यव्या- } = मैं व्याप्य और व्याप-

ब्रह्मणः=ब्रह्मसे

पकवर्जितः } कभावसे भी रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं बद्ध नहीं हूँ फिर मैं मुक्त भी नहीं हूँ क्यों कि स्वयंप्रकारा दैतसे रहित आत्मासे बंध और नोक्षका व्यवहार भी नहीं बनता है फिर मैं ब्रह्मसे भिन्न भी नहीं हूँ, न मैं कर्ता हूँ, और न मैं भोक्ता हूँ क्योंकि “असङ्गोऽयं पुरुष”-श्रुति आत्माको असंग ब्रतलाती है, फिर मैं व्याप्य-व्यापकभावसे भी रहित हूँ क्योंकि एकमें व्याप्यव्यापकभाव तीना कालम नहीं बनता है ॥ ४९ ॥

यथा जलं जले न्यस्तं सलिलं भेदवर्जितम् ॥

प्रकृतिं पुरुषं तद्रूपं तद्रूपं प्रतिभाति मे ॥ ५० ॥

पदच्छेदः ।

यथा जलम्, जले, न्यस्तम्, सलिलम्, भेदवर्जितम् ।

प्रकृतिम्, पुरुषम्, तद्रूपं, तद्रूपं, प्रतिभाति, मे ॥

पदार्थः ।

यथा=जिस प्रकार	तद्भूत्=तैसे ही
जलम्=जल	प्रकृतिम्=प्रकृति और
जले=जलमें	पुरुषम्=पुरुष
न्यस्तम्=फेंका हुआ	मे=मेरेको
सलिलम्=जलरूप ही	अभिन्नम्=अभिन्न
भेदवर्जितम्=भेदसे रहित होजाताहै	प्रतिभाति=प्रतीत होताहै

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, जिस प्रकार जलमें फेंका हुआ जल जलरूप ही होजाता है तिसां प्रकार प्रकृति और पुरुष भी मेरेको अभिन्नरूप करके प्रतीत होतेहैं। तात्पर्य यह है कि, लोकमें भी जैसे अग्नि और अग्निकी दाहकशक्तिका भेद किसी प्रकारसे भी सिद्ध नहीं होताहै इसी प्रकार ब्रह्मचेतनकी शक्तिका भी ब्रह्मचेतनके साथ किसी प्रकारसे भी भेद सिद्ध नहीं होताहै. भूर्खलोग भेद मानते हैं, ज्ञानो पुरुष भेद नहीं मानते हैं ॥ ९० ॥

ननु—आत्मा साकार है या निराकार है । उच्यते—

यदि नाम न मुक्तोऽसि न बद्धोऽसि कदाचन ॥

साकारं च निराकारमात्मानं मन्यसे कथम् ॥९१

पदच्छेदः ।

यदि, नाम, न, मुक्तः, असि, न, बद्धः, असि, कदाचन ।

साकारम्, च, निराकारम्, आत्मानम् मन्यसे, कथम् ॥

पदार्थः ।

यदि नाम=यदि यह बात प्रतिद्ध है	आत्मानम्=आत्माको
मुक्तः=मुक्त तू	साकारम्=साकार
न असि=नहीं है और	च=और
कदाचन=कदाचित्	निराकारम्=निराकार
बद्धः=बद्ध भी त	कथम्=किस प्रकार
न असि=नहीं है तो फिर	मन्यसे =तू मानता है

भाष्यार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे मुमुक्षु ! यदि तू मुक्त नहीं है और ब्रह्म भी नहीं है, अर्थात् कदाचित् यदि तेरेमें मुक्त और ब्रह्म व्यवहार नहीं है तो फिर तू आत्मको साकार और निराकार कैसे मानता है अर्थात् साकार निराकार कथन अज्ञानावस्थामेही बनता है क्योंकि उस अवस्थामे ब्रह्मसे मोक्षका व्यवहार होता है, जीवन्मुक्त अवस्थाने तो ब्रह्म मोक्ष व्यवहार ही नहीं है अत एव साकार निराकार कथनभी नहीं बनता है ॥ ५१ ॥

जानामि ते परं रूपं प्रत्यक्षं गगनोपमम् ।

यथा परं हि रूपं यन्मरीचिजलसन्निभम् ॥ ५२ ॥

पदच्छेदः ।

जानामि, ते, परम्, रूपम्, प्रत्यक्षम्, गगनोपमम् ।

यथा, परम्, हि, रूपम्, यत्, मरीचिजलसन्निभम् ॥

पदार्थः ।

ते=तुम्हारे

परम्=परम

रूपम्=रूपको

जानामि=मैं जानता हूँ

प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष है

गगनोपमम्=गगनकी उपमावाला है

यथा=जिसप्रकार

परम्—जगत्का

रूपम्—रूप है

यत्—जो कि

मरीचिज—(=मृगतुष्याके जलकी

लसन्निभम्) तरह है वैसा तुम्हारा

नहीं है.

भाष्यार्थः ।

तुम्हारे परमरूपको मैं जानता हूँ वह प्रत्यक्ष गगनकी तरह व्यापक है नित्य है, और जगत्का स्वरूप मृगतुष्याके जलकी तरह मिथ्या है । इतना ही तुम्हारे और जगत्के स्वरूपका फरक है ॥ ५२ ॥

न गुरुर्नोपदेशश्च न चोपाधिर्न मे क्रिया ।

विदेहं गगनं विद्धि विशुद्धोऽहं स्वभावतः ॥ ५३ ॥

पदच्छेदः ।

न, गुरुः, न, उपदेशः, च, न, च, उपाधिः, न, मे, क्रिया ।
विदेहम्, गगनम्, विद्धि, विशुद्धः, अहम्, स्वभावतः ॥

पदार्थः ।

मे=मेरा

गुरुः=गुरु भी कोई

न=नहीं है

च=और

उपदेशः=उपदेश भी

न=नहीं है और

उपाधिः=उपाधि भी

न च=नहीं है

क्रिया = क्रिया भी कोई

न = नहीं है मुझको

विदेहम् = देहसे रहित

गगनम् = आकाशवत्

विद्धि = तू जान क्योंकि

अहम् = मैं

स्वभावतः = स्वभावसे ही

विशुद्धः=शुद्ध हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मेरा वास्तवसे गुरु भी कोई नहीं है जब कि गुरु ही परमार्थदृष्टिसे नहीं है तब उपदेश कहांसे बनसकता है ? क्योंकि गुरु और शिष्यका व्यवहार भेदको लेकरके ही होता है, सो जिसकी दृष्टिमें भेद ही नहीं रहा है उसकी दृष्टिमें गुरु और शिष्यका व्यवहार भी नहीं रहता है फिर भेदभावनासे रहितकी दृष्टिमें जब कि, उपाधि नहीं है उपाधिकृत क्रिया भी नहीं रहती है । इसीवास्ते कहते हैं हे शिष्य ! हमको देहसे रहित गगनके तुल्य तू व्यापक जान क्योंकि हम स्वभावसेही शुद्ध हैं ॥५३॥

ननु—तुम तो स्वभावसे ही शुद्ध हो मैं कौन हूँ । उच्यतेः—

विशुद्धोऽस्यशरीरोऽसि न ते चित्तं परात्परम् ।

अहं चात्मा परं तत्त्वमिति वक्तुं न लज्जसे ॥ ५४ ॥

पदच्छेदः ।

विशुद्धः, असि, अशरीरः, असि, न, ते, चित्तम्, परात्परम् ।

अहम्, च, आत्मा, परम्, तत्त्वम्, इति, वक्तुम्, न, लज्जसे ॥

पदार्थः ।

विशुद्धः = विशेषकारके शुद्ध
 आसि = तू है फिर तू
 अशरीरः = शरीरसे रहित
 आसि = है
 ते = तुम्हारा
 चित्तम् = चित्त भी
 न = नहीं है
 अहम् = मैं

परात्परम् = पर जो माया उत्पत्ति में
 सूक्ष्म हूँ
 च = और मैं
 आत्मा = आत्मा हूँ
 परम् = परम
 तत्त्वम् = तत्त्व
 इति = इस प्रकार
 वक्तुम् = कथन करते
 न लज्जसे = न लज्जा नहीं करता है

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—तू भी शुद्ध है और शरीरसे रहित है । तेरा चित्त-
 के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि तू प्रकृतिसे भी अतिसूक्ष्म है, तो
 फिर यह जो कथन है कि, मैं आत्मा हूँ, परमतत्त्व हूँ, यह भी वास्तवसे
 नहीं बनता है इसवास्ते ऐसे कथन करनेसे भी तू क्या लज्जित नहीं होता ?
 क्योंकि अद्वैतमें ऐसा कथन नहीं बनता है ॥ १४ ॥

कथं रोदिषि रे चित्तं ह्यात्मैवात्मात्मना भव ।

पिब वत्स कलातीतमद्वैतं परमामृतम् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

कथम्, रोदिषि रे चित्तं, हि, आत्मा, एव, आत्मा,
 आत्मना, भव । पिब, वत्स, कलातीतम् अद्वैतम्, परमामृतम् ॥

पदार्थः ।

रे चित्तं = हे चित्त !
 कथम् = क्यों तू
 रोदिषि = रुदन करता है
 हि एव = निश्चय काके
 आत्मा = तू आत्मा रूप है
 आत्मना = अपने कर्त्तके
 आत्मा = आत्मा

भव = तू होजा
 वत्स = हे वत्स !
 कलातीतम् = कलसे रहित
 अद्वैतम् = अद्वैतरूपा
 परमामृतम् = परम अमृतको
 पिब = तू पान कर

भावार्थः ।

चित्त ! तू किसवास्ते रुदन करताहै ? तेरा रुदन करना व्यर्थ है क्योंकि तू आत्मस्वरूप है, अनात्मा नहीं है । यदि तूने भ्रमकरके अपनेको अनात्मा मान रक्खा हो तो फिर तू विचारके द्वारा भ्रमको दूर करके अपने आत्मा-करके अर्थात् अपने आत्माके ज्ञानकरके फिर आत्मा होजा अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थित होजा । और कल्पनासे रहित परम अद्वैतरूपी अमृतको हे वत्स (प्रिय) ! तू पान कर ॥ ५५ ॥

नैव बोधो न चाबोधो न बोधाबोध एव च ॥

यस्येदृशः सदा बोधः स बोधो नान्यथा भवेत् ॥ ५६ ॥

पदच्छेदः ।

नै, एव, बोधः, न, च, अबोधः, न, बोधाबोधः एव, च ।

यस्य, ईदृशः, सदा, बोधः, सः, बोधः, न, अन्यथा, भवेत् ॥

पदार्थः ।

एव=निश्चयकरके

बोधः=आत्मज्ञान

न=नहीं है

अबोधः=अज्ञान भी

न च=नहीं है और

बोधाबोधः=ज्ञान अज्ञान उभयरूप भी

एव=निश्चय करके

न च=नहीं है और

यस्य=जिस पुरुषको

ईदृशः=इसप्रकारका

सदा=सर्वकाल

बोधः=ज्ञान है

सः बोधः=सो ज्ञानस्वरूप है

अन्यथा=अन्यथा वह

न भवेत्=नहीं होताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—कि, आत्मा अन्तःकरणकी वृत्ति ज्ञानरूप नहीं है और अज्ञानरूप भी नहीं है, और ज्ञान अज्ञान उभयरूप भी नहीं है किन्तु केवल ज्ञानस्वरूप ही है । जिस पुरुषको इस प्रकारका सर्व काल आत्माका ज्ञान है सो पुरुष ज्ञानस्वरूप ही है, वह अन्यथा कदापि नहीं होता है ॥ ५६ ॥

ज्ञानं न तर्कौ न समाधियोगो
 न देशकालौ न गुरूपदेशः ।
 स्वभावसंवित्तिरहं च तत्त्व-
 माकाशकल्पं सहजं ध्रुवं च ॥ ५७ ॥

पदच्छेदः ।

ज्ञानम्, न, तर्कः, न, समाधियोगः, न, देशकालौ, न,
 गुरूपदेशः । स्वभावसंवित्तिः, अहम्, च, तत्त्वम्,
 आकाशकल्पम्, सहजम्, ध्रुवम्, च ॥

पदार्थः ।

ज्ञानम्=अन्यज्ञान भी मैं	स्वभाव- { स्वभावसे ही ज्ञान- संवित्तिः } स्वरूप च=और तत्त्वम्=यथार्थवस्तु अहम्=मैं हूँ आकाश- { =आकाशको सहज अल्पम् } व्यापक च=और अन्यथा=अन्यथा वह न भवेत्=नहीं होताहै।
न=नहीं हूँ	
तर्कः=तर्करूपभी	
न=मैं नहीं हूँ	
समाधियोगः=समाधियोगरूप भी	
न=मैं नहीं हूँ	
देशकालौ=देशकालभी	
न=मैं नहीं हूँ	
गुरूपदेशः=गुत्का उपदेश रूपभी	
न=मैं नहीं हूँ किन्तु	

भावार्थः ।

स्वामी दत्तत्रेयजी अपने अनुभवको कहतेहैं—हम ज्ञान नहीं है अर्थात् जो कि
 इन्द्रिय विषयके सम्बन्धसे अंतःकरणकी वृत्तिरूपजन्य ज्ञान है सो मैं नहीं हूँ ।
 और शास्त्रविरुद्ध अथवा शास्त्रसंमतरूप जो कि तर्क है सो भी मैं नहीं हूँ ।
 और चित्तका निरोधरूपी जो योग और समाधि है सो भी मैं नहीं हूँ । और
 देशकालरूप भी मैं नहीं हूँ । और उपदेशको करनेवाला गुत्का उपदेशरूप भी

मैं नहीं हूँ, किन्तु स्वभावसे ही मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, और यथार्थ तत्त्ववस्तु आकाशवत् व्यापक भी मैं हूँ । और स्वभावसे ही मैं नित्य भी हूँ मेरेसे भिन्न अनित्य है ॥ ५७ ॥

न जातोऽहं मृतो वापि न मे कर्म शुभाशुभम् ।

विशुद्धं निर्गुणं ब्रह्म बन्धो मुक्तिः कथं मम ॥ ५८ ॥

पदच्छेदः ।

न, जातः, अहम्, मृतः, वा, अपि, न, मे, कर्म, शुभाशुभम् ।

विशुद्धम्, निर्गुणम्, ब्रह्म, बन्धः, मुक्तिः, कथम्, मम ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं कभी

नं जातः=उत्पन्न नहीं हुआ हूँ

अहम्=मैं कभी

न मृतः=मरा नहीं हूँ

मे=मुझको

शुभाऽशुभम्=शुभ और अशुभ

कर्म न=कर्म भी नहीं है क्योंकि मैं

विशुद्धम्=शुद्धस्वरूप हूँ

निर्गुणम्=निर्गुण हूँ

ब्रह्म=ब्रह्म हूँ

मम=मेरा

बन्धः=बन्ध

मुक्तिः=मुक्ति

कथम्=कैसे, क्योंकि मैं मुक्तरूप हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं--जो जन्मता है वह अवश्यही मरता है--जो कि जन्मता ही नहीं है वह मरता भी नहीं है, सो जन्ममरण साकार और जड़ शरीरादिकोंकेही होतेहैं, निराकार निरवयव चेतनके नहीं होतेहैं । सो मैं निराकार चेतन व्यापक रूप हूँ इसवास्ते मेरे जन्मादिक भी नहीं हैं और शुभ अशुभ कर्म भी सब शरीरादिकोंके धर्म हैं मेरे धर्म नहीं हैं क्योंकि मैं शुद्धस्वरूप निर्गुण ब्रह्म हूँ फिर मेरा बन्ध और मुक्ति कैसे होसकी है ? क्योंकि मैं तो नित्य मुक्तरूप हूँ ॥ ५८ ॥

यादि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णो निरन्तरः ।

अन्तरं हि न पश्यामि स बाह्याभ्यन्तरः कथम् ॥ ५९ ॥

पदच्छेदः ।

यदि, सर्वगतः, देवः, स्थिरः, पूर्णः, निरन्तरः ।

अन्तरम्, हि, न, पश्यामि, सः, बाह्याभ्यन्तरः, कथम् ।

वदार्थः ।

यदि=जब कि

देवः=प्रकाशमान आत्मा

सर्वगतः=सर्वगत है

स्थिरः=स्थिर भी है

पूर्णः=पूर्ण भी है

निरन्तरः=एकरस भी है

अन्तरम्=शरीरके भीतरही तिसको

न पश्यामि=मैं नहीं देखताहूँ क्योंकि

सः=सो देव

बाह्याभ्यन्तरः }=बाहर और भीतर

न्तरः }=सर्वत्र है

कथम्=कैसे सर्वत्र न देखूँ ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—वह प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है । अर्थात् सर्वत्र एकरस प्राप्त है, कहीं भी न्यून अधिक नहीं है, और स्थिर भी है, अर्थात् अचल भी है, किसीतरहसे भी वह चलायमान नहीं होताहै, पूर्ण है, एकरसभी है, और शरीरके भीतर ही मैं तिसको नहीं देखताहूँ क्योंकि वह केवल शरीरके भीतर ही नहीं है किन्तु बाहर भीतर सर्वत्र है इसवास्ते बाहर भीतर हम तिसको देखते हैं ॥ ५९ ॥

स्फुरत्येव जगत्कृत्स्नमखण्डितनिरन्तरम् ॥

अहो मायामहामोहौ द्वैताद्वैतविकल्पना ॥ ६० ॥

पदच्छेदः ।

स्फुरति, एव, जगत्, कृत्स्नम्, अखण्डितनिरन्तरम् ।

अहो, मायामहामोहौ, द्वैताद्वैतविकल्पना ॥

पदार्थः ।

कृत्स्नम्=संपूर्ण	}	अहो=बडा खेद है
जगत्=जगत्		मायामहा- }=माया और महा-
अखण्डितनिर- }=अखण्डित निर-	}	मोहो } मोह
न्तरम् } न्तरही		द्वैताद्वैत- } द्वैत और अद्वैतकी
एव=निश्चय करके	}	विकल्पना } कल्पना भी स्फुरण
स्फुरति=स्फुरण होताहै		होतीहै ।

भावार्थः ।

निराकार व्यापक चेतनमें संपूर्ण जगत् अखण्डित अर्थात् प्रवाहरूपसे निरन्तर ही स्फुरण होताहै, और माया तथा महामोह भी उसीमें स्फुरण होते हैं, और द्वैत अद्वैतकी कल्पना भी उसीमें स्फुरण होती है, वास्तवसे उसमें यह सब कुछ भी नहीं है ॥ ६० ॥

साकारं च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा ॥

भेदाभेदविनिर्मुक्तो वर्तते केवलः शिवः ॥ ६१ ॥

पदच्छेदः ।

साकारम्, च, निराकारम्, न, इति, न, इति, इति, सर्वदा । भेदाभेदविनिर्मुक्तः, वर्तते, केवलः, शिवः ॥

पदार्थः ।

साकारम्=स्थूल	}	सर्वदा=सर्व काल वह
च=और		भेदाभेदविनि- }=भेद और अभे-
निराकारम्=सूक्ष्म जितना है	}	मुक्तः } दसे रहित
इति न=यह सब नहीं है		केवलः=केवल
इति न=यह सब नहीं है	शिवः=कल्याण रूप ही	
इति=इस प्रकार श्रुति कहती है	वर्तते=वर्तता है	



भावार्थः ।

॥ दत्तात्रेयजी कहते हैं—जितना कि स्थूल और सूक्ष्मरूप जगत् है इस संपूर्ण जगत्का श्रुति निषेध करती है कि, वास्तवसे यह सब ब्रह्ममें सर्वकालमें नहीं है वह ब्रह्म केवल है अर्थात् द्वैतसे रहित है और कल्याणस्वरूप भी है ॥ ६१ ॥

न ते च माता च पिता च बन्धु-

न ते च पत्नी न सुतश्च मित्रम् ॥

न पक्षपातो न विपक्षपातः

कथं हि संतप्तिरियं हि चित्ते ॥ ६२ ॥

पदच्छेदः ।

न, ते, च, माता, च, पिता, च, बन्धुः, न, ते, च,
पत्नी, न, सुतः, च, मित्रम् । न, पक्षपातः, न, विपक्ष-
पातः, कथम्, हि, संतप्तिः, इयम्, हि, चित्ते ॥

पदार्थः ।

ते=तुम्हारी

माता=माता

न=नहीं है

च=और तुम्हारा

पिता=पिता भी नहीं है

च=और तुम्हारा

बन्धुः=संबन्धी भी

न=नहीं है

च=और

ते=तुम्हारी

पत्नी=छी भी

न=नहीं है

च=और तुम्हारा

सुतः=पुत्र भी

न=नहीं है

च=और तुम्हारा

मित्रम्=मित्र भी

न=नहीं है

पक्षपातः=पक्षपाती भी तुम्हारा कोई

न=नहीं है

विपक्षपातः=विपक्षपाती भी

न=तुम्हारा नहीं है

हि=निश्चय करके

चित्ते=चित्तमें

इयम्=यह

संतप्तिः=संताप

कथम्=कैसे करते हो ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे जीव ! न तो वास्तवसे तुम्हारी कोई माता ही है और न कोई तुम्हारा पिता ही है, और न कोई तुम्हारा संबंधी ही है, न तो तुम्हारी स्त्री है, न कोई तुम्हारा पुत्र और मित्र ही है । यह तो सब अपने २ स्वार्थके ही हैं, और तुम्हारा पक्षपाती या विपक्षी भी कोई नहीं है, फिर तुम चित्तमें संतापको क्यों करते हो ? यह तो स्वप्नसृष्टिकी तरह मिथ्या है ॥ ६२ ॥

दिवानक्तं न ते चित्त उदयास्तमयौ न हि ।

विदेहस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कथं बुधाः ॥ ६३ ॥

पदच्छेदः ।

दिवानक्तम्, न, ते, चित्ते, उदयास्तमयौ, न हि ।

विदेहस्य, शरीरत्वं, कल्पयन्ति, कथम्, बुधाः ॥

पदार्थः ।

ते=हे शिष्य ! तुम्हारे

चित्ते=चेतनमें

दिवानक्तम्=दिन और रात्रि भी

न=वास्तवसे नहीं हैं और

उदयास्तमयौ=उदय और अस्त भी

न हि=तुम्हारा नहीं है

विदेहस्य=देहसे रहितका

शरीरत्वं=शरीर

बुधाः=बुद्धिमान्

कथम्=कस

कल्पयन्ति=कल्पना करते हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे जीव ! तुम्हारे चेतनस्वरूपमें दिन और रात्रि नहीं हैं, और उदय अस्तभाव भी तिसमें नहीं है क्योंकि वह सदैव एकरस ज्योंका ज्यों ही रहता है और तुम्हारा चेतन आत्मा भी वास्तवसे देहसे रहित है इसीवास्ते वह शरीरवाला भी कदापि नहीं हो सकता है तब फिर विद्वान् जोग उससे शरीरकी कल्पना कैसे करते हैं? किन्तु कदापि नहीं करते हैं ॥ ६३ ॥

नाविभक्तं विभक्तं च न हि दुःखसुखादि च ।

न हि सर्वमसर्वं च विद्धि चात्मानमव्ययम् ॥ ६४ ॥

पदच्छेदः ।

न, अविभक्तम्, विभक्तम्, च, न, हि, दुःखसुखादि, च ।
 न, हि, सर्वम्, असर्वम्, च विद्धि, च, आत्मानम्, अव्ययम् ॥

पदार्थः ।

अविभक्तम्=विभागसे रहित और
 विभक्तम्=विभागके सहित आत्मा
 न=नहीं है
 च=और
 दुःखसुखादि=दुःखसुखादिक भी
 आत्माके
 न हि=धर्म नहीं हैं
 च=और

सर्वम्=सर्वरूपता
 असर्वम्=असर्वरूपता भी
 नहि=नहीं हैं
 च=और
 आत्मानम्=आत्माको
 अव्ययम्=नाशसे रहित
 विद्धि=तू जान

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं आत्मामें विभागपना और अविभागपना भी नहीं बनता है क्योंकि यदि निराकार दो आत्मा हों तब तो विभागादिक भी बने बिना उपाधिके निराकार निरवयवका विभाग कभी नहीं होसकता है और उपाधि सब मिथ्या है इस वास्ते वास्तवसे विभागादिक नहीं बनते हैं । और स्वयंप्रकाश मुखरूप आत्मामें जन्म दुःखसुखादिक भी नहीं बनतेहैं । इसी तरह सर्वाभेद्या प्रपंचरूपता अरूपता भी तिसमें नहीं बनती है इसवास्ते तिस आत्माको तू अव्यय जान ॥ ६४ ॥

नाहं कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना ॥

न मे देहो विदेहो वा निर्ममोति ममेति किम् ॥ ६५ ॥

पदच्छेदः ।

न, अहम्, कर्ता, न, भोक्ता, च, न, मे, कर्म, पुराधुना ।
 न, मे, देहः, विदेहः, वा, निर्गम, इति, मम, इति किम् ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं
कर्ता=कर्मोंका कर्ता
न=नहीं हूँ
च=और उनके फलोंका
भोक्ता=भोक्ता भी
न=नहीं हूँ
मे कर्म=मेरे कर्म
पुराऽधुना=पूर्व और अब
न=नहीं हूँ

मे=मेरा
देहः=देह भी
न=नहीं है
वा=अथवा
विदेहः=मैं देहसे रहित भी नहीं हूँ
निर्ममेति=ममतासे रहित और
ममेति=ममताके सहित
किम्=कैसे मैं हो सकता हूँ

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—न तो मैं कर्मोंका कर्ता हूँ, और न मैं उनके फलोंका भोक्ता ही हूँ । फिर न तो मेरे पूर्वले जन्मोंके ही कर्म हैं, और न इसी जन्मके कर्म हैं । जिस कारण पूर्वोत्तर जन्मके मेरा कर्म कोई नहीं है इसी वास्ते मेरा शरीर भी नहीं है और मैं विदेह अर्थात् देहसे रहित भी नहीं हूँ क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है किंतु मैं जीवन्मुक्त हूँ इसीवास्ते ममतासे रहित और ममताके सहित भी मैं नहीं हूँ किन्तु अपने आत्मनन्दमें मग्न हूँ ॥ ६५ ॥

न मे रागादिको दोषो दुःखं देहादिकं न मे ॥

आत्मानं विद्धि मामेकं विशालं गगनोपमम् ॥ ६६ ॥

पदच्छेदः ।

न, मे, रागादिकः, दोषः, दुःखम्, देहादिकम्, न मे, ।

आत्मानम्, विद्धि, माम्, एकम्, विशालम्, गगनोपमम् ॥

पदार्थः ।

रागादिकः=रागादिक
दोषः=दोष भी
मे न=मेरे नहीं हैं
दुःखम्=दुःखरूप
देहादिकम्=देहादिक भी
मे न=मेरे नहीं है

माम्=मुझको
आत्मानम्=आत्मारूप और
एकम्=एक
विशालम्=विस्तारवाला
गगनोपमम्=आकाशके तुल्य
विद्धि=तू जान

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—राग और द्वेषादिक दोष भी मेरेमें नहीं है, आर
दुःखरूप देहादिक भी मेरे नहीं हैं, किन्तु मुझको एक और विशाल (अति-
विस्तृत) आकाशके सदृश हे शिष्य ! तू जान ॥ ६६ ॥

सखे मनः किं बहुजल्पितेन

सखे मनः सर्वमिदं वितर्क्यम् ॥

यत्सारभूतं कथितं मया ते

त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽसि ॥ ६७ ॥

पदच्छेदः

सखे, मनः, किम्, बहुजल्पितेन, सखे, मनः, सर्वम्,
इदम्, वितर्क्यम् । यत्, सारभूतम्, कथितम्, मया,
ते, त्वम्, एव, तत्त्वं, गगनोपमः, असि ॥

पदार्थः ।

सखे मनः=हे सखे मन !

बहुजल्पितेन=बहुत कथन करनेसे

किम्=क्या प्रयोजन है

सखे मनः=हे सखे मन !

इदम्=यह जगत्

सर्वम्=सम्पूर्ण

वितर्क्यम्=तर्क करनेके योग्य है

यत्=जो कि

सारभूतम्=सारभूत

मया=मन

कथितम्=कथन किया

ते=तुम्हारे प्रति

त्वम्=तू ही

एव=निश्चय करके

तत्त्वं=शे है

तत्त्वम्=सो तुम

गगनोपमः=आकाशके तुल्य

असि=है

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी अपने मनके प्रति कहने हैं—हे सखे मन ! तुम्हारे प्रति बहुत
कथन करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं किन्तु जितना कि यह दृश्यमान जगत्

है सो तब तर्क करनेके योग्य है और जोकि हमने तुम्हारे प्रति पूर्व सारभूत सिद्धांत कथन किया है कि ब्रह्मचेतन तुम ही हो सो तुम आकाशके तुल्य निर्लेप और असंग भी हो ॥ ६७ ॥

येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृता अपि ।

योगिनस्तत्र लीयन्ते घटाकाशमिवाम्बरे ॥ ६८ ॥

पदच्छेदः ।

येन, केन, अपि, भावेन, यत्र, कुत्र, मृताः, अपि ।

योगिनः, तत्र, लीयन्ते, घटाकाशम्, इव, अम्बरे ॥

पदार्थः ।

येन केन=जिस किसी

भावेन=भावसे

अपि=निश्चयकरके

यत्र कुत्र=जहां कहीं

मृताः=मरणके प्रात

अपि=भी

योगिनः=वे ज्ञानवान्

तत्र=उसी ब्रह्ममें ही

लीयन्ते=लीन हो जाते हैं

घटाकाशम्=घटाकाशके

इव=एकमान

अम्बरे=महाकाशमें लीन होजाता है

भावार्थः ।

देवतात्रेयजी कहते हैं—ज्ञानवान् पुत्र्य जिस किसी निमित्तसे जहां कहीं प्राणोंका त्याग भी करदेता है, अर्थात् उत्तम मध्यमादि भूमियोंमें शरीरको भी छोड़ देता है तब भी वह पूर्ण ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है जैसे घटके फूटजाने पर घटाकाश महाकाशमें लीन हो जाता है ॥ ६८ ॥

तीर्थे चान्त्यजगेहे वा नष्टस्मृतिरपि त्यजन् ।

समकाले तनुं मुक्तः कैवल्यव्यापको भवेत् ॥ ६९ ॥

पदच्छेदः ।

तीर्थे, च, अन्त्यजगेहे, वा, नष्टस्मृतिः, अपि,

त्यजन् । समकाले, तनुम्, मुक्तः, कैवल्यव्यापकः, भवेत् ॥

पदार्थः ।

तीर्थे=तीर्थमें

च=और

अन्त्यजगोहे=बाण्डालके घरमें

वा=अथवा

नष्टस्मृतिः=बेहोश हुआ भी

आपि=विश्वयकरके

समकाले=समकालमें

तनुम्=शरीरको

त्यजत्=त्यागता

मुक्तः=मुक्त हुआ

कैवल्यव्यापकः=व्यापक ब्रह्मरूप

भवेत्=होजाता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—ज्ञानवान् जिवन्मुक्त सचेत हुआ २ अथवा अचेत हुआ २ कित्ती तीर्थमें या बाण्डालके घरमें समकालमें अर्थात् प्रारब्धकर्मके समाप्त होजानेपर शरीरको त्यागकर मुक्त हुआ भी मुक्तरूप व्यापक चेतन-ब्रह्ममें ही मिलजाता है, लोकान्तरको या देहान्तरको नहीं प्राप्त होजाता है इसी अर्थको श्रुति भी कहती है “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” तिस ज्ञानवान्के प्राण लोकान्तरमें या देहान्तरमें गमन नहीं करते हैं किन्तु “अत्रैव समवलीयन्ते” इसी लोकमें अपने कारणमें लीन होजाते हैं और विद्वान्का आत्मा ब्रह्मचेतनमें लीन हो जाता है अर्थात् ब्रह्मके साथ तिसका अभेद होजाता है फिर तिसका जन्म नहीं होता है ॥ ६९ ॥

धर्मार्थकाममोक्षांश्च द्विपदादिचराचरम् ॥

मन्यन्ते योगिनः सर्वं मरीचिजलसन्निभम् ॥ ७० ॥

पदच्छेदः ।

धर्मार्थकाममोक्षान्, च, द्विपदादिचराचरम् ।

मन्यन्ते, योगिनः, सर्वम्, मरीचिजलसन्निभम् ॥

पदार्थः ।

धर्मार्थकाम- } =धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
मोक्षान् }

च=और

द्विपदादि- } =द्विपद आदि जितने
चराचरम् } चर अचर हैं

सर्वम्=सबको

योगिनः=ज्ञानी लोग

मरीचिजल- } =मृगतृष्णाके जलके

सन्निभम् } सदृश

मन्यन्ते=मानते हैं

भावार्यः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थोंको और संसारमें जितने दोषांश तथा चार पाँववाला इत्यादिक जंगम जीव हैं और जितने कि वृक्षादिक स्थावर हैं इन सबको ज्ञानीलोग मृगतृष्णाके जलके तुल्य मनतेहैं अथान् मिथ्या मानते हैं इसीवास्ते इनमेंसे किसीसे भी वह गतिको नहीं चाहते हैं ॥ ७० ॥

अतीतानागतं कर्म वर्तमानं तथैव च ॥

न करोमि न भुञ्जामि इति मे निश्चला मतिः ॥७१॥

पदच्छेदः ।

अतीतानागतम्, कर्म, वर्तमानम्, तथा, एव, च ।

न, करोमि, न, भुञ्जामि, इति, मे, निश्चला, मतिः ॥

पदार्थः ।

अतीताना- } भूत और भविष्यत्
गतम् . } कर्मोंको और
तथा = तैसे ही
एव = निश्चयकरके
वर्तमानम् = वर्तमान
कर्म = कर्मको
वहम् = मैं

न करोमि = नहीं करता हूँ और
न भुञ्जामि = इनके फलको भी मैं नहीं
भोगता
इति = इस प्रकारकी
मे = मेरी
निश्चला = स्थिर
मतिः = बुद्धि है

भावार्यः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—भूत, भविष्यत् और वर्तमान ये तीन प्रकारके कर्म हैं उनमें जो पूर्वले जन्मोंमें कर्म कियेहैं गये ह वह भूत कर्म कहाते हैं और जो भविष्यत् जन्मोंमें किये जायेंगे वह भविष्यत् कर्म कहेजाते हैं, जो वर्तमान जन्ममें किये जातेहैं वह वर्तमान कर्म कहेजातेहैं । इनको मैं न करता हूँ और न इनके फलका भोगता हूँ । ऐसी मेरी स्थिर बुद्धि है । तात्पर्य, यह है कि जिसका कर्मादिकोंमें अध्यास है वही अपने को कर्ता मानकर दुःखको प्राप्त

होताहै, और जिसका अध्यास निवृत्त होगया है वह अपनेको न तो कर्ता मानताहै और न दुःखको प्राप्त होताहै, इसीवास्ते वह जीवन्मुक्त भी कहा जाताहै । इसीमें दत्तात्रेयजीका तात्पर्य है ॥ ७१ ॥

शून्यागारे समरसपूत—

स्तिष्ठन्नैकः सुखमवधूतः ।

चरति हि नग्नस्त्यक्त्वा गर्वम्

विन्दति केवलमात्मनि सर्वम् ॥ ७२ ॥

पदच्छेदः ।

शून्यागारे, समरसपूतः, तिष्ठन्, एकः, सुखम्, अवधूतः ।
चरति, हि, नग्नः, त्यक्त्वा, गर्वम्, विन्दति, केवलम्,
आत्मनि, सर्वम् ॥

पदार्थः ।

शून्यागारे=शून्य मन्दिरमें

समरसपूतः=समतारुणी रसकरके

पवित्र हुआ

एकः=अकेला

अवधूत=अवधूत

सुखम् = सुखपूर्वक

तिष्ठन् = स्थित होता है

गर्वम् = अहंकारको

त्यक्त्वा = त्याग करके

नग्नः = नग्न

हि = निश्चयकरके

चरति = विचरता भी है

केवलम् = केवल

आत्मनि = आत्मामें ही

सर्वम् = सबको

विन्दति = जानता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जीवन्मुक्त अवधूत समदृष्टिवाला हुआ २ शून्य मन्दिरमें पवित्र होकर स्थित होता है। अर्थात् निर्जन देशमेंही रहताहै, और सर्व पदार्थोंमें अहंकारका त्याग करके ही विचरतेहै । इसीवास्ते वह सुखी अपने आत्मामें ही सर्व प्रपञ्चको कल्पित देखता है ॥ ७२ ॥

त्रितयतुरीयं नहि नहि यत्र ।

विन्दति केवलमात्मनि तत्र ।

धर्माधर्मौ नहि नहि यत्र

बद्धो मुक्तः कथमिह तत्र ॥ ७३ ॥

पदच्छेदः ।

त्रितयतुरीयम्, नहि, नहि, यत्र, विन्दति, केवलम्, आत्मनि, तत्र ।

धर्माधर्मौ, नहि, नहि, यत्र, बद्धः, मुक्तः, कथम्, इह, तत्र ॥

पदार्थः ।

तत्र = जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें

त्रितयं- } = जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और

तुरीयम् } तुरीय यह चारों

नहि नहि = नहीं है नहीं हैं

तत्र = तिसी जीवन्मुक्ति अवस्थामें

आत्मनि = आत्मामें ही

केवलम् = ब्रह्मानन्दको ही

विन्दति = लभताहै फिर

यत्र = जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें

धर्माधर्मौ = धर्माधर्म भी

नहि नहि = नहीं है नहीं है

तत्र = तिस अवस्थामें

बद्धः = यह बद्ध है

मुक्तः = यह मुक्त है

इह = यहां

कथम् = यह व्यवहार कैसे होता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें जीवन्मुक्तकी दृष्टिमें जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय यह चारों अवस्था नहीं हैं उसी अवस्थामें जीवन्मुक्त अपने आत्मामें ब्रह्मानन्दको प्राप्त होताहै फिर जिस अवस्थामें धर्म अधर्म भी नहीं हैं उस अवस्थामें यह बद्ध है और यह मुक्त है यह व्यवहार कैसे हो सकता है ? ॥ ७३ ॥

विन्दतिविन्दति नहिनहि मंत्रं छंदो लक्षणं नहिनहितंयम् ।

समरसमग्नी भावितपूतः प्रलापितमेतत्परमवधूतः ॥ ७४ ॥

पदच्छदः ।

विन्दति, विन्दन्ति, नहि, नहि, मन्त्रम्, छन्दः, लक्षणम्
नहि, नहि, तन्त्रम् । समरसमग्नः, भावितपूतः, प्रलापितम्,
एतत्, परम्, अवधूतः ॥

पदार्थः ।

समरस } = आत्मरसमें जो कि
मग्नः } मग्न है

भावितपूतः = चितसे शुद्ध है ऐसा
जो कि

अवधूतः = अवधूत है वह

मन्त्रम् = मन्त्रको

विन्दति = उभता है

विन्दति = उभता है

नहि नहि = नहीं उभता २

छन्दः = छन्द

लक्षणम् = रूप

तन्त्रम् = तंत्रको

नहि नहि = नहीं उभता २

एतत् = इस

परम् = परब्रह्मको ही

प्रलापितम् = कथन करताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जीवन्मुक्त जो कि अवधूत पदवीको प्राप्त होगयाहै सो उस पदवीको प्राप्त होकर किसी मंत्रविशेषको नहीं प्राप्त होताहै और न किसी छन्दरूपी तन्त्रकोही उभता है किन्तु वह परब्रह्मकोही उभता है अर्थात् अपने आत्मासे मन्त्रको ब्रह्म वह नहीं जानता है किन्तु अपने आत्माकाही चिन्तन करता है कैसा वह अवधूत है ? अन्तःकरणसे पवित्र है, और एकरस आत्मानन्दमेंही मग्न है ॥ ७४ ॥

सर्वशून्यमशून्यं च सत्यासत्यं न विद्यते ।

स्वभावभावतः प्रोक्तं शास्त्रसंवित्तिपूर्वकम् ॥ ७५ ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म-

संविद्युपदेशो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वशून्यम्, अशून्यम्, च, सत्यासत्यम्, न, विद्यते ।
स्वभावभावतः, प्रोक्तम्, शास्त्रसंवित्तिपूर्वकम् ॥

पदार्थः ।

सर्वशून्यम् = तत्पूर्ण जगत् शून्यरूप है	स्वभाव- } = स्वभावसेही
च = और	भावतः } भावरूप
अशून्यम् = आप शून्यसे रहित है	प्रोक्तम् = कहा है
सत्यास- } = सत्य और	शास्त्रसंवित्तिः } = शास्त्रके ज्ञानपूर्वक
त्यम् } असत्य भी	पूर्वकम् = } कहा है
न विद्यते = तिसमें विद्यमान नहीं है	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—उस आत्मा ब्रह्ममें सम्पूर्ण जगत् शून्यकी तरह है और आप वह शून्यसे रहित है किन्तु शून्यका भी साक्षी है । उस चेतन आत्मान सत्य असत्य ये दोनोंभी विद्यमान नहीं हैं । और शास्त्रिय ज्ञानपूर्वक स्वभावसे ही तिसको विद्वानोंने भावरूप करके कथन किया है ॥ ७९ ॥

इति श्रीमदब्रह्मगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिभरमानन्दविरचित-
परमानन्दीभाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः २.

अबधूत उवाच ।

बालस्य वा विषयभोगरतस्य वापि
सूर्क्स्य सेवकजनस्य गृहस्थितस्य ॥
एतद्गुरोः किमपि नैव न चिन्तनीयं
स्तनं कथं त्यजति कोऽप्यशुचौ प्रविष्टम् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

वालस्य, वा, विषयभोगरतस्य, वा, अपि, मूर्खस्य, सेव-
कजनस्य, गृहस्थितस्य । एतत्, गुरोः, किम्, अपि, नैव,
न, चिन्तनीयम्, रत्नम्, कथम्, त्यजति, कः, अपि,
अशुचौ, प्रविष्टम् ॥

पदार्थः ।

वालस्य = ब्राह्मणको

वा = अथवा

विषयभोग- } = विषयभोगमें प्रीति-
रतस्य } वात्सेको

अपि = निश्चयकरके

मूर्खस्य = मूर्खको

सेवकजनस्य = सेवकजनको

गृहस्थितस्य = गृहमें निश्चयको

एतत् = इन

गुरोः = गुरुओंके

किम् = कुछ भी

अपि = निश्चयकरके

नैव लभ्यते = लाभ नहीं होता है

न चिन्तनीयं = ऐसा चिन्तन नहीं करना

अशुचौ = अपवित्र कीच आदिमें

प्रविष्टम् = गिरकर

रत्नम् = रत्नको

कथम् = कैसे

कोऽपि = कोई भी

त्यजति = त्याग कर देता है ?

भावार्थः ।

श्रीत्वानी दत्ताश्रेयजी कहतेहैं—ब्राह्मणगुरुके, विषयीगुरुके, मूर्खगुरुके, सेवक-
गुरुके, गृहस्थीगुरुके अर्थात् इस तरहके जो गुरु हैं उनसे कुछ भी लाभ नहीं
होताहै ऐसा चिन्तन मत करो किन्तु उनमें भी कोई न कोई गुण अवश्य
होवेगा उसी गुणका ग्रहण करके उनका त्याग करदेओ क्योंकि अपवित्र कीच
आदिमें जो हीरा पत्ता होतहै उस हीरेका कौन पुरख त्याग करदेताहै अर्थात्
हीरेका ग्रहण करके जैसे कौनका सत्र कोई त्याग करदेताहै तैसेही जिस कि-
सीसे भी गुण मिलजाये उसीसे गुणको ग्रहण करलेओ ॥ १ ॥

नैवान्न काव्यगुण एव तु चिन्तनीयो

श्राह्यः परं गुणवता खलु सार एव ।

सिन्दूरचित्ररहिता भुवि रूपशून्या

पारं न किं नयति नौरिह गन्तुकामान् ॥२॥

पदच्छेदः ।

न, एव, अत्र, काव्यगुणः, एव, तु, चिन्तनीयः, ग्राह्यः, परम्, गुणवता, खलु, सारः, एव । सिन्दूरचित्ररहिता, भुवि, रूपशून्या, पारम्, न, किम्, नयति, नौः, इह, गन्तुकामान् ॥

पदार्थः ।

अत्र=गुरुमें

काव्यगुणः=काव्यके गुण

एव तु=निश्चयकरके

नैव=नहीं

चिन्तनीयः=चिन्तन करने चाहिये

खलु=निश्चयकरके

गुणवता=गुणवान्से

परम्=परम

सारः=सारवस्तुका

एव=ही

ग्राह्यः=ग्रहण करना योग्य है

भुवि=पृथिवीतलमें

सिन्दूरचित्र- } =सिन्दूरकी चित्रका-
रहिता } रीसे रहित और

रूपशून्या=रूपसे शून्य

नौः=नौका

पारम्=पारको

गन्तुका- } जानेकी कामनावालोंकी
मान् }

इह=इस संसारमें

किम्=क्या

न नयति=पारको नहीं प्राप्त करती है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, किसी भी गुरुमें काव्यादिक गुणोंका चिन्तन नहीं करना कि, गुरुमें काव्य, कोशादिकोंको पढा है. वा नहीं पढा है, किन्तु गुणोंवाले गुरुमें जो सारवस्तु हो उसीका ग्रहण करलेना और सब असार वस्तुका त्याग कर देना उचित है. इसीमें एक दृष्टान्त कहते हैं—इसलोकमें जैसे सिन्दूरके-चित्रों वाली नौका नदीसे पार करदेती है तैसे ही सिन्दूरके चित्रोंसे रहित भी नौका नदीसे पार करदेती है । इसी प्रकार सारभूत गुणकी आकांक्षा करे आहो उत्तम

जातिवालेसे मिले चाहो कनिष्ठ जातिवालेसे मिले वह गुण ही संसारसे पार करदेताहै दत्तात्रेयजीका यह तात्पर्य है कि, लकीरके फकीर मत बनो । कानमें फूँक लगवाकर किसीकेभी पशु मत बनो, किन्तु गुणग्राही बनो और उत्तम गुणोंको धारण करो, क्योंकि विना ज्ञान वैराग्यादि गुणोंके धारण करनेसे पुरुष बंधनसे नहीं छूटताहै ॥ २ ॥

प्रयत्नेन विना येन निश्चलेन चलाचलम् ॥

ग्रस्तं स्वभावतः शान्तं चैतन्यं गगनोपमम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

प्रयत्नेन, विना, येन, निश्चलेन, चलाचलम् । ग्रस्तम्
स्वभावतः, शान्तम्, चैतन्यम्, गगनोपमम् ॥

पदार्थः ।

येन=जिस

निश्चलेन=निश्चलकरके

प्रयत्नेन=प्रयत्नसे

विना=विनाही

चलाचलम्=चल अचल सत्र वह
चेतन

ग्रस्तम्=ग्रसा है

स्वभावतः=स्वभावसे ही

शान्तम्=शान्तरूप है

चैतन्यम्=चैतन्यस्वरूप है

गगनोपमम्=आकाशकी उपमावाला
है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जिस निश्चल आत्मा चेतनकरके विना प्रयत्नही संपूर्ण चल और अचटरूप जगत् प्रसा है, वह स्वभावसे ही शान्त है. आकाशकी तरह स्थिर और व्यापक है सो चेतन मैं ही हूँ ॥ ३ ॥

अयत्नाच्चालयद्यस्तु एकमेव चराचरम् ।

सर्वगं तत्कथं भिन्नमद्वैतं वर्तते मम ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

अयत्नात्, चालयत्, यः, तु, एकम्, एव, चराचरम् ।

सर्वगम्, तत्, कथम्, भिन्नम्, अद्वैतम्, वर्तते, मम ॥

पदार्थः ।

तु=पुनः फिर

यः=जो

एकम्=एकही

एव=निश्चय करके

अयत्नात्=बिनाही यत्नसे

चराचरम्=चर अचरको

चालयत्=चलायमान धरता है

सर्वगम्=वह सर्वगत है

अद्वैतम्=अद्वैत है

मम=मुझसे

भिन्नम्=भिन्न

तत्=सो

कथम्=कैसे

वर्तते=वर्तताहै

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—कि जो एक ही व्यापक चेतन बिना प्रयत्नके ही संपूर्ण चर अचर जगत्को चलायमान करता है वह सर्वगत भी है, सो मेरेसे भिन्न अद्वैतरूप हो करके कैसे वर्तता है? अर्थात् नहीं वर्तता है । तात्पर्य यह है कि, यदि भिन्न होकर अद्वैतरूपसे वर्ते तब तो द्वैतकी प्राप्ति हो जावैगी । इसवास्ते वह भिन्न होकर अद्वैतरूपसे नहीं वर्तता है, किन्तु अभिन्न होकर ही वह अद्वैतरूपसे वर्तता है ॥ ४ ॥

अहमेव परं यस्मात्सारासारतरं शिवम् ।

गमागमविनिर्मुक्तं निर्विकल्पं निराकुलम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

अहम्, एव, परम्, यस्मात्, सारासारतरम्, शिवम् ।

गमागमविनिर्मुक्तम्, निर्विकल्पम् निराकुलम् ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैंही

एव=निश्चयकरके

यस्मात्=जिस प्रकृतिसे

परम्=सूक्ष्म हूँ और

सारासार- } =सार असारसे भी
तरम् } रहित हूँ

शिवम्=कल्याणस्वरूप हूँ

गमागमवि- } =और गमनागमनसे
निर्मुक्तम् } भी रहित हूँ और

निर्विकल्पम्=निर्विकल्प हूँ

निराकुलम्=कुलसे रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं ही प्रकृतिसे सूक्ष्म हूँ, सार असारसे रहित हूँ, कस्या
णरूप हूँ, गमनागमनसे रहित हूँ, और विकल्पसे भी रहित हूँ, अर्थात् मेरेमें
द्वैत, अद्वैतका विकल्प भी नहीं बनता है, और कुछसे भी रहित हूँ ॥ ५ ॥

सर्वावयवनिर्मुक्तं तदहं त्रिदशार्चितम् ।

संपूर्णत्वान्न गृह्णामि विभागं त्रिदशादिकम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वावयवनिर्मुक्तम्, तत्, अहम्, त्रिदशार्चितम् ।

संपूर्णत्वात्, न, गृह्णामि, विभागम्, त्रिदशादिकम् ॥

पदार्थः ।

तत् अहम्=सो मैं	सम्पूर्णत्वात्=सम्यक् पूर्ण होनेसे त्रिदशादिकम्=देवतादिकोंके विभागम्=विभागको न गृह्णामि=मैं ग्रहण नहीं करता हूँ
सर्वावयव- } =संपूर्ण अवयवोंसे रहित	
निर्मुक्तम् } हूँ और	
त्रिदशार्चितम्=देवताओंसे भी पूजित हूँ	

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, सो साविदानन्दरूप मैं निरवयव हूँ, अर्थात्
अवयवरहित हूँ और सब देवतामी मेरा पूजन करते हैं । सबमें पूर्ण होनेसे
देवता आदिकोंमें भी मैं ही हूँ । हमों वास्ते देवताओंके साथ भी मेरा विभाग
अर्थात् भेद नहीं है किन्तु अभेद ही है ॥ ६ ॥

प्रमादेन न सन्देहः किं करिष्यामि वृत्तिमान् ।

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्बुदाश्च यथा जले ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

प्रमादेन, न, सन्देहः, किम्, करिष्यामि, वृत्तिमान् ।

उत्पद्यन्ते, विलीयन्ते, बुद्बुदाः, च, यथा, जले ॥

पदार्थः ।

प्रमादेन=प्रमादकरके

वृत्तिमान्=अन्तःकरणकी वृत्तियोंवाला

किम् = क्या

कीरण्यामि=मैं करता हूँ ? किन्तु
नहीं

यथा=जिस प्रकार

जले = जलमें

बुद्बुदाः = बुलबुले

उत्पद्यन्ते=उत्पन्न होतेहैं

च=और

विलीयन्ते=लय होजाते हैं इसी प्रकार

अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भी उत्पन्न

होती हैं । लय होती हैं

न सन्देहः=इसमें संदेह नहीं है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—अन्तःकरणकी वृत्तियोंको मैं प्रमादकरके उत्पन्न नहीं करता हूँ, किन्तु जैसे जलमें बुलबुले आपसे आप उत्पन्न होते हैं, और फिर उसीमें लय होजाते हैं, इसी प्रकार अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भी आपसे आप उत्पन्न होती हैं, और फिर उन्हींमें लय भी होजाती हैं, इसमें किसी तरहका सन्देह नहीं है मैं तो इनका साक्षी हूँ ॥ ७ ॥

महदादीनि भूतानि समाप्यैवं सदैव हि ।

मृदुद्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुडेषु कटुकेषु च ॥ ८ ॥

कटुत्वं चैव शैत्यत्वं मृदुत्वं च यथा जले ।

प्रकृतिः पुरुषस्तद्वदभिन्नं प्रतिभाति मे ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

महदादीनि, भूतानि, समाप्य, एवम्, सदा, एव, हि ।

मृदुद्रव्येषु, तीक्ष्णेषु, गुडेषु, कटुकेषु, च ॥ कटुत्वम्,

च, एव, शैत्यत्वम्, मृदुत्वम्, च, यथा, जले । प्रकृतिः,

पुरुषः, तद्वत्, अभिन्नम्, प्रतिभाति, मे ॥

पदार्थः ।

महदादीनि=महतत्त्व आदि
 भूतानि=भूतोंको
 सदैव=सबकाल
 हि=निश्चयकरके
 एवम्=इसप्रकार
 समाप्य=समाप्त करै
 मृदुद्रव्येषु=मृदुद्रव्योंमें
 च=और
 तीक्ष्णेषु=तीक्ष्ण द्रव्योंमें
 गुडेषु=गुडमें
 कटुकेषु = कटुद्रव्योंमें
 कटुत्वम्=कटुरस
 चैव=और निश्चयकरके

शीत्यत्वम् = शीतता
 च = और
 मृदुत्वम्=कोमलता
 यथा=जिस प्रकार
 जले=जलमें भिन्न प्रतीत होते हैं
 तद्वत्=तैसे ही
 प्रकृतिः = प्रकृति और
 पुरुषः = पुरुष
 मे = मुझको
 अभिन्नम् = अभेदही
 प्रतिभाति=मान होताहै

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जैसे मृदु अर्थात् कोमल द्रव्योंमें कोमलता उनसे भिन्न करके मान नहीं होती है, और मिश्रा आदिक्रं:तीक्ष्णद्रव्योंमें तीक्ष्णता, और मधुर गुडादिक द्रव्योंमें माधुर्यता, और नमिादिक कटुद्रव्योंमें कटुता, उनसे भिन्न करके मान नहीं होती है इसी प्रकार जैसे जलमें शीतता और कोमलता जलसे भिन्न करके प्रतीत नहीं होती है, अर्थात् अपने २ द्रव्यके गुण अपने २ द्रव्यमें ही लीन हो जाते हैं, इसी प्रकार महतत्त्वसे आदि लेकर स्थूलभूतोंपर्यन्त इनको भी अपने कारणोंमें लय करके बाकी जो संपूर्ण तत्त्वोंका कारणीभूत प्रकृति है, उसका भी पुरुषके साथ हमको भेद किसी प्रकारसे भी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रकृतिको चेतनकी शक्ति माना है, शक्तिका शक्तिवालेसे भेद किसी प्रकारसे भी नहीं होसकताहै । जैसे अग्निकी शक्ति अग्निसं भिन्न होकर प्रतीत नहीं होतीहै किन्तु कार्यद्वारा अनुमान की जाती है । इसी प्रकार चेतनकी शक्तिभी चेतनसे भिन्न नहीं मान होती है, किन्तु चेतनसे तिसका भेद नहीं है अर्थात् चेतनरूपही है ॥ ८-९ ॥

सर्वाख्यारहितं यद्गतसूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं परम् ।

मनोबुद्धीन्द्रियातीतिमकलङ्कं जगत्पतिम् ॥ १० ॥

ईदृशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं भवेत् ।

त्वमेव हि कथं तत्र कथं तत्र चराचरम् ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वाख्यारहितम्, यद्वत्, सूक्ष्मात्, सूक्ष्मतरम्, परम् ।

मनोबुद्धीन्द्रियातीतम्, अकलङ्कम्, जगत्पतिम् ॥

ईदृशम्, सहजम्, यत्र, अहम्, तत्र, कथम्, भवेत् ।

त्वम्, एव, हि, कथम्, तत्र, कथम्, तत्र, चराचरम् ॥

पदार्थः ।

यद्वत्=जिसवास्ते

सर्वाख्या- } आत्मा संपूर्ण संज्ञासे
रहितम् } रहित है इसीवास्ते

सूक्ष्मात्=सूक्ष्मसेभी

सूक्ष्मतरम्=अतिसूक्ष्म है

परम्=उत्कृष्ट है

मनोबुद्धी- } मन बुद्धि और इन्द्रि-
न्द्रियातीतम् } योंका अविषय हैं फिर

अकलंकम्=कलंकसे रहित है

जगत्पतिम्=जगत्का पति है

ईदृशम्=इस प्रकारके गुण

सहजम्=स्वभावसे

यत्र=जिसमें विद्यमान है

तत्र=तिसमें

अहम्=मैं

कथम्=किस प्रकार

भवेत्=रहना बनता है और

कथम्=कैसे बनता है और

त्वम् एव हि=तू निश्चयकरके

कथम्=कैसे बनता है और

तत्र=तिसमें फिर

चराचरम्=चर अचर

कथम्=कैसे बनता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—वह ब्रह्मचेतन जिसवास्ते संपूर्ण नामादिक संज्ञासे रहित है, इसीवास्ते वह सबसे सूक्ष्म जो कि प्रकृति है, उससे भी अतिसूक्ष्म और श्रेष्ठ है, और मन बुद्धि तथा इन्द्रियोंका भी वह विषय नहीं है फिर वह कलंकसे अर्थात् उपाधिसे भी रहित है, संपूर्ण जगत्का स्वामी है । इसप्रकारका जिसका स्वभावसे ही स्वरूप है तिस चेतन आत्मामें “अहम्” में और “त्वम्” तू यह कथन किस प्रकारसे बनता है ? अर्थात् अहम्, त्वम्, आदि

भेदोंका कथन तिसमें नहीं बनता है । और यह चराचररूप जगत् भी तिसमें कैसे बनता है किन्तु किसीप्रकारसे भी नहीं बनता है ॥ १० ॥ ११ ॥

गगनोपमं तु यत्प्रोक्तं तदेव गगनोपमम् ।

चैतन्यं दोषहीनं च सर्वज्ञं पूर्णमेव च ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

गगनोपमम्, तु, यत्, प्रोक्तम्, तत्, एव, गगनोपमम् ।

चैतन्यम्, दोषहीनम्, च, सर्वज्ञम्, पूर्णम्, एव, च ॥

पदार्थः ।

तु यत् = पुनः जो कि

गगनोपमम् = आकाशकी उपमावाला

प्रोक्तम् = कथन किया है

तत् एव = सोई निश्चयकरके

गगनोपमम् = गगनकी उपमावाला है

चैतन्यम् = वह चेतन है

दोषहीनम् = दोषोंसे हीन है

च = और

सर्वज्ञम् = सर्वज्ञ भी है

च एव = और निश्चय करके

पूर्णम् = पूर्ण भी है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो कि गगनकी उपमावाला कहा है वही गगनकी उपमावाला है, उससे भिन्न दूसरा गगन कोई भी गगनकी उपमावाला नहीं है, सो चेतनसे भिन्न दूसरा चेतन भी चेतनकी उपमावाला नहीं है । सो चेतन है, दोषसे रहित है, वही सर्वज्ञ और पूर्णभी है ॥ १२ ॥

पृथिव्यां चरितं नैव सारुतेन च वाहितम् ।

वारिणा पिहितं नैव तेजोमध्ये व्यवस्थितम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

पृथिव्याम्, चरितम्, न, एव, सारुतेन, च, वाहितम् ॥

वारिणा, पिहितम्, नैव, तेजोमध्ये, व्यवस्थितम् ॥

पदार्थः ।

पृथिव्याम्=पृथिवीमें वह चेतन
चरितम्=गमन
एव=निश्चयकरके
न=नहीं करताहै
मारुतेन=मान्त जो है सो
वाहितम्=वाहन तिसको
न च=नहीं करता है

वारिणा=जलकरके
पिहितम्=आच्छादित वह
नैव=नहीं है और
तेजोमध्ये=तेजके मध्यमें
व्यवस्थित- } =स्थितभी है, और तेज
तम् } तिसको जल भी नहीं
सकताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—वह चेतन आत्मा पृथिवीमें चलता नहीं वायु उसको ले नहीं जासकता, न पानी ही उसको ढँक सकता है । वह तेजके वलियों स्थित रहता है ॥ १३ ॥

आकाशं तेन संव्याप्तं न तद्व्याप्तं च केनचित् ॥

स बाह्याभ्यन्तरं तिष्ठत्यवच्छिन्नं निरन्तरम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

आकाशम्, तेन, संव्याप्तम्, न, तत्, व्याप्तम्, च, केन-
चित् । स बाह्याभ्यन्तरम्, तिष्ठति, अवच्छिन्नम्, निरन्तरम् ॥

पदार्थः ।

तेन=तिस चेतनकरके
आकाशम्=आकाश
संव्याप्तम्=सम्यक् व्याप्त है
च तत्=और सो चेतन
केनचित्=किसीकरके भी
न व्याप्तम्=नहीं व्याप्त है

सः=सो व्यापक चेतन
अवच्छिन्नम्=व्यवधानसे रहित
निरन्तरम्=एकरस
बाह्याभ्य- } =सबको बाहर और
न्तरम् } भीतर
तिष्ठति=स्थित है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—उस चेतनसे आकाश अच्छे प्रकारसे व्याप्त है और वह किसीसे व्याप्त नहीं है । वह सर्वव्यापक बाहर भीतर सर्वत्र व्यवधानसे रहित सदा स्थित रहताहै, आकाशका कोई अन्त नहीं पासकता यह इतना

मालूम पड़ता है कि, इसकी कोई सीमा नहीं है, कि, कहाँ तक यह है । इसका अनुमान भी नहीं होसकता ऐसा आकाश भी उस परमात्मासे व्याप्त है अर्थात् सर्वत्र आत्मा ही है ॥ १४ ॥

सूक्ष्मत्वात्तददृश्यत्वान्निर्गुणत्वाच्च योगिभिः ॥

आलम्बनादि यत्प्रोक्तं क्रमादालम्बनं भवेत् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

सूक्ष्मत्वात्, तत्, अदृश्यत्वात्, निर्गुणत्वात्, च, योगिभिः ।
आलम्बनादि, यत्, प्रोक्तम्, क्रमात्, आलम्बनम्, भवेत् ॥

पदार्थः ।

योगिभिः=योगियोंने

यत्=जो चेतनका

आलम्बनादि=आलम्बनादि

प्रोक्तम्=कहा है सो

आलम्बनम्=आलम्बन

क्रमात्=क्रमसे

भवेत्=है तहै

तत् सूक्ष्मत्वात्=तिस सूक्ष्म होनेसे

अदृश्यत्वात्=अदृश्य होनेसे

निर्गुणत्वात्=निर्गुण होनेसे

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं--योगियोंने अर्थात् जीवन्मुक्त ज्ञानवानोंने जिस चेतन-ब्रह्मका आश्रयण करना कहा है सो एकवारगी नहीं होता है किन्तु क्रमसेही होता है । प्रथम स्थूलपदार्थमें मनका निरोध किया जाता है फिर धीरे २ उससे सूक्ष्ममें फिर उससे सूक्ष्ममें इस रीतिसे धीरे २ तिसका साक्षात्कार होकर ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति भी होजाती है क्योंकि वह चेतन अतिसूक्ष्म है अदृश्य है निर्गुण है इसवास्ते इसका आलम्बन एकवारगी नहीं होता है, किन्तु क्रमसे और युक्तिसे होता है ॥ १५ ॥

योगियोंने जो आलम्बनका क्रम कहा है सो क्रम अब इस श्लोकमें दिखाते हैं--

सतताऽभ्यासयुक्तस्तु निरालम्बो यदा भवेत् ।

तल्लयालीयते नान्तर्गुणदोषविवर्जितः ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

सतताऽभ्यासयुक्तः, तु, निरालम्बः, यदा, भवेत् ।

तल्लयात्, लीयते, न, अन्तः, गुणदोषविवर्जितः ॥

पदार्थः ।

यदा तु=जिसकालमें पुनः
सतताभ्या- } =निरन्तर अभ्यास
सयुक्तः } करके युक्त हुआ २
निरालम्बः=निरालम्ब
भवेत्=होताहै और
अन्तः=भीतरसे

गुणदोष- } =गुण और दोषोंसे
विवर्जितः } रहित होताहै तिसी
कालमें
तल्लयात्=चित्तके लय करनेसे
लीयते=लय होजाताहै
न=बिना इसके नहीं होता

भावार्थः ।

दत्तत्रियजी कहतेहैं--जो पुरुष प्रथम निरालम्ब होकर अर्थात् किसी भी देवता आदिकको आश्रयण न करके केवल चेतनको आश्रयण करके निरन्तर ही अभ्यास करके युक्त होताहै और अविद्याकृत गुणों और दोषोंसे रहित होजाता है तब इसका चित्त लय होजाता है चित्तके लय होजानेसे स्वयं भी ब्रह्ममें ही लीन होजाताहै ॥ १६ ॥

विषविश्वस्य रौद्रस्य मोहमूर्च्छाप्रदस्य च ।

एकमेव विनाशाय ह्यमोघं सहजामृतम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

विषविश्वस्य, रौद्रस्य, मोहमूर्च्छाप्रदस्य, च । एकम्,
एव, विनाशाय, हि, अमोघम्, सहजामृतम् ॥

पदार्थः ।

विषविश्वस्य=विषरूपी विषयके
विनाशाय=नाशके लिये
एव हि=निश्चयकरके
एकम्=एक
अमोघम्=अमोघ और

सहजा- } =सहज ही अमृत है फिर
मृतम् } कैसा वह विषय है
रौद्रस्य=बड़ा भयानक
च=और
मोहमूर्च्छा- } =मोह तथा मूर्च्छाको
प्रदस्य- } देनेवाला है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जगत्स्वरूपी एक बड़ा भारी विष है, यह विष मयानक और मोहमूर्च्छाके देनेवाला भी है । इसके नाशके लिये एक ही अमोघ अर्थात् यथार्थ और सहज ही अमृत है, सो आत्मज्ञानरूपी एक अमृत है क्योंकि विना आत्मज्ञानके यह विष दूर नहीं होता है ॥ १७ ॥

अब उसी अमृतको दिखाते हैं—

भावगम्यं निराकारं साकारं दृष्टिगोचरम् ।

भावाभावविनिर्मुक्तमन्तरालं तदुच्यते ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

भावगम्यम्, निराकारम्, साकारम्, दृष्टिगोचरम् ।

भावाभावविनिर्मुक्तम्, अन्तरालम्, तत्, उच्यते ॥

पदार्थः ।

निराकारम्—निराकार जो चेतन है सो	भावाभाव- } = भाव अभावसे जो
भावगम्यम्—चित्तसे ही जाना जाता	
है और जो कि	तत्=सो
साकारम्—साकार है वह	अन्तरालम्—अन्तराल ही
दृष्टिगोचरम्—दृष्टिका विषय है	उच्यते—कहा जाता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो कि निराकार व्यापक चेतन है सो केवल चित्त-करके ही जाना जाता है क्योंकि वह इन्द्रियोंका विषय नहीं है, और जो कि साकार है वह दृष्टिका विषय है, इतना ही निराकार साकारका फरक है, फिर जो कि भाव पदार्थसे और अभावरूपसे भी रहित है सो अन्तराल ही कहा जाता है ॥ १८ ॥

बाह्यभावं भवोद्विश्वमन्तः प्रकृतिरुच्यते ।

अन्तरादन्तरं ज्ञेयं नारिकेलफलाम्बुवत् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

बाह्यभावम्, भवेत्, विश्वम्, अन्तः, प्रकृतिः, उच्यते ।

अन्तरात्, अन्तरम्, ज्ञेयम्, नारिकेलफलाम्बुवत् ॥

पदार्थः ।

बाह्यभावम्=बाहर जितना कि भाव	अन्तरात्=अन्तर प्रकृतिसे भी
पदार्थ है	अन्तरम्=भीतर
विश्वम्=सो जगत्	ज्ञेयम्=वह ब्रह्म जाननेके योग्य ह
भवेत्=होताहै और	नारिकेल- } =जैसे नारिकेल फलेके
अन्तः=बाह्यभावके भीतर	फलाम्बुवत् } अन्दर जल होता
प्रकृतिः=प्रकृति	है
उच्यते=कही जाती है	

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—बाहर जो कुछ दिखाताहै यह सब स्थूलभाव पदार्थ विश्व कहाजाता है और इसके भीतर इसका कारण जो है उसका नाम प्रकृति है उस सूक्ष्मप्रकृतिके भीतर और प्रकृतिसे भी सूक्ष्म वह चेतन ब्रह्म व्यापक जाननेके योग्य है इसीमें दृष्टान्तको कहतेहैं । जैसे नारियलके फलका ऊपरका बकला बड़ा कड़ा होता है और तिसके भीतरकी गिरी बकलेसे सूक्ष्म होती है उस गिरीसे भीतर सूक्ष्म उसके भीतर जल रहता है । इसी प्रकार दार्शनिकोंमें भी घटालेना ॥ १९ ॥

भ्रान्तिज्ञानं स्थितं बाह्ये सम्यग्ज्ञानं च मध्यगम् ॥

मध्यात्, मध्यतरम्, ज्ञेयम्, नारिकेलफलाम्बुवत् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

भ्रान्तिज्ञानम्, स्थितम्, बाह्ये, सम्यग्ज्ञानम्, च, मध्यगम् ।
मध्यात्, मध्यतरम्, ज्ञेयम्, नारिकेलफलाम्बुवत् ॥

पदार्थः ।

भ्रान्तिज्ञानम्=भ्रान्तिज्ञान	मध्यात्=मध्यसे भी
बाह्ये=बाहरके पदार्थोंमें	मध्यतरम्= अतिमध्य
स्थितम्=स्थित है	ज्ञेयम्=जाननेके योग्य है
च=और	नारिकेलफ- } =नारियलके फलके
सम्यग्ज्ञानम्=यथार्थ ज्ञान	लाम्बुवत् } जलकी तरह
मध्यगम्=अन्तर है	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—बाहरके प्रपंचमें तो आन्तिज्ञान होता है और उसके अन्तर अर्थात् मध्यमें स्थितका जो ज्ञान है सो समीचीन ज्ञान है जैसे नारियलके फलके भीतर जल रहता है इसी प्रकार उसके भीतर सूक्ष्म आत्मा जाननेके योग्य है उसीके ज्ञानसे जीवन्मुक्त होता है ॥ २० ॥

पौर्णमास्यां यथा चन्द्र एक एवातिनिर्मलः ॥

तेन तत्सदृशं पश्येद्विधा दृष्टिविपर्ययः ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

पौर्णमास्याम्, यथा, चन्द्रः, एकः, एव, अतिनिर्मलः ।

तेन, तत्सदृशं, पश्येत्, द्विधा, दृष्टिविपर्ययः ॥

पदार्थः ।

पौर्णमास्याम् = पौर्णमासीमें

यथा = जिस प्रकार

एकः = एकही

चन्द्रः = चन्द्रमा

एव = निश्चयकारके

अतिनिर्मलः = अतिनिर्मल होता है

तेन = तिसी कारणसे

तत्सदृशम् = तिस चन्द्रमाके तुल्य ही

पश्येत् = आत्माको भी निर्मल देखे

द्विधा = दो प्रकारका

दृष्टिविपर्ययः = दृष्टिविपर्यय ज्ञान है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जैसे पूर्णमासीका जो चन्द्रमा है सो एक ही अति निर्मल दिखाई पड़ता है इसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल आर एक है चन्द्रमाकी तरह एक ही आत्माको शुद्ध देखे । जैसे नेत्रमें रोग होनेसे दो चन्द्रमा देख पड़ते हैं सो विपर्यय ज्ञान है अर्थात् अनजान है क्योंकि वास्तवसे चन्द्रमा दो नहीं है किन्तु एक ही है इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्माण्डभरमें आत्मा भी एक ही है आत्मामें जो द्वैतकी कल्पना है, सो भ्रमज्ञान है ॥ २१ ॥

अनेनैव प्रकारेण बुद्धिभेदे न सर्वगः ॥

दाता च धीरतामेति गीयते नामकोटिभिः ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

अनेन, एव, प्रकारेण, बुद्धिभेदः, न, सर्वगः ।

दाता, च, धीरताम्, एति, गीयते, नामकोटिभिः ॥

पदार्थः ।

अनेन=इसी पूर्वोक्त

प्रकारेण = प्रकारसे

एव = विश्वयकारके

बुद्धिभेदः = ज्ञानका भेद

सर्वगः = सर्वगतमें

न = नहीं होताहै

च = और

दाता = देनेवाला

धीरताम् = धीरताको

एति = प्राप्त होता है

नामकोटिभिः = कोटि नामों करके

गीयते = गाया जाताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—इसी पूर्वोक्त प्रकार करके सर्वगत चेतनमें किसी-प्रकारसे भी भेदकी कल्पना नहीं बन सकती है जो विद्वान् जिज्ञासुओंके प्रति उस ब्रह्मचतनके अभेद ज्ञानका ज्ञान करताहै वह धैर्यताको प्राप्त होताहै और करोड़ों नामों करके गायन किया जाताहै अर्थात् जिज्ञासुजन तिसकी करोड़ों नामों करके स्तुति करतेहैं ॥ २२ ॥

गुरुप्रज्ञाप्रसादेन मूर्खो वा यदि पण्डितः ।

यस्तु सम्बुध्यते तत्त्वं विरक्तो भवसागरात् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः

गुरुप्रज्ञाप्रसादेन, मूर्खः, वा, यदि, पण्डितः ।

यः, तु, सम्बुध्यते, तत्त्वं, विरक्तः, भवसागरात् ॥

पदार्थः ।

गुरुप्रज्ञा- { = गुरुकी बुद्धिकी प्रसन्न-
प्रसादेन } ताकरके

मूर्खः = मूर्ख हो

वा = अथवा

यदि = यदि

पण्डितः = पण्डित हो

तु यः = पुनः जो

तत्त्वं = आत्मतत्त्वको

सम्बुध्यते = जान लेता है वह पुरुष

भवसागरात् = संसाररूपी समुद्रसे

विरक्तः = विरक्त

(भवति) = विरक्त होजाता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मूर्ख हो अथवा पण्डित हो, गुरुकी कृपासे जो आत्मतत्त्वको यथार्थ रूपसे जानलेता है वह शीघ्र ही संसाररूपी समुद्रसे विरक्त अर्थात् उपराम युक्त होकर जन्म मरणसे छूटजाता है, फिर संसार-चक्रमें नहीं आता है ॥ २३ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते रतः ।

दृढबोधश्च धीरश्च स गच्छेत्परमं पदम् ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ।

रागद्वेषविनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते, रतः । दृढबोधः, च,
धीरः, च, सः, गच्छेत्, परमम्, पदम् ॥

पदार्थः ।

रागद्वेषवि- } = जो रागद्वेषसे रहित
निर्मुक्तः } है

च = और

सर्वभूत- } = संपूर्ण भूतोंके हितमें
हिते रतः } प्रीतिवाला है

च = और

दृढबोधः = जिसको दृढ बोध है

धीरः = धीर है

सः = विद्वान्

परमम् = परम

पदम् = पदकी

गच्छेत् = गमन करताहै ।

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं—सोई विद्वान् अर्थात् ज्ञानवान् परमपदको प्राप्त होता है जो कि रागद्वेषादिकोंसे रहित है और संपूर्ण भूतोंके हितकी ही इच्छा करताहै किसीके भी अहितकी जो इच्छा नहीं करताहै फिर जिसको आत्माका भी दृढ बोध है अर्थात् यथार्थ ज्ञान है और धैर्यतावाला भी है वही परमपदको प्राप्त होता है दूसरा नहीं ॥ २४ ॥

घटे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा ।

देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मानि ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ।

घटे, भिन्ने, घटाकाशः आकाशे, लीयते, यथा ।
देहाभावे, तथा, योगी, स्वरूपे, परमात्मनि ॥

पदार्थः ।

घटे भिन्ने = घटके नाश होनेपर
यथा = जैसे
घटाकाशः = घटाकाश
आकाशे = महाकाशमें
लीयते = लय होजाताहै

तथा = तैसे ही
देहाभावे = देहके नाश होनेपर
योगी = जाद्विन्मुक्त
परमात्मनि = परमात्माके
स्वरूपे = स्वरूपमें लीन होजाताहै

भावार्थः ।

दक्षत्रियजी कहते हैं--जबतक घटरूपी उपाधि बनी है तबतक घटाका-
शका भी महाकाशके साथ भेद प्रतीत होताहै ! उपाधिके नाश होजानेपर
जैसे घटाकाशका महाकाशके साथ अभेद होजाता है तैसेही छिगशरिररूपी
उपाधिके नाश होजानेपर ज्ञानवान्का आत्मा भी परमात्मामें ही लीन होजा-
ताहै अर्थात् दोनोंका अभेद होजाताहै ॥ २५ ॥

उक्तेयं कर्मयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गतिः ।

न चोक्ता योगयुक्तानां मतिर्यान्तेऽपि सा गतिः ॥ २६

पदच्छेदः ।

उक्ता, इयम्, कर्मयुक्तानाम्, मतिः, या, अन्ते, अपि,
सा, गतिः । न, च, उक्ता, योगयुक्तानाम्, मतिः, या,
अन्ते, अपि, सा, गतिः ॥

पदार्थः ।

कर्मयुक्तानाम्=कर्मियोंके लिये

इयम्=यह

उक्ता=कहा है कि,

या=जैसी

अन्ते=अन्तमें

मतिः=बुद्धि होती है

अपि=निश्चयकरके

सा गतिः=वैसी गति होती है

योगयु- } =जीवन्मुक्त ज्ञानियोंके

क्तानाम् } लिये

न च उक्ता=नहीं कहा है

या =जैसी

अन्ते = अन्तमें

अपि = निश्चय करके

मतिः = मति होती है

सा गतिः = सोई गति होती है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहै—जिस वार्तामें जिसका रात्रिदिन अधिक अम्यास होता है उसीके दृढ संस्कार तिसके भीतर होतेहैं और अन्तसमयमें अर्थात् मरणकालमें भी वही संस्कार उद्भूत होकर उसको उसी गतिको प्राप्त कर देतेहैं तात्पर्य यह है कि, जिसका कि जिस वस्तुमें अति प्रेम होताहै, छीमें या पुत्रमें यावनमें या पशुपक्षी आदिकोंमें अन्तसमयमें भी उसका मन उसी तरफ चला जाताहै और वह मरकरके उसी योनिमें जन्मताहै सो यह अन्त वाली मतिकी गति कर्मियोंके लिये कहा है, जीवन्मुक्त ज्ञानियोंके लिये यह अन्तवाली मतिकी गति नहीं कहीहै क्योंकि योगी लोग तो सदैव ब्रह्मके ही चिन्तनमें रहते हैं इसीवास्ते अन्तसमयमें भी उनकी मति ब्रह्मचिन्तनको ही करती है और वह मरकरके ब्रह्ममें ही लीन भी होजातेहैं ॥ २६ ॥

या गतिः कर्मयुक्तानां सा च वाग्निद्रियाद्भवेत् ।

योगिनां या गतिः कापि ह्यकथ्या भवतार्जिता ॥२७

पदच्छेदः ।

या, गतिः, कर्मयुक्तानाम्, सा, च, वाग्निद्रियात्,
भवेत् । योगिनाम्, या, गतिः, कापि, हि, अकथ्या,
भवता, अर्जिता ॥

पदार्थः ।

कर्मयुक्तानाम् = कर्मयोगियोंकी	या गतिः = जो गति
या गतिः = जो गतिशास्त्रोंमें कहीहै	हि = निश्चयकरके
सा = सो गति	भवता = तुमने
वागिन्द्रियात् = वाणी इन्द्रिय करके	अर्जिता = संग्रह की है
वदेत् = कही जातीहै	क्वापि = कहीं भी वह
च = और	अकथ्या = कथन करनेके
योगिनाम् = योगियोंकी	योग्य नहीं है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—कर्मयोगियोंकी जो स्वर्ग और नरककी प्राप्तिरूपी गति है सो तो शास्त्रोंमें कथन की है और वागिन्द्रिय मां उसको कथन करसकती है और आत्मज्ञानियोंकी जो गति आपलोगोंने शास्त्रोंमें देखीहै वह मन वाणी करके भी कथन नहीं की जातीहै ॥ २७ ॥

एवं ज्ञात्वा त्वमुं मार्गं योगिनां नैव कल्पितम् ।
विकल्पवर्जनं तेषां स्वयं सिद्धिः प्रवर्तते ॥ २८ ॥

पदच्छेदः ।

एवम्, ज्ञात्वा, तु, असुम्, मार्गम्, योगिनाम्, न, एव,
कल्पितम् । विकल्पवर्जनम्, तेषाम्, स्वयम्, सिद्धिः, प्रवर्तते ॥
पदार्थः ।

एवं = इस प्रकारसे	सिद्धिः = सिद्धि
तेषाम् = उन पूर्वोक्त	प्रवर्तते = प्रवृत्त होती है
योगिनाम् = योगियोंके	तु = पुनः फिर वह
विकल्पवर्जनम् = विकल्पसे रहित	एव = निश्चयकरके
असुम् = इस पूर्वोक्त	न कल्पित- } = कर्मियोंके मार्गकी
मार्गम् = मार्गको	तम् } तरह कल्पित नहीं है
ज्ञात्वा = जानकरके	
स्वयम् = आपसे आप	

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—ज्ञानयोगियोंका जो मार्ग पूर्व कहा है सो कर्मियोंके मार्गकी तरह कष्टनासे रहित है अर्थात् जैसे कर्मियोंका मार्ग मिथ्या और पुनरावृत्तिवाला है तैसे नहीं है । जो विद्वान् इस प्रकार जानकरके ज्ञानयोगियोंके मार्गमें प्रवृत्त होता है उसमें आपसे आप सिद्धि प्रवृत्त होती है और वह फिर संसारबंधनसे मुक्त भी होजाता है ॥ २८ ॥

तीर्थे वांत्यजगेहे वा यत्र कुत्र मृतोऽपि वा ।

न योगी पश्यते गर्भं परे ब्रह्मणि लीयते ॥ २९ ॥

पदच्छेदः ।

तीर्थे, वा, अन्त्यजगेहे, वा, यत्र, कुत्र, मृतः, अपि,
वा । न, योगी, पश्यते, गर्भम्, परे, ब्रह्मणि, लीयते ॥

पदार्थः ।

योगी = आत्मज्ञानी

तीर्थे = तीर्थमें

वा = अथवा

अन्त्यजगेहे = बाण्डालके गृहमें

वा = अथवा

यत्र कुत्र = जहाँ कहीं

मृतः = मरनेपर

गर्भम् = गर्भको

न पश्यते = नहीं देखता है

अपि = निश्चयकरके

परे = दृष्ट

ब्रह्मणि = ब्रह्ममें ही

लीयते = तन्मय मानको प्राप्त होता है

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जीवन्मुक्त ज्ञानवान् चाहे किसी तीर्थपर शरीरका त्याग करदे अथवा बाण्डालके घरमें शरीरका त्याग करदे अथवा जहाँ कहीं अर्थात् जलमें, धूलमें, अन्तर्िक्षमें, रास्ता वगैरहमें शरीरका त्याग करदे तो भी वह फिर कभी मूर्खकी तरह माताके गर्भमें नहीं आता है, किन्तु ब्रह्ममें ही लीन होजाता है ॥ २९ ॥

सहजमजमचिन्त्यं यस्तु पश्येत्स्वरूपं
घटति यदि यथेष्टं लिप्यते नैव दोषैः ।
सकृदपि तदभावात्कर्म किञ्चित् कुर्या-
त्तदपि न च विबद्धः संयमी वा तपस्वी ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ।

सहजम्, अजम्, अचिन्त्यम्, यः, तु, पश्येत्, स्वरूपम्,
घटति, यदि, यथा, इष्टम्, लिप्यते, न, एव, दोषैः ।
सकृत्, अपि, तदभावात्, कर्म, किञ्चित्, न, कुर्यात्,
त्त, अपि, न, च, विबद्धः, संयमी, वा, तपस्वी ॥

पदार्थः ।

तु=तुलः फिर
यः=जो विद्वान्
सहजम्=स्वाभाविक
अजम् = जन्मसे रहित
अचिन्त्यम्=मन बाणीको अविषय
स्वरूपम्=स्वरूपको
सकृत्=एकवार भी
अपि = निश्चय करके
पश्येत्=देखे और
यदि=यदि वह
यथेष्टम् = यथेष्ट चेट.को
घटति = करताहै तो
दोषैः=दोषोंकरके

नैव = नहीं
लिप्यते=लिख होताहै
तदभावात् = दोषोंका अभाव होजा-
नेसे
किञ्चित् = किञ्चित्
कर्म = कर्मको
न कुर्यात्=नभी करै
तदपि=तब भी
संयमी = संयमी
वा=अथवा
तपस्वी = तपस्वी
विबद्धः=बद्ध
न च=नहीं होताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो विद्वान् स्वभावसे ही अज और अचिन्त्य आत्माके स्वरूपको एकवार भी देखलेताहै वह यथेष्ट चेष्टाको करनेसे भी अर्थात् शास्त्र-संमत अथवा शास्त्रविरुद्ध चेष्टाके करनेसे भी दोषोंकरके कदापि भी लिपायमान नहीं होताहै । जबकि, तिसमें कोई भी दोष नहीं रहताहै तब फिर वह यदि किसी भी कर्मको न करे चाहे वह संयमी हो, अथवा उपस्थी हो, फिर वह किसीप्रकारसे भी बंधायमान नहीं होताहै ॥ ३० ॥

निरामयं निष्प्रतिमं निराकृतिं

निराश्रयं निर्वपुषं निराशिषम् ।

निर्द्वन्द्वनिर्मोहमलुप्तशक्तिकं

तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः ।

निरामयम्, निष्प्रतिमम्, निराकृतिम्, निराश्रयम्, निर्व-
पुषम्; निराशिषम् । निर्द्वन्द्वनिर्मोहम्, अलुप्तशक्तिकम्,
तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

तम् = विद्वान् तिस
आत्मानम् = आत्माको
उपैति = प्राप्त होताहै कैसे आत्माको
ईशम् = जगत्के स्वामीको
शाश्वतम् = नित्यको
निरामयम् = रोगसे रहितको
निष्प्रतिमम् = प्रतिमासे रहितको
निराकृतिम् = निराकृतिको

निराश्रयम् = निराश्रयको
निर्वपुषम् = शरीरसे रहितको
निराशिषम् = इच्छासे रहितको
निर्द्वन्द्व } = रगद्वेषसे और मोहसे
निर्मोहम् } रहितको
अलुप्तश } = विद्यमान शक्तिवालेको
क्तिकम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—ज्ञानवान् उस आत्माको प्राप्त होता है जो कि संपूर्ण जगत्का स्वामी है, ईश्वर है । फिर वह कैसा है ? नित्य है, नाशसे रहित है, रोगसे रहित है, प्रतिमासे अर्थात् मूर्तिसे रहित है, आकारसेभी रहित है और संसारमें जितनेक स्थूलपदार्थ हैं ये सब सूक्ष्मप्रकृतिके आश्रित हैं, और प्रकृति चेतन आत्माके आश्रित है, आत्मा निराश्रय है अर्थात् किसीके भी वह आश्रित नहीं है । फिर वह कैसा है ? शरीरसे रहित है, इच्छासे रहित है, रागद्वेषादिक और सुखदुःखादिक द्वन्द्वोंसे भी रहित है, मोहसेभी रहित है, और अलुप्त-शक्तिक है अर्थात् उसीकी शक्ति भी लुप्त नहीं हुई है ॥ २१ ॥

वेदो न दीक्षा न च मुण्डनक्रिया

गुरुर्न शिष्यो न च यन्त्रसंपदः

मुद्रादिकं चापि न यत्र भासते

तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः ।

वेदः, न, दीक्षा, न, च, मुण्डनक्रिया, गुरुः, न, शिष्यः,
न, च, यन्त्रसंपदः । मुद्रादिकम्, च, अपि, न, यत्र,
भासते, तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

यत्र=जिसमें

वेदः=वेद और

दीक्षाः=दीक्षा भी

न=नहीं मान होतीहै और

मुण्डनक्रिया=मुण्डन क्रिया भी

न च=नहीं मान होती है और

गुरुः=गुरु तथा

शिष्यः=शिष्य भी

न=नहीं भासता

यन्त्रसंपदः=यंत्रोंकी संपदा भी हैं नहीं

च अपि=और निश्चयकरके

मुद्रादिकम्=मुद्रा आदिक भी

यत्र=जिसमें

न भासते=नहीं ही भासते हैं

तम्=तिसी

ईशम्=ईश्वर

आत्मानम्=आत्माको

शाश्वतम्=नित्यको

उपैति=विद्वान् प्राप्त होता है

भावार्थः ।

उत्तमैवर्गं कृतेहै—जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें गुरुशिष्यादि व्यवहार नहीं होता है और जितनी कि, मुंडन आदिक क्रिया हैं और यंत्र मंत्र आदिक संपदा हैं वे भी लय प्रतीत नहीं होते हैं और जिन आत्मानें यह गुरु शिष्यादिक व्यवहार सब नहीं मानता है उसी आत्मानें ज्ञानवान् सब सरकरके लय खोजते हैं ॥ ३२ ॥

न शांभवं शाक्तिकमानवं न वा

पिण्डं च रूपं च पदादिकं न वा ।

आरम्भनिष्पत्तिघटादिकं च नो

तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ।

न, शांभवं, शाक्तिकमानवं, न, वा, पिण्डम्, च, रूपम्, च, पदादिकम्, न, वा । आरम्भनिष्पत्तिघटादिकम्, च, नो, तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

आरम्भवम् = उस चेतन आत्मानें शां-

भवनः भी

न = नहीं है और

शाक्तिक- } = शक्ति तया मानव-
मानवम् } पना में उसमें नहीं है

च वा = और अथवा

पिण्डम् = पिण्डभाव में

न = तिनमें नहीं है

च = और

रूपम् न = रूप में तिनमें नहीं है और

पदादिकम् = पदादिक भी

न वा = उसमें नहीं है

च = और

आरम्भनिष्पत्तिघटादिकम् } = वगादिकोंका आ-
रम्भ और उत्पत्तिभी

नो = उसमें नहीं है विद्वान्

तम् = उसी चेतन

शाश्वतम् = निवृत्तको

ईशम् = ईश्वर

आत्मानम् = आत्माको

उपैति = प्राप्त होता है

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं—उस चेतन आत्मानें शंभव और शाक्तिक आदिक किसी प्रकारका व्यवहार नहीं बनताहै और घटादिक पदार्थोंकी उत्पत्ति आदिक भी वास्तवसे नहीं बनतेहैं उसी नित्य आत्माको विद्वान् प्राप्त होताहै अर्थात् शरीरका त्याग करके उसीमें लीन होजाताहै ॥ ३३ ॥

यस्य स्वरूपात्सचराचरं जगद्-
उत्पद्यते तिष्ठति लीयतेऽपि वा ।

पयोविकारादिव फेनबुद्बुदा-
स्तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३४ ॥

पदच्छेदः ।

यस्य, स्वरूपात्, सचराचरम्, जगत्, उत्पद्यते, तिष्ठति,
लीयते, अपि, वा । पयोविकारात्, इव, फेनबुद्बुदाः,
तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

यस्य = जिस आत्मके
स्वरूपात् = स्वरूपसे
सचराचरम् = सोहित वर अचरके
जगत् = जगत्
उत्पद्यते = उत्पन्न होताहै
तिष्ठति = जिसमें स्थिर होजाताहै
लीयते = फिर लय होजाताहै
अपि वा = निश्चयकरके

पयोविकारात् = जलके विकारसे
फेनबुद्बुदाः = फेनबुद्बुदोंकी
इव = तरह होते हैं
तम् = तिसी
ईशम् = ईश्वर
आत्मानम् = आत्मा
शाश्वतम् = नित्यको
उपैति = विद्वान् प्राप्त होताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस चेतन आत्मके स्वरूपसे संपूर्ण वर अणु
अर्थात् स्यावर जंगमरूप जगत् उत्पन्न होताहै और उसीमें स्थित होकर फिर
तिसीमें लयमवकों भी प्राप्त होजाताहै जिसतरह जलसे बुद्बुदे उत्पन्न होकर

फिर जल्म ही लय होजातेहैं एवं उसी नित्यरूप आत्माको विद्वान् भी प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

नासानिरोधो न च दृष्टिरासनं
बोधोऽप्यबोधोऽपि न यत्र भासते ।
नाडीप्रचारोऽपि न यत्र किञ्चि-
त्तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः ।

नासानिरोधः, न, च, दृष्टिः, आसनम्, बोधः, अपि, अबोधः,
अपि, न, यत्र, भासते । नाडीप्रचारः, अपि, न, यत्र,
किञ्चित्, तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

यत्र=जिस आत्मामें
नासानिरोधः=नासानिरोध और
दृष्टिः=दृष्टि
न च=नहीं है और
आसनम्=आसन और
बोधः=ज्ञान भी
अपि=निश्चय करके
अबोधः=अबोध भी
न च=नहीं
भासते=मान होताहै

यत्र=फिर जिस आत्मामें
नाडीप्रचारः=नाडियोंका प्रचार भी
अपि=निश्चयकरके
किञ्चित्=किञ्चित् भी
न=नहीं भासताहै
तम्=तिसी
ईशम्=ईश
आत्मानम्=आत्मा
शाश्वतम्=नित्यको
उपैति=विद्वान् प्राप्त होताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस चेतन व्यापक आत्मामें नासिकाके अप्रमं दृष्टिका निरोध करना नहींहै क्योंकि आत्माके नासिकादिक नहीं है तत्र निरोध कैसे बनता है ! किन्तु कदापि भी नहीं, और फिर बोध अर्थात् ज्ञानवाला भी नहीं है क्योंकि वह ज्ञानस्वरूपहै, और अज्ञानवाला भी नहीं है क्योंकि प्रकाशस्वरूप आत्मामें तम

रूप अज्ञान रह भी नहीं सकताहै फिर तिसमें नाडियोंका प्रचार भी नहीं है क्योंकि नाडियोंका प्रचार शरीरमें होताहै वह शरीर नहीं किन्तु शरीरसे भिन्न है उसी नित्य आत्ममें विद्वान् मरकरके लय होजाताहै और फिर जन्म मरणको प्राप्त नहीं होताहै ॥ ३९ ॥

नानात्वमेकत्वमुभयत्वमन्यता

अणुत्वदीर्घत्वमहत्त्वशून्यता ।

मानत्वमेयत्वसमत्ववर्जितं

तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः ।

नानात्वम्, एकत्वम्, उभयत्वम्, अन्यता, अणुत्वदीर्घत्व-
महत्त्वशून्यता । मानत्वमेयत्वसमत्ववर्जितम्, तम्, ईशम्,
आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

तम्=विद्वान् तिस

ईशम्=ईश

आत्मानम्=आत्माको

उपैति=प्राप्त होताहै जो कि

शाश्वतम्=नित्य है और

नानात्वम्=नानात्व

एकत्वम्=एकत्व

उभयत्वम्=उभयत्वसे

अन्यता=भेदसे और

अणुत्वदीर्घत्व-
महत्त्वशून्यता } =अणु, दीर्घ, मह-
त्वसे और शून्य-
तासे रहित है

मानत्वमे-
यत्वसम-
त्ववर्जितं } =मान मेय और सम-
त्वसे भी वह रहित है

तम्

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—उस चेतन आत्मामें नानारूप जगत् भी वास्तवसे नहीं है और एकत्व भी नहीं है क्योंकि नानात्वकी अपेक्षासे एकत्व होताहै अर्थात् पहले नानात्व सिद्ध होले तब पीछे एकत्व सिद्ध हो, और जो एकत्व सिद्ध होले तब नानात्व सिद्ध हो, इस रीतिसे अन्योन्याश्रय दोष आताहै । जब कि,

नानात्व नहीं, तब एकत्व अर्थसे ही सिद्ध नहीं होता है । इसवास्ते नानात्व एकत्व-
दोनों उसमें नहीं हैं जबकि वह दोनों नहीं तब अर्थने ही उभयत्व भी तिसमें नहीं-
हैं और जो कोई दूसरा वास्तवसे सत्य हो तब तो तिसका भेद भी उसमें हो
जिसवास्ते दूसरा नहीं है इसीवास्ते भेदसे भी रहित है । और मान जोकि प्रमाण
है और भेय जोकि, विषय है और समभाव जो ह इनसे भी वह आत्मा रहित
है और अणु, ह्रस्व, दीर्घ और महत्त्व इन परिमाणोंसे भी जोकि वह रहित है
उसी ईश्वर आत्माको वह ज्ञानवान् प्राप्त होजाते हैं ॥ ३६ ॥

सुसंयमी वा यदि वा न संयमी

सुसंग्रही वा यदि वा न संग्रही ।

निष्कर्मको वा यदि वा सकर्मक-

स्तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः ।

सुसंयमी, वा, यदि, वा, न, संयमी, सुसंग्रही, वा, यदि,
वा, न, संग्रही । निष्कर्मकः, वा, यदि, वा, सकर्मकः,
तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

सुसंयमी=ज्ञानवान् सुष्ठु संयमवाला हो
वा=अथवा
न संयमी=संयमवाला न हो
यदि वा=अथवा
सुसंग्रही=सुष्ठु संग्रह करनेवाला हो
यदि वा=अथवा
न संग्रही=संग्रह करनेसे रहित हो
वा=अथवा

निष्कर्मकः=कर्मसे रहित हो
यदि वा=अथवा
सकर्मकः=कर्मके सहित हो
तम्=तिसी
ईशम्=ईश्वर
शाश्वतम्=नित्य
आत्मानम्=आत्माको ज्ञानी
उपैति=प्राप्त होजाता है ।

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—ज्ञानवान् इन्द्रियोंका संयम करनेवाला हो अथवा इन्द्रियाका संयम करनेवाला न हो किन्तु विषयोंका भोगनेवाला हो अथवा पदार्थोंका संग्रह करनेवाला हो यदि वा पदार्थोंका संग्रह करनेवाला न हो अथवा कर्मोंको न करनेवाला हो या कर्मोंको करनेवाला हो तब भी वह उसी आत्मानित्यमें ही प्राप्त होजाताहै ॥ ३७ ॥

मनो न बुद्धिर्न शरीरमिन्द्रियं

तन्मात्रभूतानि न भूतपञ्चकम् ।

अहंकृतिश्चापि वियत्स्वरूपकं

तमिदंशात्मानमुपैति शाश्वतम् ॥ ३८ ॥

पदच्छेदः ।

मनः, न, बुद्धिः, न, शरीरम्, इन्द्रियम्, तन्मात्रभूतानि, न, भूतपञ्चकम् । अहंकृतिः, च, अपि, वियत्स्वरूपकम्, तम्, ईशम्, आत्मानम्, उपैति, शाश्वतम् ॥

पदार्थः ।

मनः=मन और

बुद्धिः=बुद्धि भी जिसके

न=नहीं है और

शरीरम्=शरीर तथा

इन्द्रियम् = इन्द्रिय भी

न = जिसके नहीं है

तन्मात्रभूतानि } =पंचतन्मात्ररूपी भूत

तानि } भी

भूतपञ्चकम् = पृथ्वी आदि ५ महाभूत

न = जिसमें नहीं हैं

अहंकृतिः = अहंकार भी

अपि = निश्चयकारके जिसके नहीं है

च = और

वियत्स्व- } = आकाशके तुल्य व्यापक

रूपकम् } रूपवाला भी है

तम् शाश्वतम् = उस नित्य

ईशम् = ईश्वर

आत्मानम् = आत्माको विद्वान्

उपैति = प्राप्त होजाताहै

भाषार्थः ।

जिसके मन और बुद्धि नहीं, शरीर और इन्द्रिय नहीं, पृथिवी, जल, तेज,

वायु आकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द नहीं, अहंकार भी नहीं, जो आकाशके समान व्यापक है, उस नित्य आत्माको प्राप्त होजाताहै ॥ ३८ ॥

विधौ निरोधे परमात्मतां गते

न योगिनश्चेतासि भेदवर्जिते ।

शौचं न वाऽशौचमलिङ्गभावना

सर्वं विधेयं यदि वा निषिध्यते ॥ ३९ ॥

पदच्छेदः ।

विधौ, निरोधे, परमात्मतां गते, न, योगिनः, चेतसि, भेदवर्जिते । शौचम्, न, वा, अशौचम्, अलिङ्गभावना, सर्वम्, विधेयम्, यदि, वा, निषिध्यते ॥

पदार्थः ।

भेदवर्जिते = भेदसे रहित

परमात्मतां गते = परमात्मताको प्राप्त

योगिनः = योगीके

चेतासि = चित्तमें

विधौ निरोधे = विधि और निरोध

न भवतः = नहीं होतेहैं

शौचम् = पवित्रता

वा = अथवा

न अशौचम् = अपवित्रता भी नहीं होती है और

अलिङ्गभावना = विद्वक्तो भावना भी नहीं होतीहै

यदि वा = अथवा

सर्वम् = संपूर्ण

विधेयम् = विधेयका भी

निषिध्यते = निषेध होजाताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जिन ज्ञानवान् योगियोंका चित्त भेदसे रहित परमात्माके स्वरूपमें ही लीन होगयाहै उनके वास्ते विधि और निषेध नहीं होता है तथा पवित्रता और अपवित्रता भी उनके लिये नहीं है और उनका चिह्न भी कोई नहीं होताहै अथवा कर्मियोंके लिये जिन विधियोंका विधान कियाहै उन सब विधियोंका योगीके लिये निषेध होजाता है ॥ ३९ ॥

मनो वचो यत्र न शक्तमीरितुं

नूनं कथं तत्र गुरुरूपदेशता ।

इमां कथामुक्तवतो गुरोस्त-

द्युक्तस्य तत्त्वं हि समं प्रकाशते ॥ ४० ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म-
संवित्युपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

पदच्छेदः ।

मनः, वचः, यत्र, न, शक्तम्, ईरितुम्, नूनम्, कथम्,
तत्र, गुरुपदेशता । इमाम्, कथाम्, उक्तवतः, गुरोः,
सद्युक्तस्य, तत्त्वम्, हि, समम्, प्रकाशते ॥

पदार्थः ।

यत्र = जिस आत्मामें
मनः वचः = मन और वाणी
ईरितुम् = कथन करनेको
शक्तम् = समर्थ
न = नहीं है
नूनम् = निश्चयकरके
तत्र = तिस आत्मामें
गुरुपदेशता = गुरु और उपदेश
व्यवहार
कथम् = कैसे बतलकत है

इमाम् = इस
कथाम् = कथाको
उक्तवतः = कथन करनेवाले और
तद्युक्तस्य = तिस आत्मामें जुड़े हुए
गुरोः = गुरुको
हि = निश्चयकरके
समम् = सम एकरस
तत्त्वम् = आत्मतत्त्व
प्रकाशते = प्रकाशमान होता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—उस चेतन ब्रह्मको मन वाणी भी कथन करनेको समर्थ नहीं होती है अतएव वह चेतन आत्मा मन वाणीका विषय ही नहीं है तब फिर गुरुके उपदेशकी गम्य कहां है ? किन्तु कहां भी नहीं है इस चेतन ब्रह्मकी कथाको निरूपण करनेवाला जो कि तिसी चेतन आत्मामें जुड़ा हुआ गुरु है तिस गुरुको वह आत्मतत्त्व सम ही प्रकाशमान होता है ॥ ४० ॥

इति श्रीमदवधूतगीतायां परमहंसदासाशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित-

परमानन्दश्रीभाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ३.

अववृत उवाच ।

गुणविगुणविभागो वर्तते नैव किञ्चि-

द्रतिविरतिविहीनं निर्मलं निष्प्रपञ्चम् ।

गुणविगुणविहीनं व्यापकं विश्वरूपं

कथमहमिह वन्दे व्योमरूपं शिवं वै ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

गुणविगुणविभागः, वर्तते, न, एव, किञ्चित्, रतिविर-
तिविहीनम्, निर्मलम्, निष्प्रपञ्चम् । गुणविगुणविहीनम्,
व्यापकम्, विश्वरूपम्, कथम्, अहम्, इह, वन्दे, व्यो-
मरूपम्, शिवम्, वै ॥

पदार्थः ।

वृत्र=जिस आत्मामें

एव=निश्चयकरके

किञ्चित्=किञ्चित् भी

गुणविगुण- } =गुण और निर्गुण

विभागः { विभाग

वर्तते=वर्तता

न = नहीं है एवंत

शिवम्=कल्याणरूपके

व्योमरूपम् = आकाशरूप व्यापकके

इह = इस प्रस्थान

अहम् = मैं

०२०५

कथम् = किस प्रकार

वन्दे=वन्दनाको करूं ? कैसा बड़ है

रतिविर- } =रति और विरतिके

तिविहीनम् } रहित है

निर्मलम् = निर्मलको

निष्प्रपञ्चम् = प्रपञ्च रहितको और

गुणविगुण- } =सगुण निर्गुणताके

विहीनम् } भी रहितको

व्यापकम् = सर्वत्र व्यापकको

विश्वरूपम् = विश्वरूपको कैसे मैं बू

न्दना करूं

भाषाटीकासहिता ।

भाषार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जिस चेतन आत्मामें सगुण और ~~विशुद्ध~~ ^{विशुद्ध} विभाग नहीं है और रति जो प्रेम विरति जो कि उपरामता यह भी नहीं है क्योंकि रति विरति भी भेदको लेकरके होते हैं ! इसीसे वह निर्बल है मायामलसे भी रहित हैं और प्रपंचसे भी वह रहित है क्योंकि प्रपंच सब मायाका कार्य है जब कि, उसमें माया ही वास्तवसे नहीं है तब प्रपंच कैसे होसकता है ? और शून्य, रज, तम इन तीनों गुणोंके विभागसे भी वह रहित है, व्यापक है, विश्वरूप भी है, कल्याणस्वरूप भी है, और हमारा अपना आत्मा भी है, उसको हम कैसे वन्दना करें ? वन्दना भी भेदको लेकरके होती है, एकमें वन्दना भी नहीं वन्दतीहै ॥ १ ॥

श्वेतादिवर्णरहितो नियतं शिवश्च
कार्यं हि कारणमिदं हि परं शिवश्च ।
एवं विकल्परहितोऽहमलं शिवश्च ।
स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथं नमामि ॥२॥

पदच्छेदः ।

श्वेतादिवर्णरहितः, नियतम्, शिवः, च, कार्यम्, हि,
कारणम्, इदम्, हि, परम्, शिवः, च । एवम्,
विकल्परहितः, अहम्, अलम्, शिवः, च, ~~स्वात्मानम्,~~
आत्मानि, सुमित्र, कथम्, नमामि ॥

पदार्थः ।

सुमित्र=हे सुमित्र !

अहम्=मैं

स्वात्मानम्=अपने आत्माको

आत्मनि=अपने आत्म में

कथम्=किस प्रकार

नमामि=नमस्कार करूँ

श्वेतादिवर्ण- } =श्वेतपांतादि वर्णोंसे
रहितः } भी रहित हूँ

नियतम्=निश्च

शिवः=कल्याणरूप हूँ

च हि = और निश्चयकरके

इदम् = यह

कार्यम् = कार्य है यह

कारणम् = कारण है

परम् = यह श्रेष्ठ है

च = और

शिवः = यह कल्याण है.

एवम् = इस प्रकारके

विकल्प- } =विकल्पोंसे भी मैं रहित
रहितः } हूँ फिर

अलम् = परिपूर्ण

च शिवः = और कल्याणरूप हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे सुमित्र ! मैं शिवरूप हूँ अर्थात् कल्याणस्वरूप हूँ और श्वेतपांतादिवर्णोंसे रहित हूँ, कार्यकारणरूपी जगत्में भी मैं रहित हूँ और फिर मैं शुद्धस्वरूप हूँ तब फिर अपने आत्माको अपने आत्ममें मैं कैसे नमस्कार करूँ ? क्योंकि नमस्कारका करना भेदको लेकरके ही होता है अमेदको लेकरके नहीं होता है ॥ २ ॥

निर्मूलमूलरहितो हि सदोदितोऽहं

निर्धूमधूमरहितो हि सदोदितोऽहम् ।

निर्दीपदीपरहितो हि सदोदितोऽहं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

निर्मूलमूलरहितः, हि, सदा, उदितः, अहम्, निर्धूमधूम-
रहितः, हि, सदा, उदितः, अहम् । निर्दीपदीपरहितः,

हि, सदा, उदितः, अहम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्,
गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अहं हि=मैं निश्चयकरके
निर्मूलमूल } =निर्मूल हूँ और मूल-
रहितः } कारणसे रहित हूँ
सदा = सर्वकाल ही मैं
उदितः=उदित हूँ फिर मैं
निर्धूमधूम- } =निर्धूम और धूमसे
रहितः } रहित
हि = निश्चयकरके
सदा = सर्वकाल
अहम् उदितः = मैं उदित हूँ

निर्दीपदीप- } =निर्दीप हूँ और दीप-
रहितः } कसे रहित हूँ
हि=निश्चयकरके
सदा=सर्वकाल
अहम्=मैं
उदितः=उदित हूँ फिर मैं कैसाहूँ
ज्ञानामृतम्=ज्ञानामृत और
समरसम्=समरस
गगनोपमः } =गगनकी उपमावाला
अहम् } मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस हेतुसे मैं निर्मूल हूँ अर्थात् मेरा मूलकारण कोई भी नहीं है और मैं भी किसीका मूलकारण नहीं हूँ अर्थात् अज्ञान में मैं नहीं रहता है और जिस हेतुसे निर्धूम हूँ इसीवास्ते मैं अज्ञानसे भी रहित हूँ, फिर जिस हेतुसे निर्दीप हूँ अर्थात् दीपक मेरेको प्रकाश नहीं करसकता है मैं दीपसे रहित स्वयंप्रकाश हूँ और सदैव उदित हूँ ज्ञानस्वरूप अमृतरूप समरस अर्थात् एकरस सर्वत्र ज्योंका त्यों आकाशकी उपमावाला मैं हूँ मेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है ॥ ३ ॥

निष्कामकाममिह नाम कथं वदामि

निःसंगसंगमिह नाम कथं वदामि ।

निःसारसाररहितं च कथं वदामि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

निष्कामकामम्, इह, नाम, कथम्, वदामि, निःसंगसंगम्,
इह, नाम, कथम्, वदामि । निःसारसाररहितम्, च, कथम्,
वदामि, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निष्काम- } = कामनासे रहित को
कामम् } कामनावाला

नाम=प्रसिद्ध

इह=इस लोकमें

कथम्=किस प्रकार

वदामि=मैं कहूँ

निःसंग- } = संगसे रहितको संग-
संगम् } वाला

इह=इस लोकमें

नाम=प्रसिद्ध

कथम्=किस प्रकार

वदामि=मैं कहूँ

च=और

निःसारसार- } = निःसारको सारसे
रहितम् } राहित

कथम्=किस प्रकार

वदामि=मैं कहूँ

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूपी अमृतरूप और

समरसम्=एकरस

गगनोपमः=गगनकी उपमावाला

अहम् = मैं हूँ

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं—निष्काम आत्माको कामनावाला मैं कैसे कहूँ ? फिर जो कि निःसंग है अर्थात् असंग है उसको संगवाला संबधवाला मैं कैसे कहूँ ? फिर जो कि निःसार है अर्थात् सारसे रहित है उसको मैं सारवाला कैसे कहूँ ? किन्तु मैं ज्ञानरूपी अमृत और समरस अर्थात् एकरस आकाशकी उपमावाला हूँ ॥ ४ ॥

अद्वैतरूपमखिलं हि कथं वदामि

द्वैतस्वरूपमखिलं हि कथं वदामि ।

नित्यं त्वनित्यमखिलं हि कथं वदामि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

अद्वैतरूपम्, अखिलम्, हि, कथम्, वदामि, द्वैतस्वरूपम्
अखिलम्, हि, कथम्, वदामि । नित्यम्, तु, अनित्यम्,
अखिलम्, हि, कथम्, वदामि, ज्ञानामृतम्, समरसम्,
गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अद्वैतरूपम् = अद्वैतरूप
अखिलम् = संपूर्ण प्रपञ्चको
हि = निश्चयकरके
अहम् = मैं
कथम् = किस प्रकार
वदामि = कथन करूं
अखिलम् = संपूर्ण जगत्को मैं
द्वैतरूपम् = द्वैतरूप
हि = निश्चयकरके
अहम् = मैं
कथम् = किस प्रकार
वदामि = कथन करूं

तु = पुनः
नित्यम् = नित्य और
अनित्यम् = अनित्य
अखिलम् = संपूर्णको
कथम् = कैसे
वदामि = कहूँ क्योंकि
अहम् = मैं
ज्ञानामृत- } = ज्ञानरूपी अमृतरूप हूँ
तम् }
समरसम् = एकरस हूँ
गगनोपमः = आकाशकी उपमावाला हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं संपूर्ण प्रपञ्चको अद्वैतरूप करके कैसे कहूँ क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे वह द्वैतरूपकरके दिखाता है और द्वैतरूपकरके भी मैं नहीं कहसकता हूँ, क्योंकि सुषुप्ति और मोक्ष अवस्थामें इसका अभाव होजाता है अर्थात् जिस कालमें द्वैत नहीं रहताहै । फिर मैं संपूर्ण जगत्को नित्य और अनित्य कैसे कहूँ ? क्योंकि यदि नित्य हो तब तो इसका नाश कभी भी न होवै और नाश तो जरूर होताहै । इसवास्ते नित्य नहीं है और अनित्य भी नहीं है यदि अनित्य हो तब दृष्टिका गोचर न हो, वंध्यापुत्रकी तरह, और दृष्टिका गोचर भी होता है । इसवास्ते नित्य और अनित्य भी इसको किसी प्रकारसे भी मैं नहीं कहसकता हूँ किन्तु यह संपूर्ण प्रपञ्च अनिर्वचनीय है

और मैं ज्ञानरूपी अमृत एकरस आकाशकी उपमावाला अर्थात् आकाशकी तरह व्यापक हूँ ॥ ५ ॥

स्थूलं हि नो नहि कृशं न गतागतं हि
आद्यन्तमध्यरहितं न परापरं हि ।
सत्यं वदामि खलु वै परमार्थतत्त्वं
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

स्थूलम्, हि, नः, न, हि, कृशम्, न, गतागतम्, हि,
आद्यन्तमध्यरहितम्, न, परापरम्, हि । सत्यम्, वदामि,
खलु, वै, परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनो-
पमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

नः = हमारा आत्मा

हि = निश्चयकरके

स्थूलम् = स्थूल

न हि = नहीं है और

कृशम् = कृश तथा

न गतागतम् = गमनागमनवाला भी
नहीं है

आद्यन्तमध्य- } = आदि अन्त और
रहितम् } मध्यसे भी रहित है

हि = निश्चयकरके

न परापरम् = पर अपर रूप भी नहीं

खलु = निश्चयकरके

सत्यम् = सत्यको ही

वदामि = मैं कहत हूँ

परमार्थ- } = परमार्थतत्त्वस्वरूप मैं
तत्त्वम् } हूँ

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत हूँ और

समरसम् = एकरस हूँ

गगनोप- } = अकाशकी उपमा-
मोऽहम् } वाला मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हमारा जो आत्मा है सो स्थूल नहीं है और कृश भी नहीं अर्थात् अणु भी नहीं है और गमनागमनवाला भी नहीं है और आदि मध्य तथा

अन्तवाला भी नहीं है अर्थात् उत्पत्ति स्थिति और लयवाला भी नहीं है किंतु उत्पत्ति आदिकोंसे रहित है और पर अपरवाला भी नहीं है क्योंकि व्यापक है । यह वार्ता मैं सत्य कहताहूँ क्योंकि मैं परमार्थतत्त्वरूप हूँ और ज्ञानरूप अमृत हूँ समस्त भी हूँ गगनकी उपमावाला भी मैं हूँ ॥ ६ ॥

संविद्धि सर्वकरणानि नभोनिभानि

संविद्धिं सर्वविषयांश्च नभोनिभांश्च ।

संविद्धि चैकममलं न हि बन्धमुक्तं

ज्ञानामृतं समस्तं गगनोपमोऽहम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

संविद्धि, सर्वकरणानि, नभोनिभानि, संविद्धि, सर्वविष-
यान्, च, नभोनिभान्, च । संविद्धि, च, एकम्, अम-
लम्, न, हि, बन्धमुक्तम्, ज्ञानामृतम्, समस्तम्, गगनो-
पमः अहम् ॥

पदार्थः ।

सर्वक- (=संपूर्ण करणोंको
रणानि)
नभोनिभानि = आकाशके तुल्य शून्य
संविद्धि = सम्प्रक् तू जान
च = और
सर्वविषयान् = संपूर्ण विषयोंको
नभोनिभान् = आकाशके तुल्य
शून्य ही
संविद्धि = सम्प्रक् तू जान
च = और

एकम् = एक आत्माको
अमलम् = शुद्ध मलते रहित
संविद्धि = सम्प्रक् तू जान कैसे
आत्माको
बन्धमुक्तम् = बंध और मोक्ष जिसमें
न हि = नहीं है सो आत्मा
ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृतरूप
समस्तम् = एकरस
गगनोपमः = आकाशवत्
अहम् = मैं ही हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जितने कि इन्द्रिय हैं वे सब वास्तवसे आकाशक तुल्य शून्य हैं ऐसे तू जान और संपूर्ण विषय भी आकाशकी तरह शून्य हैं, ऐसे ही तू जान और एक आत्माको ही अमल अर्थात् मायामलसे रहित तू जान कैसा वह आत्मा है ? बन्ध और मुक्तिले रहित है सोई मैं हूँ, फिर मैं कैसा हूँ ज्ञानस्वरूप अमृतरूप हूँ और एकरस आकाशवत् व्यापक हूँ ॥७॥

दुर्वोधबोधगहनो न भवामि तात

दुर्लक्ष्यलक्ष्यगहनो न भवामि तात ।

आसन्नरूपगहनो न भवामि तात

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

दुर्वोधबोधगहनः, न, भवामि, तात, दुर्लक्ष्यलक्ष्यगहनः,
न, भवामि, तात । आसन्नरूपगहनः, न, भवामि, तात,
ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

दुर्वोधबोध- } = दुर्वोध आत्मा
गहनः } जो वृत्तिज्ञान है सोबड़ा
गंभीर है

तात = हे तात सो

न भवामि = मैं नहीं हूँ

ज्ञात = हे तात

दुर्लक्ष्यल- } = दुर्लक्ष्यका लक्ष्य भी
क्ष्यगहनः } गंभीर है सो

न भवामि = मैं नहीं हूँ

तात = हे तात

आसन्नरूप- } = अतिसमीप भी ति-
पगहनः } सका बड़ा गंभीर है

न भवामि = मैं आसन्न भी नहीं हूँ

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत मैं हूँ

समरसम् = एकरस हूँ

गगनोप- } = आकाशकी उपमावा-
मोऽहम् } ला हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे तात ! हे प्रिय ! वह आत्मा बड़ा ही दुर्बोध है अर्थात् बड़े कष्टसे उसका बोध होता है सो बोध भी वृत्तिज्ञान है सो मैं नहीं हूँ क्योंकि वह मिथ्या है फिर वह आत्मा दुर्लक्ष्य है अर्थात् किसी भी इन्द्रियकरके वह लक्ष्य नहीं होता है क्योंकि बड़ा गहन है सो उस दुर्लक्ष्यका जो कि लक्ष्य अर्थात् जानना है वह भो मैं नहीं हूँ फिर तिसका रूप मनबुद्धिके अतिसमीप भी है तबभी तिसका जानना कठिन है क्योंकि वह मनादिकोंका विषय नहीं है इसवास्ते मैं तिसके अतिसमीप भी नहीं हूँ किन्तु मैं वही ज्ञानरूपी अमृत हूँ और एक रस गगनकी उपमावाला हूँ मेरेसे वह भिन्न नहीं है ॥ ८ ॥

निष्कर्मकर्मदहनो ज्वलनो भवामि

निर्दुःखदुःखदहनो ज्वलनो भवामि ।

निर्देहदेहदहनो ज्वलनो भवामि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

निष्कर्मकर्मदहनः, ज्वलनः, भवामि, निर्दुःखदुःख-
दहनः, ज्वलनः, भवामि । निर्देहदेहदहनः, ज्वलनः,
भवामि, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अहम्=मैं

निष्कर्मकर्म- } =कर्मोंसे रहित हूँ तब

दहनः } भी कर्मोंका दाहक

ज्वलनः=अग्नि

भवामि=मैं हूँ

निर्दुःखदुःख- } =मैं दुःखसे रहित हूँ

खदहनः } तबभी दुःखको दाहक

ज्वलनः=अग्नि

भवामि=मैं हूँ

निर्देहदेह- } =देहसे रहित हूँ तब भी

दहनः } देहसे रहित करनेमें

ज्वलनः=अग्निरूप

भवामि=मैं हूँ फिर मैं

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूप अमृत हूँ

समरसम्=स्वकरस हूँ

गगनो- } गगनकी उपमावाला

पमः }

अहम्=मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं कर्मोंसे रहित हूँ और कर्मोंके जलानेमें जलती हुई अग्नि मैं हूँ, फिर मैं संपूर्ण दुःखोंसे रहित भी हूँ, तब भी दुःखोंके जलानेमें मैं अग्निरूप हूँ, फिर मैं शरीरसे रहित भी हूँ, तब भी जन्ममरणके हेतु जो लिङ्गशरीर और कारणशरीर हैं उनके जलानेमें मैं जलती हुई अग्निरूप हूँ, फिर मैं ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस और आकाशवत् व्यापक भी हूँ ॥ ९ ॥

निष्पापपापदहनो हि हुताशनोऽहं

निर्धर्मधर्मदहनो हि हुताशनोऽहम् ।

निर्वन्धबन्धदहनो हि हुताशनोऽहं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

निष्पापपापदहनः, हि, हुताशनः, अहम्, निर्धर्मधर्म-
दहनः, हि, हुताशनः, अहम् । निर्वन्धबन्धदहनः, हि,
हुताशनः, अहम्, ज्ञानामृतम्, समरसं, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निष्पापपा- } = पापसे रहित पापके
पदहनः } दाह करनेमें

अहम् = मैं

हि = निश्चयकरके

हुताशनः = अग्निरूप हूँ

निर्धर्मधर्म } = धर्मसे रहित होकरके
दहनः } भी धर्मके दाह करनेमें

हि = निश्चयकरके

हुताशनः = अग्निरूप

अहम् = मैं हूँ

निर्वन्धब- } = बन्धसे रहित हूँ और
न्धदहनः } बन्धके दाह करनेमें

हि = निश्चयकरके

हुताशनः = अग्निरूप

अहम् = मैं हूँ

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृतरूप हूँ

समरसम् = एकरस

गगनोपमोऽहं = गगनकी उपमावाला हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं पापोंसे रहित हूँ और पापोंके दाह करनेमें अग्नि-
रूप भी हूँ अर्थात् जैसे अग्नि लकड़ियोंको जलाकरके भस्म करदेतीहै तैसे मैं
भी पापोंको जलाकरके भस्म करदेताहूँ, फिर मैं धर्मसे भी रहित हूँ और धर्म-
अधर्मके जलानेमें अग्निरूप भी हूँ, फिर मैं बन्धसे रहित भी हूँ तब भी बन्धके
जलानेमें मैं अग्निरूप हूँ और ज्ञानस्वरूप अमृतरूप एकरस आकाशवत्
व्यापक भी हूँ ॥ १० ॥

निर्भावभावरहितो न भवामि वत्स

निर्योगयोगरहितो न भवामि वत्स ।

निश्चितचित्तरहितो न भवामि वत्स

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ११ ॥

पदच्छेदः

निर्भावभावरहितः, न, भवामि, वत्स, निर्योगयोगरहितः,

न, भवामि, वत्स । निश्चितचित्तरहितः, न भवामि,

वत्स, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

वत्स = हे वत्स

निर्भावभा- } = निर्भाव होकरके भी
वरहितः } भावसे रहित

न भवामि = मैं नहीं हूँ

वत्स = हे वत्स

निर्योगयो- } =निर्योग होकरके भी
गरहितः } योगसे रहित

न भवामि = मैं नहीं हूँ

वत्स = हे वत्स

निश्चितचि- =चित्तसे रहित होकर-
त्तरहितः करके भी चित्तसे
रहित

न भवामि = मैं नहीं हूँ किन्तु

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृत मैं हूँ

समरसम् = समरस भी मैं हूँ

गगनोप- } = आकाशकी उपमावाला
मोऽहम् } हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं निर्भाव हूँ अर्थात् प्रेम मेरा किसी भी पदार्थमें नहीं है

परन्तु प्रेमसे रहित भी मैं नहीं हूँ किन्तु प्रेमरूप ही हूँ । फिर मैं योगसे रहित हूँ क्योंकि योग नाम है चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका सो मैं निरोधरूप नहीं हूँ परन्तु निरोधरूपी योगसे रहित भी मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरेमेंही संपूर्ण जगत्का लयरूपी निरोध होता है । हे वत्स ! मैं निश्चित हूँ अर्थात् चित्तसे रहित हूँ अर्थात् वास्तवसे मेरा चित्तसाथ कोई भी संबंध नहीं है तब भी मैं चित्तसे रहित नहीं हूँ क्योंकि संपूर्ण चित्त मेरेमें ही कल्पित है । हे वत्स ! मैं ज्ञानरूप अमृतरूप समरस आकाशकी उपमावाला हूँ ॥ ११ ॥

निर्मोहमोहपदवीति न मे विकल्पो

निःशोकशोकपदवीति न मे विकल्पः ।

निर्लोभलोभपदवीति न मे विकल्पो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

निर्मोहमोहपदवी, इति, न, मे, विकल्पः, निःशोकशोक-
पदवी, इति, न, मे, विकल्पः । निर्लोभलोभपदवी, इति,
न, मे, विकल्पः, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम्, ॥

पदार्थः ।

निर्मोहमोह } =मोहसे रहित अथवा
पदवी } मोहवाला
इति=इसप्रकारका
मे=मेरेमें
विकल्पः=विकल्प
न=नहीं है
निःशोक- } =शोकसे रहित या
शोकपदवी } शोकवाला
इति=इसप्रकारका भी
मे=मेरेमें
विकल्पः विकल्प

न=नहीं है

निर्लोभ } =लोभसे रहित अथवा

लोभपदवी } लोभवाला

इति=इसप्रकारका भी

मे=मेरेमें

विकल्पः=विकल्प

न=नहीं है किन्तु

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूप अमृत मे

समरसम्=एकरस भी हूँ

गगनोप- } =आकाशका व्यापक भी

मोऽहम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं मोहसे रहित हूँ, या मोहवाला हूँ, इस प्रकारका विकल्प भी मेरेमें नहीं युक्त है । फिर मैं शोकवाला हूँ, या शोकसे रहित हूँ इस प्रकारका विकल्प भी मेरेमें नहीं युक्त है । फिर मैं लोभवाला हूँ, या लोभसे रहित हूँ, इस प्रकारका संकल्प भी मेरेमें नहीं योग्य है, किन्तु मैं ज्ञानरूपी अमृतस्वरूप हूँ, समरस हूँ और आकाशवत् मिलेप भी हूँ ॥ १२ ॥

संसारसन्ततिलता न च मे कदाचि-

त्सन्तोषसन्ततिसुखं न च मे कदाचित् ॥

अज्ञानबन्धनमिदं न च मे कदाचि-

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

संसारसन्ततिलता, न, च, मे, कदाचित्, सन्तोषसन्त-
तिसुखं, न, च, मे, कदाचित् । अज्ञानबन्धनम्, इदम्,
न, च, मे, कदाचित्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः,
अहम् ॥

पदार्थः ।

संसारसन्तति- } = संसाररूपी-
लता } प्रवाहकी लता

कदाचित् = कदाचित् भी

मे न च = मेरेको नहीं है

सन्तोषसन्त- } = सन्तोषरूपी सन्त-
तिसुखं } तिका सुख भी

कदाचित् = कदाचित् भी

मे न च = मेरेको नहीं है

इदम् = यह

अज्ञानब- } = अज्ञानरूपी बन्धन भी
न्धनम् }

कदाचित् = कदापि

मे न च = मेरेको नहीं है किन्तु

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत और

समरसम् = एकरस और

गगनो- } = आकाशवत् व्यापक
मोऽहम् } मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जैसे कि, जन्ममरणरूपी संसारकी लता कर्मियोंके लिये फैलती है वह लता कदाचित् मी मेरेलिये नहीं फैलताहै और जो कि सन्तोषकी सन्ततिसे जन्यसुख अज्ञानियोंको मान होताहै सो मेरेको नहीं मान होताहै क्योंकि मैं सुखरूप हूँ । फिर जैसे कर्मी जीव या दूसरे जीव अज्ञानरूपी बन्धनमें बन्धायमान हैं तैसे मैं कदापि भी अज्ञानरूपी बंधनकरके बन्धायमान नहीं हूँ किन्तु ज्ञानरूपी अमृतरूप और एकरस आकाशवत् असंग हूँ ॥ १३ ॥

संसारसन्ततिरजो न च मे विकारः

सन्तापसन्ततितमो न च मे विकारः ॥

सत्त्वं स्वधर्मजनकं न च मे विकारो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

संसारसन्ततिरजः, न, च, मे, विकारः, सन्तापसन्ततितमः,
न, च, मे, विकारः । सत्त्वं, स्वधर्मजनकम्, न, च,
मे, विकारः, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

संसारसन्ततिरजः=संसाररूपी प्रव-
हका जो रज है सो

मे=मेरा

विकारः=विकार

न च=नहीं है

सन्तापसन्त- } =सन्तत्यरूपी प्रवह
तितमः } जो कि अज्ञान है सो

मे=मेरा

विकारः=विकार

न च=नहीं है

स्वधर्मज- } =अपने धर्मका जनक
नकम् } जो

सत्त्वं = सत्त्वगुण है वह मी

मे=मेरा

विकारः=विकार

न च=नहीं है क्योंकि

अहम्=मैं

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूपी अमृत हूँ

समरसम्=एकरस हूँ

गगनोपमः=गगनको उपमावाला हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—यह संसाररूपी प्रवाह अनादिकालसे चलाआताहै और बार २ जन्म लेना और मरना यही इसकी रज है अर्थात् धूली है सो भी मेरा विकार अर्थात् कार्य नहीं है फिर इस संसारमें जो कि जन्मते हैं उनको जन्ममर सन्तापका प्रवाह चलाही जाता है वह भी मेरा विकार नहीं है और सत्त्वगुण ही अपने धर्मका जनक है, सो सत्त्वगुण भी मेरा विकार नहीं है क्यों कि मैं ज्ञानरूपी अमृत और एकरस गगनकी उपमावाला हूँ ॥ १४ ॥

सन्तापदुःखजनको न विधिः कदाचित्-

त्सन्तापयोगजनितं न मनः कदाचित् ॥

यस्मादाहङ्कृतिरियं न च मे कदाचित्-

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

संसारदुःखजनकः, न, विधिः, कदाचित्, सन्तापयोगज-
नितम्, न, मनः कदाचित् । यस्मात्, अहङ्कृतिः, इयम्,
न, च, मे कदाचित्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः अहम् ॥

पदार्थः ।

सन्तापदुःख } = सन्तापरूपी
जनकः } दुःखका जनक

विधिः = जो विधि है सो

कदाचित् = कदाचित् भी

मे न = मेरेलिये नहीं है

सन्तापयो- } = सन्तापके सम्बन्धसे
गजनितम् } जनित जो

मनः = संकल्परूप मन हैं सो भी

कदाचित् = कदाचित्

मे न = मेरा नहीं है

यस्मात् = जिसी कारणसे

इयम् = यह

अहङ्कृतिः = अहंकार भी

कदाचित् = कदाचित्

मे न च = मेरा नहीं है

तस्मात् = तिसी कारणसे

अहम् = मैं

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोपमः = गगनवत् हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं-सन्तापरूपी दुःखका जनक ही विधि है क्योंकि स्वर्गा-
दिकोंकी प्राप्तिके वास्ते सब विधियां बनी हैं उनके करनेसे पुरुष स्वर्गको जाता है
जहांपर अपनेसे अधिक योग्यतावालेको देखकर सन्तापरूपी दुःख उत्पन्न होता है
सो सब विधियां अज्ञानियोंके लिये बनी हैं मेरे लिये नहीं फिर सन्तापके सम्ब-
न्धसे संकल्परूप मन भी उत्पन्न होता है सो मन भी मेरा कदाचित् नहीं है
फिर अहंकारसे ही मनादिकोंकी उत्पत्तिभी होती है वह अहंकार जिस कारणसे
मैं नहीं है इसी कारणसे मैं ज्ञानरूपी अमृत एकरस गगनकी उपमा-
वाला हूँ ॥ १६ ॥

निष्कम्पकम्पनिधनं न विकल्पकल्पं
स्वमप्रबोधनिधनं न हिताहितं हि ॥

निःसारसारनिधनं न चराचरं हि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

निष्कम्पकम्पनिधनम्, न, विकल्पकल्पम्, स्वमप्रबोधि-
धनम्, न, हिताहितम्, हि । निःसारसारनिधनम्, न,
चराचरम्, हि, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निष्कम्पकम्प- } =कम्पसे रहित और
कम्पनिधनम् } कंप दोनोका नाशरूप
भी

अहम् = मैं नहीं है

विकल्पकल्पम् = विकल्प और कल्प-
रूप में

न = मैं नहीं हूँ

स्वमप्रबोध- } = स्वप्न और जाग्रतका
निधनम् } न-शरूप में

न = मैं नहीं हूँ

हिताहितम् = हित और अहित रूपभी
हि न = निश्चयकरके मैं नहीं हूँ

निःसारसा- } = सारसे रहित और
रनिधनम् } सारका भी भांशरूप
न = मैं नहीं हूँ

चराचरम् = चर अचररूप भी मैं नहीं हूँ

हि = निश्चयकरके

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोपमः = आकाशकी उपमावाला

अहम् = मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तानेयजी कहते हैं—मैं कम्परहित या सकल्प नहीं हूँ । न विकल्प हूँ न कल्पसाहित हूँ । सोना और जागना इन दोनोंसे रहित हूँ । न हित हूँ न अहित हूँ न निस्तार हूँ न सारयुक्त हूँ । न अर हूँ । न अम्बर हूँ । परन्तु ज्ञानस्वरूप, नित्य, एकरस और व्यापक हूँ ॥ १६ ॥

नो वेद्यवेदकामिदं न च हेतुतर्क्यं

वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धिः ।

एवं कथं हि भवतः कथयामि तत्त्वं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

नो, वेद्यवेदकम्, इदम्, न, च, हेतुतर्क्यम्, वाचाम्,
अगोचरम्, इदम्, न, मनः, न, बुद्धिः । एवम्, कथम्,
हि, भवतः, कथयामि, तत्त्वम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्,
गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

इदम्=यह आत्मा ब्रह्म

नो=नहीं

वेद्यवेदकम्=जानने योग्य और जना-

नेनाला भी है

हेतुतर्क्यम्=कारण और तर्कसे

न च=नहीं जाना जाता है

इदम्=यह चेतन ब्रह्म

वाचाम्=वाणीका

अगोचरम्=विषय नहीं है

मनः=मन भी इसको

न=नहीं जान सकता है

बुद्धिः=बुद्धि भी इसको

न=नहीं जानसकती है

एवम्=इस प्रकारके

तत्त्वम्=चेतन ब्रह्मको

भवतः=तुम्हारेको

हि=निश्चयकरके

कथम्=किस प्रकार

कथयामि=मैं कथन करूँ

ज्ञानामृतम्=ज्ञानस्वरूप अमृत

समरसम्=एकरस

गगनोपमः=गगनकी उपमावाला

अहम्=मैंही हूँ

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं-वह ब्रह्म चेतन किसीसे नहीं जानाजाताही हेतु और तर्कोंकरके भी वह नहीं जानाजाताही और न किसी इन्द्रियकरके ही वह जाना जाताही क्यों कि वाणीका वह विषय नहीं है अर्थात् वाणी तिसको इदन्ता-
करके कथन नहीं करसकती है और मन तथा बुद्धिका भी विषय नहीं है एवंरूप उस ब्रह्मको तुम्हारे प्रति मैंकिस प्रकार कथन करूं फिर वह जो ब्रह्म है सो ज्ञानरूपी अमृत समस्त आकाशवत् है सो मैं ही हूँ मेरेसे भिन्न दूसरा नहीं है ॥ १७ ॥

निर्मिन्नभिन्नरहितं परमार्थतत्त्व-

मन्तर्वाहिर्न हि कथं परमार्थतत्त्वम् ।

प्राक्संभवं न च रतं न हि वस्तु किञ्चि-

ज्ञानामृतं समस्तं गगनोपमोऽहम् ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

निर्मिन्नभिन्नरहितम्, परमार्थतत्त्वम्, अन्तर्वाहिः, न, हि,
कथम्, परमार्थतत्त्वम् । प्राक्संभवम्, न, च, रतम्, न, हि,
वस्तु, किञ्चित्, ज्ञानामृतम्, समस्तम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निर्मिन्नभिन्न- } =यह आत्मभेदन
रहितम् } किवाका न कर्म है

न कर्ता है

परमार्थ- } =किन्तु परमार्थस्वरूप-
तत्त्वम् } है

कथम्=किसी प्रकारसे भी

अन्तर्वाहिः=भीतर बाहर किसीके भी

न हि=वह नहीं है क्योंकि वही

परमार्थ- } =परमार्थ सार है भेदसे
तत्त्वम् } रहित है

प्राक्सं- } =पूर्व होना फिर न होना
भवम् } यह बात भी

न च=उसमें नहीं है

रतम्=किसीमें वह लित भी

न हि=नहीं है

वस्तु कि- } =आत्मासे आतिरिक्त और
ञ्चित् } कोई भी वस्तु

न हि=नहीं है फिर वह

ज्ञानामृतम्=ज्ञानस्वरूप अमृतरूप

समस्तम्=एकरस

गगनोपमः=गगनकी उपमावाला है

अहम्=सोई आत्मा मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—भेदाभेदरहित, परमार्थतत्त्व, भीतर बाहर आदि व्यवहारसे शून्य है, पहले किसी समयमें भी उसका हाणा सम्भव नहीं, किसी पदार्थमें लिप्त भी वह नहीं है, कोई पदार्थ भी वह नहीं है, पर वह ज्ञानस्वरूप नाशरहित, सदा ध्यानन्दमय और आकाशके समान गायक, निर्लिप्त है १८

रागादिदोषरहितं त्वहमेव तत्त्वं

दैवादिदोषरहितं त्वहमेव तत्त्वं

संसारशोकरहितं त्वहमेव तत्त्वम्

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

रागादिदोषरहितम्, तु, अहम्, एव, तत्त्वम्, दैवादिदोषरहितम्, तु, अहम्, एव, तत्त्वम् । संसारशोकरहितम्, तु, अहम्, एव, तत्त्वम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

रागादिदो- } = रागादिदोषोंसे रहित
परहितम् }

तु अहम् = पुनः मैं ही

एव = निश्चयकरके

तत्त्वम् = तत्त्व हूँ

तु अहम् = पुनः मैं ही

एव = निश्चयकरके

दैवादिदो- } = दैवादिदोषोंसे रहित हूँ

परहितम् }

तत्त्वम् = तत्त्व हूँ

तु अहम् = पुनः मैं ही

एव = निश्चयकरके

संसारशो- } = संसारशोकसे रहित
करहितम् }

तत्त्वम् = तत्त्व हूँ फिर

अहम् =

ज्ञानामृतम् = ज्ञान अमृत रूप

समरसम् एकरस

गगनोपमः = गगनवत् हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—रागद्वेषादिक दोषोंसे रहित आत्मतत्त्व में हूँ और जितने कि, दैव आदि दोष हैं अर्थात् आधिदैविक जो कि देवतोंसे दुःख होते हैं और जो कि अग्नि आदिक भूतोंसे दुःख होतेहैं और जो कि प्रहोले दुःख होतेहैं उन संपूर्ण दुःखोंसे मैं रहित हूँ और संसाररूपी शोकसे भी मैं रहित हूँ ज्ञानरूपी अमृत और एकरस गगनवत् में हूँ ॥ १९ ॥

स्थानत्रयं यदि च नेति कथं तुरीयं

कालत्रयं यदि च नेति कथं दिशश्च ।

शान्तं पदं हि परमं परमार्थतत्त्वं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

स्थानत्रयम्, यदि, च, न, इति, कथम्, तुरीयम्, काल-
त्रयम्, यदि, च, न, इति, कथम्, दिशः, च । शान्तम्,
पदम्, हि, परमम्, परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्,
गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

यदि च = यदि च

स्थानत्र- } = आप्त, स्वप्न, सुषुप्ति

यम् } रूप तीन स्थान

इति = इस प्रकारके

न = नहीं है तब

तुरीयम् = तुरीय स्थान

रूपम् = कैसे होसकताहै ?

यदि च = यदि च

कालत्र- } = भूत भाविष्यत् वर्तमान

यम् } यह तीन काल भी

इति न = इस ग्रहमें नहीं है

कथम् = कैसे फिर

दिशः = दिशा है

च = और वह ब्रह्म

शान्तं } = शान्तरूप

पदम् }

हि = निश्चयकारके

परमम् = परम है

परमार्थ- } = परमार्थसे

तत्त्वम् } तत्त्ववस्तु है

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत में हूँ

समरसम् = समरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला

मोऽहम् } मैं हूँ

भांवार्यः ।

इसात्रेयजी कहतेहैं—जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन स्थान हैं सो ये तीनों स्थान भी घेतन आत्मामें वास्तवसे नहीं हैं तब सुधीय कैसे होसकता है ? किन्तु कदापि भी नहीं होसकताहै क्योंकि वह ब्रह्म शान्तरूप है परमार्थस्वरूप है । इसीवास्ते उसमें भूत, भविष्यत्, वर्तमान ये तीनों काल भी नहीं हैं और ज्ञानस्वरूप अमृतरूप एकरस आकाशवत् असंग है सो मैं हूँ ॥ १० ॥

दीर्घो लघुः पुनरितीह न मे विभागो

विस्तारसंकटमितीह न मे विभागः ।

कोणं हि वर्तुलमितीह न मे विभागो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

दीर्घः, लघुः, पुनः, इति, इह, न, मे, विभागः, विस्तार-
संकटम्, इति, इह न, मे, विभागः । कोणम्, हि, वर्तु-
लम्, इति, इह, न, मे, विभागः, ज्ञानामृतम्, समर-
सम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

पुनः = फिर यह

दीर्घः = दीर्घ है और

लघुः = यह लघु है

इति = इस प्रकारका

विभागः = विभाग भी

इह = इस लोकमें

मे न = मेरेमें नहीं होता

विस्तारसंक- } = विस्तार और सं-

टम् } कोष

इति = इस प्रकारका

विभागः = विभाग भी

इह = इस लोकमें

मे न = मेरेमें नहीं होताहै

हि = निश्चयकारके

वर्तुलम् = गोलाकार और

कोणम् = त्रिकोणादि

इति = इस प्रकारका भी

विभागः = विभाग

इह = इस लोकमें

मे न = मेरेमें नहीं होता

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूप अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोपमोऽहम् = गगनवत् मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मेरेमें दीर्घ, लघु अणु, इत्यादिक भी विभाग नहीं है । फिर मेरेमें विस्तार और संकोचादिक विभाग भी नहीं हैं, और त्रिकोण चतुष्कोणादिक विभाग भी मेरेमें नहीं है और गोलाकार विभाग भी मेरेमें नहीं है, क्योंकि मैं इनसे रहित ज्ञानअमृत रूप हूँ ॥ २१ ॥

मातापितादि तनयादि न मे कदाचि-

जातं मृतं न च मनो न च मे कदाचित् ।

निर्व्याकुलं स्थिरमिदं परमार्थतत्त्वं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

मातापितादि, तनयादि, न, मे, कदाचित्, जातम्,
मृतम्, न, च, मनः, न, च, मे, कदाचित् । निर्व्याकु-
लम्, स्थिरम्, इदम्, परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतम्,
समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

मे = मेरे

मातापितादि = माता और पिता
आदिक

तनयादि = स्त्री आदिक भी

कदाचित् = कदाचित्

जातम् न = उत्पन्न नहीं हुए

मृतम् = और मेरे भी

न च = नहीं हैं

मे मनः = मेरा मन

कदाचित् = कदाचित् भी

निर्व्याकुलम् = व्याकुलतासे रहित

स्थिरम् = और स्थिर भी

न च = नहीं हैं

इदम् = यही आत्मा

परमार्थ- } = परमार्थसे सत्यवस्तु है

तत्त्वम् }

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृत है

समरसम् = समरस और

गगनोपमोऽहम् = गगदुग्धी उपमा-

वाला मैं हूँ

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मेरे माता पिता और स्त्री पुत्रादिक सब कदाचित् भी उत्पन्न नहीं हुए हैं और न कदाचित् वह मेरे ही हैं फिर मेरेमें व्याकुलता और स्थिरता भी नहीं है किन्तु मैं परमार्थरूप अमृतरूप आकाशकी उपमावाला हूँ ॥ २२ ॥

शुद्धं विशुद्धमविचारमनन्तरूपं

निर्लेपलेपमविचारमनन्तरूपम् ।

निष्खण्डखण्डमविचारमनन्तरूपं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

शुद्धम्, विशुद्धम्, अविचारम्, अनन्तरूपम्, निर्लेपलेपम्, अविचारम्, अनन्तरूपम् । निष्खण्डखण्डम्, अविचारम्, अनन्तरूपम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

शुद्धम् = शुद्ध है

विशुद्धम् = विशेषकरके शुद्ध है

अविचारम् = विचारसे रहित है

अनन्तरूपम् = अनन्तरूप है

निर्लेप- } = निर्लेप होकरके भी सम्ब-
लेपम् } ंधवाला है

अविचारम् = विचारसे रहित है

अनन्तरूपम् = अनन्तरूप है

निष्खण्डखण्डम् = नाशसे भी बह
रहित है

अविचारम् = विचारसे रहित है

अनन्तरूपम् = अनन्तरूप भी है

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला
मोऽहम् } मैं हूँ

भावार्थः ।

देवाग्रेसजी कहते हैं—मैं शुद्ध हूँ फिर विशेषकरके मैं शुद्ध हूँ, बिनासे मैं रहित हूँ अर्थात् मेरे स्वरूपमें विचारकी गन्ध नहीं है । फिर विलेप जो कि आकाश उसके साथभी मेरा लेप अर्थात् सम्बन्ध नहीं है और फिर मैं नाशसे भी रहित हूँ, फिर मैं ज्ञानरूपी अमृत हूँ और एकरस आकाशका व्यापक हूँ ॥ २३ ॥

ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्र सन्ति

स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र सन्ति ।

एकैकरूपममलं परमार्थतत्त्वम्

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ।

ब्रह्मादयः, सुरगणाः, कथम्, अत्र, सन्ति, स्वर्गादयः,
वसतयः, कथम्, अत्र, सन्ति । यदि, एकैकरूपम्, अम-
लम्, परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः,
अहम् ॥

पदार्थः ।

यदि = यदि वह ब्रह्म

एकैकरूपम् = एकरूप

अमलम् = शुद्ध है

परमार्थ- } = परमार्थस्वरूप भी है
तत्त्वम् } तब फिर

अत्र = इस ब्रह्ममें

ब्रह्मादयः = ब्रह्मासे आदि लेकरके

सुरगणाः = देवताके समूह

कथम् = किस प्रकार

सन्ति = होसकते हैं और

स्वर्गादयः = स्वर्गादिक

वसतयः = वसतियाँ भी

अत्र = इसमें

कथम् = किस प्रकार

सन्ति = होसकती है

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूप अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोपमोऽहम् = गगनकी उपमावा-

ला मैं हूँ

भावार्थः ।

इत्तात्रेयजी कहते हैं—यदि वह एक ही है और शुद्ध है, मायामलसे रहित है, परमार्थस्वरूप है तो फिर इस ब्रह्ममें ब्रह्मासे आदि लेकर सब देवतागण और स्वर्गादिक सब लोक यह परमार्थसे कैसे तिसमें सत्य होसकते हैं किन्तु यह सब कदापि नहीं होसकते हैं फिर वह ज्ञानरूप अमृतरूप एकरस भाकाशवत् है सो मैं ही हूँ २४ ॥

निर्नेतिनेतिविमलो हि कथं वदामि

निःशेषशेषविमलो हि कथं वदामि ।

निर्लिङ्गलिङ्गविमलो हि कथं वदामि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ।

निर्नेतिनेतिविमलः, हि, कथम्, वदामि, निःशेषशेषविमलः, हि, कथम्, वदामि । निर्लिङ्गलिङ्गविमलः, हि, कथम्, वदामि, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निर्नेतिनेति- } = वह नेतिनेतिसे
विमलः } रहित नहीं है शुद्ध है

हि = निश्चयकरके

कथम् = किस प्रकार

वदामि = मैं कथन करूँ

निःशेषशेष- } = शेषसे रहित शेष है
विमलः } शुद्ध है

हि = निश्चयकरके

कथम् = ऐसे भी किस प्रकार

वदामि = मैं कथन करूँ

निर्लिङ्गलिङ्ग- } = निहसे रहित बिह
गविमलः } वाला और शुद्ध

हि = निश्चयकरके

कथम् = किस प्रकार

वदामि = कथन करूँ क्योंकि

ज्ञानामृत- } = ज्ञानरूप अमृतरूपः
तम् }

समरसम् = एकरस

गगनोप- } = गगनकी उपमाशब्दः
मोऽहम् }

भाषाथः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—कि, जो “नोतिनोति” वह धृति कहती है कि जलमें तीन कालमें भी जगत् नहीं है तो ऐला भी कथन वही बनताहै क्योंकि यदि प्रथम कहीं भी जगत् सत्य हो तद्गतो कहाजाय कि उसमें नहीं है पित्तवास्ते जगत् तीनों कालोंमें कहीं भी सत्य नहीं है इत्यवास्ते वह शुद्ध है और सबका शेष होनेसे वह विमल है, फिर वह निहते भी रहित है अर्थात् उसका कोई भी विह्न नहीं है किन्तु वह ज्ञानस्वरूप अमृतरूप है तो मैं हूँ ॥ २६ ॥

निष्कर्मकर्मपरमं सततं करोमि

निःसंगसंगरहितं परमं विनोदम् ।

निर्देहदेहरहितं सततं विनोदं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २६ ॥

पदच्छेदः ।

निष्कर्मकर्मपरमम्, सततम्, करोमि, निःसंगसंगरहितम्,
परमम्, विनोदम् । निर्देहदेहरहितम्, सततम्, विनोदम्,
ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निष्कर्मकर्म- } = कर्मसे मैं रहित हूँ
परमम् } = परमकर्मको

सततम् = निरन्तर ही

करोमि = मैं करता हूँ

निःसंगसंग- } = मैं निःसंगसे रहि-
रहितम् } = तको

परमम् = उत्कृष्ट

विनोदम् = उपमोह करता हूँ

निर्देहदेह- } = देहसे रहित हूँ देहसे
रहितम् } = रहितको और

सततम् = निरन्तर

विनोदम् = हर्षको मैं प्राप्त होता हूँ

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृतरूप

समरसम् = रसरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला
मोऽहम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं कर्म रहित हूँ पर नानाप्रकारके कर्म करता हूँ ।
निस्सङ्ग सङ्गरहित हूँ पर सदाविनोद करताहूँ । मैं देहरहित हूँ पर सदा ध्यानन्दसे
रहता हूँ ज्ञानस्वरूप हूँ अमर हूँ सदा एक स्वरूप निर्लेप और व्यापक हूँ ॥२६॥

मायाप्रपञ्चरचना न च मे विकारः

कौटिल्यदम्भरचना न च मे विकारः ।

सत्यानृतेति रचना न च मे विकारो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ।

मायाप्रपञ्चरचना, न, च, मे, विकारः, कौटिल्यदम्भ-
रचना, न, च, मे, विकारः । सत्यानृतेति, रचना, न,
च, मे, विकारः, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमोऽहम् ॥

पदार्थः ।

मायाप्रपञ्च- रचना	{ = माया-रूपी प्रपञ्चकी जो रचना भी सो	सत्यानृतेति रचना	{ = सत्य झूठ की रचना भी
मे विकारः	= मेरा विकार	मे विकारः	= मेरा विकार
न च	= नहीं है	न च	= नहीं है
कौटिल्यद- म्भरचना	{ = कुटिलता और द- म्भकी रचना भी	ज्ञानामृतम्	= ज्ञानरूपी अमृत
मे विकारः	= मेरा कार्य	समरसम्	= एकरस
न च	= नही ह	गगनोपमोऽहम्	= गगनत्रय मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं--मायाके माना प्रपञ्चकी रचना मेरा विकार नहीं है,
कुटिलता कपट ढोंग आदि मेरे विकार नहीं है, सच और झूठका प्रपञ्च मेराविकार
नहीं है । मैं ज्ञानस्वरूप, अमर, सदा समान रहनेवाला और व्यापक हूँ ॥२७॥

सन्ध्यादिकालरहितं न च मे वियोगो

अन्तःप्रबोधरहितं बधिरो न मूकः ।

एवं विकल्परहितं न च भावशुद्धं

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २८ ॥

पदच्छेदः ।

सन्ध्यादिकालरहितम्, न, च, मे, वियोगः, हि, अन्तः-

प्रबोधरहितम्, बधिरो, न, मूकः । एवम्, विकल्परहितम्,

न च, भावशुद्धम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

सन्ध्यादि } = सन्ध्यादिकालोंसेमें
 कालरहितम् } रहित हूँ तबभी उनसे
 मे वियोगः = मेरा वियोग
 न च = नहीं है
 हि = निश्चयकरके
 अन्तः = भीतरसे
 प्रबोधर- } = विशेष बोधसे रहित
 हितम् }
 बधिरो = बहुरा और
 मूकः = मूक भी मैं

न च = नहीं हूँ

एवम् = इसप्रकारके

विकल्प } = विकल्पसे रहित हूँ
 रहितम् }

भावशुद्धम् = अन्तः कारणसे शुद्ध

न च = नहीं हूँ

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला मैं हूँ
 मोऽहम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो केतन किः संध्या, मध्याह्न और सायं इन तीनों कालोंसे रहित है अर्थात् कालकृत भेद भी जिसमें नहीं है तीनों कालोंमें एकरस है उसके साथ मेरा वियोग नहीं है अर्थात् वह मैं ही हूँ, फिर वह अन्तरके ज्ञानसे रहित है परन्तु वह बधिरो और मूक नहीं है किन्तु वह ज्ञानस्वरूप है इस प्रकारिके विकल्पोंसे भी वह रहित है तो भी चित्तसे शुद्ध नहीं है क्योंकि उसका चित्त

नहीं है वह शुद्धस्वरूप है और ज्ञानरूपी अमृत है, एकरस आकाशवत् व्यापक भी है सोई मैं हूँ ॥ २८ ॥

निर्नाथनाथरहितं हि निराकुलं वै
निश्चित्तचित्तविगतं हि निराकुलं वै ।
सांविद्धि सर्वविगतं हि निराकुलं वै
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ २९ ॥

पदच्छेदः

निर्नाथनाथरहितम्, हि, निराकुलम्, वै, निश्चित्तचित्तविगतम्,
हि, निराकुलम्, वै । सांविद्धि, सर्वविगतम्, हि, निराकुलम्,
वै, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निर्नाथना- } =स्वामीसे रहित हूँ	निराकुलम् = आकुलतासे रहित
थरहितम् } किसीका और स्वामी भी	सांविद्धि = तू सम्यक् जान
} मैं नहीं हूँ	सर्वविगतम् = सर्वसे रहित हूँ
हि = निश्चयकरके	हि = निश्चयकरके
निराकुलम् = व्याकुलतासे भी रहित हूँ	निराकुलम् = कुलसे भी रहित हूँ
वै = निश्चयकरके	वै = निश्चयकरके
निश्चित्तचित्त- } = चिन्तासे रहित हूँ	ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृतरूप
त्तविगतम् } और चित्तसे भी	समरसम् = एकरस
} रहित	गगनोप- } = आकाशकी उपमावा-
वै = निश्चयकरके	मोऽहम् } ला हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मेरा कोई भी नाथ अर्थात् स्वामी नहीं है और मैं भी किसका स्वामी नहीं हूँ क्योंकि मेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है फिर मैं कुलसे अर्थात् मूलकारणसे भी रहित हूँ फिर चिन्तासे रहित हूँ क्योंकि मेरा

बिचही नहीं है फिर सर्वगत हूं परन्तु सर्वसे रहित हूं किन्तु ज्ञानरूपी अमृत
एकरस आकाशवत् व्यापक हूँ ॥ २९ ॥

कान्तारमन्दिरमिदं हि कथं वदामि
संसिद्धसंशयमिदं हि कथं वदामि ।
एवं निरन्तरसमं हि निराकुलं वै

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ।

कान्तारमन्दिरम्, इदम्, हि, कथम्, वदामि, संसिद्धसंशयम्,
इदम्, हि, कथम्, वदामि । एवम्, निरन्तरसमम्, हि, निरा-
कुलम्, वै, ज्ञानामृतम्, समरसं, गगनोपमः अहम् ॥

पदार्थः ।

इदम् = यह

कान्तार- } = निर्जन वनरूप है
मन्दिरम् }

हि = निश्चयकरके

कथम् = किस प्रकार

वदामि = मैं कथन करूँ

इदम् = यह

संसिद्धसंश- } = संशयकरके सिद्ध है
यम् }

हि = निश्चयकरके

कथम् = किस प्रकार

वदामि = मैं कथन करूँ

एवम् = इसी प्रकार वह

निरन्तरसमम् = निरन्तर सम है

हि वै = निश्चयकरके

निराकुलम् = व्याकुलतासे रहित

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृतरूप

समरसम् = एकरस

गगनोप- गगनकी उपमावाला मैं हूँ

मोऽहम्

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—यह जगत् एक शून्य मन्दिररूप है वा सत्य असत्य आदि
संशयोंकरके युक्त है निरन्तर सम है अर्थात् प्रवाहरूपकरके एकरस नित्य है
वा निराकुल है अर्थात् मूलकारणसे रहित है । मैं इस जगत्को इत. प्रकारक

कैसे कथन करूं ? क्योंकि मेरा तो इसके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है किन्तु मैं ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस गगनवत् हूँ ॥३०॥

निर्जीवजीवरहितं सततं विभाति

निर्बीजबीजरहितं सततं विभाति ।

निर्वाणबन्धरहितं सततं विभाति

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः ।

निर्जीवजीवरहितम्, सततम्, विभाति, निर्बीजबीजरहितम्, सततम्, विभाति । निर्वाणबन्धरहितम्, सततम्, विभाति, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

निर्जीवजीव- } निर्जीवसे और
रहितम् } जीवसे रहित

सततम् = निरन्तरही

विभाति = भान होते हैं

निर्बीजबीज- } = निर्बीजसे और
रहितम् } बीजसे रहित

सततम् = निरन्तरही

विभाति = भान होता है

निर्वाणबन्ध- } = सुखसे और बन्ध-
रहितम् } नसे रहित

सततम् = निरन्तरही

विभाति = भान होता है

ज्ञानामृतम् = ज्ञान अमृतरूप

समरसम् = एकरस

गगनोपमोऽहम् = मैं गगनवत् हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं--एक निर्जीव पदार्थ है, जिसमें जीव चेतन नहीं रहता है अर्थात् जड़ माया दूसरा जीवरहित है जिसमें जीवत्व धर्म नहीं है, किन्तु केवल व्यापक चेतन पदार्थ है, यह दोही पदार्थ निरन्तरही मेरेको भान होते हैं, सो दोनोंमें चेतनही सत्य है, माया जड़ मिथ्या है, वह चेतन निर्बीज है अर्थात् बीजकारणसे रहित है, और आपमी किसीका उपादान कारण नहीं है, ऐसाही

हमको निरन्तर मान होता है, फिर वह निर्माण है अर्थात् सुक्तस्वरूप है, और बन्धनसे रहित है, एकारस ज्ञानरूप अमृतरूप है, सो मैं हूँ ॥ ३१ ॥

संभूतिवर्जितमिदं सततं विभाति

संसारवर्जितमिदं सततं विभाति ।

संहारवर्जितमिदं सततं विभाति

ज्ञानाधृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः ।

संभूतिवर्जितम्, इदम्, सततम्, विभाति, संसारवर्जितम्, इदम्, सततम् विभाति । संहारवर्जितम्, इदम्, सततम्, विभाति, ज्ञानाधृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

इदम्=यह चेतन
 संभूतिवर्जितम् } =ऐश्वर्यसे रहितही
 सततम्=निरन्तर
 विभाति=मेरेको मान होता है और
 संसारवर्जितम् } =संसारसे रहित भी
 इदम्=यह चेतन
 सततम्=निरन्तर मेरेको
 विभाति=मान होता है

संहारवर्जितम्=नाशसे रहित
 इदम्= यह ब्रह्म
 सततम्=निरन्तरही
 विभाति=मेरेको मान होता है
 ज्ञानाधृतम् } =ज्ञानरूपी अमृतरूपः
 तम् } मैं हूँ
 समरसम्=एकारस
 गगनोपमोऽहम् } =आकाशकी उपमानाकाश
 मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—यह जो ब्रह्मचेतन है सो मेरेको निरन्तर ऐश्वर्यसे रहित मान होता है क्योंकि संसारवर्जितना ऐश्वर्य है सो सब मायाका कार्य है और ब्रह्मचेतन साक्षात् और मायाके कार्यसे रहित है, फिर यह ब्रह्मचेतन जन्म मरणरहित

संसारसे रहित मेरेको मान होता है क्योंकि व्यापक चेतनमें जन्मादिक नहीं बनते हैं फिर यह व्यापक चेतन संहारसे भी रहित है, अर्थात् तिसका कभी भी नाश नहीं होता है किन्तु वह ज्ञानरूपी अमृतरूप है, एकरस है आकाशकी तरह व्यापक है सो ब्रह्म मैं ही हूँ ॥ ३२ ॥

उल्लेखमात्रमपि ते न च नामरूपं

निर्भिन्नभिन्नमपि ते न हि वस्तु किञ्चित् ।

निर्लज्जमानस करोषि कथं विषादं

ज्ञानामृत समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ।

उल्लेखमात्रम्, अपि, ते, न, च, नामरूपम् निर्भिन्न-
भिन्नम्, अपि, ते, न, हि, वस्तु, किञ्चित् । निर्लज्जमानस,
करोषि, कथम्, विषादम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गग-
नोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अपि=निश्चयकरके

ते=तुम्हारा

उल्लेखमात्रम्=उल्लेख मात्र भी

नामरूपम्=नाम और रूप

न च=नहीं है

निर्भिन्नभिन्नम्=भेदसे रहितमें भेद

अपि=निश्चयकरके

ते=तुम्हारेमें

किञ्चित्=किञ्चित् भी

न हि वस्तु=वस्तु नहीं है

हे निर्लज्ज- } =लज्जासे रहित हो-
मानस ! } कर हे मन !

कथम्=किस प्रकार

विषादम्=विषादको

करोषि=तू कर्ता है क्योंकि तू

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूपी अमृत हा

समरसम्=एकरस

गगनोपमोऽहम्=आकाशवत् मैं हूँ

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी अपने चित्तसे कहते हैं-उल्लेखमात्र भी अर्थात् किञ्चिन्मात्र भी तेरा म और रूप नहीं है फिर भेदसे रहित तेरे स्वरूपमें भेद करनेवाला कोई भी

वस्तु नहीं है, तब फिर हे निर्लेज्जमानस अर्थात् लज्जासे रहित चित्त ! तू क्यों विषाद करता है वह चेतन ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस आकाशवत् व्यापक है सो मैं हूँ ॥ ३३ ॥

किं नाम रोदिषि सखे न जरा न मृत्युः

किं नाम रोदिषि सखे न च जन्मदुःखम् ।

किं नाम रोदिषि सखे न च ते विकारो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३४ ॥

पदच्छेदः ।

किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, जरा, न, मृत्युः, किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, जन्मदुःखम् । किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, विकारः, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनो-पमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

सखे=हे सखे !

नाम=(इति प्रसिद्धम्)

किम्=किसवास्ते

रोदिषि=तू रदन करता है

न जरा=न तो जरा अवस्था है

न मृत्युः=न तो मृत्युही है

सखे=हे सखे !

किं नाम=किसवास्ते

रोदिषि=तू रदन करता है

जन्मदुःखम्=जन्मका दुःख भी

न च=नहीं है

सखे=हे सखे !

किं नाम किसवास्ते

रोदिषि=तुम रदन करते हो

ते=तुम्हारा

विकारः=विकार भी

न च=नहीं है क्योंकि

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूपी अमृत

समरसम्=समरस

गगनोपमः = गगनकी उपमावाला

आत्मा है

अहम् = सो मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी अपने ही चित्तसे कहतेहैं—हे सखे ! किसालिये तू जरामृत्युके भयसे रुदन करताहै अर्थात् जरामृत्युके भयसे जो तुम्हारा रुदन करनाहै सो झूठा है क्योंकि तुम्हारा स्वरूप जरामृत्युके भयसे रहित है यदि कही कि, जन्मके दुःखसे मैं रुदन करताहूँ तो उचित नहीं क्योंकि जन्मरहित होनेसे जन्मका दुःख भी तुमको नहीं है, फिर तुम्हारा कोई विकार अर्थात् कार्य भी नहीं है तब कार्यके लिये भी तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है क्योंकि ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस आकाशवत् व्यापक मैं हूँ ऐसा तुम निश्चय करो ॥ ३४ ॥

किं नाम रोदिषि सखे न च ते स्वरूपम्

किं नाम रोदिषि सखे न च ते विरूपम् ।

क वयांसि सखे न च ते वयांसि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः ।

किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, स्वरूपम्, किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, विरूपम् । किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, वयांसि, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

सखे=हे सखे !

किं नाम=किसवास्ते

रोदिषि=तू रुदन करता है

ते=तुम्हारा यह शरीर

स्वरूपम्=स्वरूप

न च=नहीं है

सखे=हे सखे !

किं नाम=किसवास्ते

रोदिषि=तू रुदन करता है

ते=तुम्हारा

विरूपम्=रूप नष्ट होनेवाला भी

न च=नहीं है

सखे=हे सखे !

किं नाम=किसवास्ते

रोदिषि=तू रुदन करता है

ते=तुम्हारे

वयांसि=आयु आदिक भी

न च=नहीं है क्योंकि वह

ज्ञानामृतम्=ज्ञानरूपी अमृतरूप

समरसम्=एकरस

गगनोपमः=आकाशकी उपमावाला है

अहम्=सो मैं हूँ

भावार्यः ।

दत्तात्रेयजी अपने ही आपसे कहतेहैं—हे सखे ! किसवास्ते तू शरीर या इन्द्रियोंके लिये रुदन करताहै ? यह तो तुम्हारा रूप नहीं है क्योंकि यह तो सब मिथ्या है तुम इनके साक्षी नित्य हो इसवास्ते रुदन करना तुम्हारा नहीं बनताहै फिर तुम किसके लिये रुदन करतेहो ? नष्ट होनेवाला रूप भी नहीं है फिर जिन आयु आदिकोंके वास्ते तुम रुदन करते हो यह भी तुम्हारे नहीं है क्योंकि तुम ज्ञानस्वरूप अमृतरूप गगनकी उपमावाले हो सो मैं हूँ ऐसा निश्चय करो ॥ ३५ ॥

किं नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि

किं नाम रोदिषि सखे न च ते मनांसि

किं नाम रोदिषि सखे न तवेन्द्रियाणि

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः ।

किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, वयांसि, किम्,
नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, मनांसि । किम्, नाम,
रोदिषि, सखे, न, तव, इन्द्रियाणि, ज्ञानामृतम्, समर-
सम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

किं नाम = किसवास्ते

सखे = हे सखे !

रोदिषि = तुम रुदन करते हो

वयांसि = आयु आदिक भी

ते न च = तुम्हारे नहीं हैं

सखे = हे सखे !

किं नाम = किसके लिये

रोदिषि = तुम रुदन करतेहो

मनांसि = मन आदिक भी

न च ते = तुम्हारे नहीं है

सखे = हे सखे !

किं नाम = किसलिये

रोदिषि = तू रुदन करताहै

इन्द्रियाणि = यह इंद्रिय भी सब

तव न = तुम्हारे नहीं हैं क्योंकि तुम

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत हो

समरसम् = एकरस

गगनोपमः = आकाशकी उपमावाला

अहम् = मैं हूँ ऐसे तुम जानो

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे सखे ! तू जिन आयु आदिकोंके लिये रुदन प्रारताहै कि, यह हमारे नष्ट होजायंगे सो यह तो तुम्हारे पहलेसे ही नहीं है क्यों कि तुम इससे रहित हो फिर मनआदिकोंके वास्ते भी तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है क्योंकि तुम इनसे भी अलग हो और यह इन्द्रियादिक भी तुम्हारे नहीं हैं अतः इनके लिये भी तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है । तुम तो ऐसे निश्चय करो कि, ज्ञानस्वरूप अमृतरूप एकरस मैं हूँ ॥ ३६ ॥

किं नाम रोदिषि सखे न च तेऽस्ति कामः

किं नाम रोदिषि सखे न च ते प्रलोभः ।

किं नाम रोदिषि सखे न च ते विमोहो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः ।

किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, अस्ति, कामः, किम्, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, प्रलोभः । किम्, नाम रोदिषि, सखे, न, च, ते, विमोहः, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

सखे = हे सखे !

किं नाम = किसवास्ते

रोदिषि = तू रुदन करता है

ते = तुम्हारा

कामः = इच्छा भी

सखे न च = हे सखे ! नहीं है

किं नाम = किसवास्ते

रोदिषि = रुदन करताहै

ते = तुम्हारा

प्रलोभ = लोभ भी

न चः = नहीं है

सखे = हे सखे !

किं नाम = किसके वास्ते

रोदिषि = तू रुदन करता है

ते = तुम्हारा

विमोहः = विमोह भी

न च = नहीं है क्योंकि

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृतरूप

समरसम् = एकरस

गगनोप- } = आकाशवत् मैं हूँ ऐसे
मोऽहम् } तू जान

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे सखे ! यह काम जो इच्छा है यह भी तुम्हारेमें नहीं है क्योंकि यह अन्तःकरणका धर्म है और यह लोभ भी तुम्हारेमें नहीं है और विशेष करके यह मोह भी तुम्हारेमें नहीं है यह भी सब अन्तःकरणके ही धर्म हैं, फिर तुम किसके वास्ते रुदन करतेहो तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है क्योंकि तुम असंग एकरस ज्ञानस्वरूप व्यापकहो ऐसे जानो ॥ ३७ ॥

ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते धनानि

ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते हि पत्नी ।

ऐश्वर्यमिच्छसि कथं न च ते ममेति

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३८ ॥

पदच्छेद ।

ऐश्वर्यम्, इच्छसि, कथम्, न, च, ते, धनानि, ऐश्वर्यम्,
इच्छसि, कथम्, न, च, ते हि, पत्नी । ऐश्वर्यम्, इच्छसि,
कथम्, न, च, ते, मम, इति, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गग-
नोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

ऐश्वर्यम् = ऐश्वर्यकी
कथम् = किसी प्रकार
इच्छसि = तू इच्छा करता है
ते = तुम्हारे
धनानि = धनादिक सब भी
न च = नहीं है
ऐश्वर्यम् = ऐश्वर्यकी
कथम् = किस प्रकार
इच्छसि = तू इच्छा करता है
ते तुम्हारी
पत्नी = स्त्री भी
न च हि = नहीं है

ऐश्वर्यम् = ऐश्वर्यकी
कथम् = किस प्रकार
इच्छसि = तू इच्छा करता है
ते = तुम्हारा
मम = मेरा भी
इति = इसप्रकारका व्यवहार भी
न च = नहीं है
ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत
समरसम् = एकरस
गगनोपमो- } = आकाशवत् मैं हूँ
अहम् } ऐसे जानो

भावार्थः ।

इत्तात्रेयजी कहते हैं—यह धनादिक तो सब तुम्हारे नहीं हैं फिर तुम ऐश्वर्यकी इच्छा कैसे करतेहो. फिर छी भी वास्तवसे तुम्हारी नहीं है, वह अपने स्वार्थकी है और भी कोई पदार्थ तुम्हारा नहीं है उसमें ममताका करनामी नहीं बनताहै इसीवास्ते ऐश्वर्यकी इच्छा करनी भी निरर्थक है क्योंकि तुम आप ही ऐश्वर्यस्वरूप ज्ञानरूपी अमृतरूप आकाशवत् निर्लेप हो ऐसे तुम अपनेको जानो ॥ ३८ ॥

लिङ्गप्रपञ्चजनुषी न च ते न मे च

निर्लज्जमानसमिदं च विभाति भिन्नम् ।

निर्भेदभेदरहितं न च ते न मे च

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ३९ ॥

पदच्छेदः ।

लिङ्गप्रपञ्चजनुषी, न, च, ते, न, मे, च, निर्लज्जमानसम्, इदम्, च, विभाति, भिन्नम् । निर्भेदभेदरहितम्, न, च, ते न, मे, च, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

लिङ्गप्रप- } = विङ्गरूप प्रपञ्चकी
ञ्चजनुषी } उत्पत्ति

ते न च = तुम्हारेसे भी हुई नहीं

मे न च = हमारेसे भी हुई नहीं

निर्लज्ज- } = लज्जासे रहित मनके
मानसम् }

इदम् = यह एवना

भिन्नम् = भिन्न होकर

विभाति = प्रतीत होतीहै

च = और

निर्भेदभे- } = सामान्य विशेष भेदसे
दरहितम् } रहित होना भी

ते न च = तुम्हारा नहीं है और

मे न च = हमारा भी नहीं है क्योंकि

यदि भेद कहीं सत्य हो तब

तो हो तो तो नहीं है एक-

में भेदाऽभेद व्यवहार ही

नहीं बनता है क्योंकि यह

ज्ञानामृतम् = ज्ञानरूपी अमृत

समरसम् = एकरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला

मोऽहम् } सो मैं हूँ

भावायः ।

दत्ताश्रेयसी कहतेहैं—नाना प्रकारके चिह्न जैसे पशु पक्षी मनुष्य आदि जातिके पहिचान करानेवाले लक्षण न तुम्हारे हैं न मेरे हैं यह सब लज्जा-हीन मनको प्रतीत पड़ते हैं तुम्हारे और हमारे कोई साधारण अथवा विशेष भेद नहीं है मैं तो ज्ञान और अमृतस्वरूप सदा समान रहनेवाला आकाश-तुल्य हूँ एकरस हूँ ॥ ३९ ॥

नो वाणुमात्रमपि ते हि विरागरूपं

नो वाणुमात्रमपि ते हि सरागरूपम् ।

नो वाणुमात्रमपि ते हि सकामरूपम्

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४० ॥

पदच्छेदः ।

नो, वा, अणुमात्रम्, अपि, ते, हि, विरागरूपम्, नो, वा, अणुमात्रम्, अपि, ते, हि, सरागरूपम् । नो, वा, अणुमात्रम्, अपि, ते, हि, सकामरूपम्, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

ना=अथवा

हि अपि=निश्चयकरके

ते=तुम्हारा

अणुमात्रम्=अणुमात्र भी

विरागरूपम्=विगतरागरूप

नो = नहीं है

वा = अथवा

अपि हि = निश्चयकरके

त = तुम्हारा

अणुमात्रम् = अणुमात्र भी

सरागरूपम् = रागके सहित रूप

नो = नहीं है

वा = अथवा

अपि हि = निश्चयकरके

ते = तुम्हारा

अणुमात्रम् = अणुमात्र भी

सकामरूपम् = सकामरूप

नो = नहीं है किन्तु तुम

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृतरूप

समरसम् = एकरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला

मोऽहम् } मैं हूँ ऐसे जानो

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे चित्त ! तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी विगतराग अर्थात् रागसे रहित नहीं है क्योंकि सर्वकाल आत्मामें तुम्हारा राग बना है, और फिर थोडा भी तुम्हारा स्वरूप रागके सहित भी नहीं है क्योंकि विषयोंमें तुम्हारा राग नहीं है और थोडा भी कामनाके सहित तुम्हारा स्वरूप नहीं है क्योंकि तुम ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस गगनकी उपमावाले हो। ऐसा तुम चिन्तन करो कि मैं ही ज्ञानरूप और अमृतादि रूपवाला हूं ॥४०

ध्याता न ते हि हृदये न च ते समाधि-

र्ध्यानं न ते हि हृदये न बहिः प्रदेशः ।

ध्येयं न चेति हृदये न हि वस्तु कालो

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४१ ॥

पदच्छेदः ।

ध्याता, न, ते, हि, हृदये, न, च, ते, समाधिः, ध्यानम्,
न, ते, हि, हृदये, न, बहिः, प्रदेशः, ध्येयम्, न, च, इति, हृदये,
न, हि, वस्तु, कालः, ज्ञानामृतम्, समरसम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

हि = निश्चयकरके

ते = तुम्हारे

हृदये = हृदयमें

ध्याता = ध्यानका कर्ता

न = नहीं है

ते = तुम्हारी

समाधि = समाधि और

ध्यानम् = ध्यान भी

हि = निश्चयकरके

न च = नहीं है

ते = तुम्हारे

हृदये = हृदयमें

बहिः = बाह्य

प्रदेशः = प्रदेश भी

न च = नहीं है और

ध्येयम् = ध्येय भी

न = नहीं है और

इति = इस प्रकारका

कालः = काल भी कोई

वस्तु = वस्तु

न हि = नहीं है

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप अमृतरूप

समरसम् = समरस

गगनोप- } = गगनकी उपमावाला मैं
मोऽहम् } हूँ ऐसे जानो

भाष्यार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—तुम्हारे हृदयमें वास्तवसे न तो कोई घ्याता है अर्थात् ध्यानका कर्ता है और न कोई समाधि तथा ध्यान ही है और न कोई बाहर अन्तर देश ही है और न कोई कालवस्तु ही है किन्तु यह सब कल्पन मात्रही है तुम्हारा स्वरूप इनसे भिन्न ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस आकाशवत् व्यापक है, ऐसा तुम निश्चय करो ॥ ४१ ॥

यत्सारभूतमखिलं कथितं मया ते
न त्वं न मे न महतो न गुरुर्न शिष्यः ।

स्वच्छन्दरूपसहजं परमार्थतत्त्वं
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम् ॥ ४२ ॥

पदच्छेदः ।

यत्, सारभूतम्, अखिलम्, कथितम्, मया, ते, न,
त्वम्, न, मे, न, महतः, न, गुरुः, न, शिष्यः ।
स्वच्छन्दरूपसहजम्, परमार्थतत्त्वम्, ज्ञानामृतम्, समर-
सम्, गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

मया = मैं

ते = तुम्हारे प्रति

अखिलम् = संपूर्ण

यत् = जो

सारभूतम् = सारभूत

कथितम् = कथन कियाहै वह ... व

त्वम् न = तेरा नहीं है

मे न = मेरा भी नहीं है

महतः = महत्तर मैं भी

न = नहीं है

न गुरुः = न तो गुरु है

न शिष्यः = न शिष्य है

स्वच्छन्द- } = स्वच्छन्दरूप
रूपसहजम् } स्वाभाविक

परमार्थतत्त्वम् = परमार्थतत्त्वस्वरूप

ज्ञानामृतम् = ज्ञानस्वरूप

समरसम् = एकरस

गगनोपमोऽहम् = आकाशवत् मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जोकि सारभूत था सो तो संपूर्ण तुम्हारे प्रति हृषिके कथन करदियाहै, परन्तु वह सब वास्तवसे न तो तुम्हारा है न मेरा है और वास्तवसे तुम हम' भी नहीं है और न कोई महत्त्वादि है और न तो कोई परमार्थसे गुरु'ह और न कोई शिष्य ही है किन्तु एक ही स्वच्छन्दरूप परमार्थस्वरूप तुम ही हो और ज्ञानस्वरूप अमतरूप एकरस आकाशवत् मैं हूँ ऐसा तुम चिन्तन करो ॥ ४२ ॥

कथमिह परमार्थ तत्त्वमानन्दरूप

कथमिह परमार्थ नैवमानन्दरूपम् ।

कथमिह परमार्थ ज्ञानविज्ञानरूपं

यदि परमहमेकं वर्तते व्योमरूपम् ॥ ४३ ॥

पदच्छेदः ।

कथम्, इह, परमार्थम्, तत्त्वम्, आनन्दरूपम् कथम्,
इह, परमार्थम्, न, एवम्, आनन्दरूपम् । कथम् इह,
परमार्थम्, ज्ञानविज्ञानरूपम्, यदि, परम् अहम् एकम्,
वर्तते, व्योमरूपम् ॥

पदार्थः ।

इह = इस आत्मामें
परमार्थम् = परमार्थ और
तत्त्वम् = तत्त्व यथार्थ
कथम् = कैसे रहता है
आनन्दरूपम् = आनन्दरूप
कथम् = कैसे रहता है
इह = इस आत्मामें
आनन्द- } = आनन्दरूपता और
रूपम् }
परमार्थम् = परमार्थता
न एवम् = इस प्रकार नहीं है

इह = इस आत्मामें
परमार्थम् = परमार्थ
ज्ञानविज्ञान- } = ज्ञानविज्ञानरूपता
रूपम् }
कथम् = किस प्रकार है किन्तु नहीं है
यदि = जब कि
परम् = उरुकृष्ट
एकम् = एक ही
व्योमरूपम् = व्यापक
अहम् = म
वर्तते = वर्तता हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—यदि हम एक ही आकाशवत् व्यापक और श्रेष्ठ वर्तमान हैं तो फिर हमारे आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्त्व कैसे वर्तताहै और आनन्दरूपता कैसे रहती है और परमार्थतत्त्व और आनन्दरूपता कैसे नहीं रहती है और ज्ञानविज्ञानरूपता कैसे बनती है, किन्तु किसी प्रकारसे भी नहीं बनती है ॥ ४३ ॥

दहनपवनहीनं विद्धि विज्ञानमेक-

मवनिजलविहीनं विद्धि विज्ञानरूपम् ।

समगमनविहीनं विद्धि विज्ञानमेकं

गगनमिव विशालं विद्धि विज्ञानमेकम् ४४ ॥

पदच्छेदः ।

इह, न, दहन-पवनहीनम्, विद्धि, विज्ञानम्, एकम्,
अवनिजलविहीनम्, विद्धि, विज्ञानरूपम्, समगमन
विहीनम्, विद्धि, विज्ञानम्, एकम्, गगनम्, इव,
विशालम्, विद्धि, विज्ञानम्, एकम् ॥

विज्ञानम् = विज्ञानस्वरूप आत्माको	समगमन- } = बराबर चलनेसे भी
एकम् = एकही	विहीनम् } रहित और
विद्धि = तू जान फिर तिसको	विज्ञानम् = विज्ञानस्वरूप
दहनपव- } अग्नि धार वायुसभी रहित	एकम् = एक आत्माकोही
नहीनम् }	विद्धि = तू जान और
विद्धि = तू जान फिर	गगनम् = आकाशकी
अवनिजल- } = पृथिवी और जलसे	इव = तरह
विहीनम् } रहित	विशालम् = विस्तारवाला
एकम् = एक ही	विज्ञानम् = विज्ञानस्वरूप
विज्ञानम् = विज्ञानस्वरूप आत्माको	एकम् = एक आत्माको
विद्धि = तू जान	विद्धि = तू जान

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—वह आत्मा ज्ञानस्वरूप आकाशवत् निर्मल पृथिवी, अग्नि, वायु, जलादिकोसे रहित है और एक है और वह मेरा अपना व्याप्त है, ऐसे तुम जानो ॥ ४४ ॥

न शून्यरूपं न विशून्यरूपं

न शुद्धरूपं न विशुद्धरूपम् ।

रूपं विरूपं न भवामि किञ्चित्

स्वरूपरूपं परमार्थतत्त्वम् ॥ ४५ ॥

पदच्छेदः ।

न, शून्यरूपम्, न, विशून्यरूपम्, न, शुद्धरूपम्, न, विशुद्धरूपम् । रूपम्, विरूपम्, न, भवामि, किञ्चित्, स्वरूपरूपम्, परमार्थतत्त्वम् ॥

पदार्थः ।

शून्यरूपम्=शून्यरूप म
न=नहीं हूँ

विशून्यरूपम्-विशेषकरके
शून्यरूपभी

न=मैं नहीं हूँ

शुद्धरूपम्=शुद्धरूप भी

न=मैं नहीं हूँ

विशुद्धरूपम्-विशेषकरके शुद्धरूपभी

न=मैं नहीं हूँ

रूपम्=रूप और

विरूपम्=विगतरूप भी

किञ्चित्=किञ्चित्

न भवामि=मैं नहीं हूँ

स्वरूपरूपम्=स्वरूपकाभीस्वरूप मैं हूँ

परमाथ-} =परमार्थसे यथार्थरूप

तत्त्वम् } मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हम शून्यरूप नहीं है और विगतरूप भी नहीं है क्योंकि वह भी हमारेमें ही कल्पित है और किसी साधनकरके मैं शुद्ध नहीं होता हूँ, और विगतरूप भी मैं नहीं हूँ अर्थात् शुद्धतत्त्व

रहित भी हम नहीं हैं और नीलयीतादिक रूपोंवाला और विगतरूप भी मैं नहीं हूँ । तात्पर्य यह है कि नीलयीतादिक रूपोंवाला पदार्थ जट होता है सो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं चेतन हूँ और विगतरूप शून्य होता है, सो मैं नहीं हूँ क्योंकि सच्चिदानन्दरूप मैं हूँ, और परमार्थस्वरूप भी मैं हूँ ॥४५॥

सुञ्च सुञ्च हि संसारं त्यागं सुञ्च हि सर्वथा ।

त्यागात्यागविषं शुद्धममृतं सहजं ध्रुवम् ॥ ४५ ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म-
संवित्युपदेशो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

सुञ्च, सुञ्च, हि, संसारम्, त्यागम्, सुञ्च, हि, सर्वथा ।

त्यागात्यागविषम्, शुद्धम्, अमृतम्, सहजम्, ध्रुवम् ॥

पदार्थः ।

संसारम् = संसारको

हि = विश्वकर्माके

सुञ्च = छोड़े

सुञ्च = छोड़े

त्यागम् = त्यागको भी

हि = विश्वकर्माके

सर्वथा = सर्व प्रकारसे

सुञ्च = छोड़े

त्यागात्याग- } = त्याग और त्याग-
विषम् } भावरूपों विषकों भी

सुञ्च = छोड़े क्योंकि

सहजम् = स्वभावसे ही

शुद्धम् = तू शुद्ध है

अमृतम् = अमृतरूप है

ध्रुवम् = नित्य है ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—हे मुमुक्षुजन ! संसारका तू त्याग करदे फिर उस त्यागका भी त्याग करदे और त्याग तथा त्यागके अभावको भी विषरूप ज्ञानकरके त्यागदे । तात्पर्य यह है कि, त्यागका जो कि अभिमान है कि, मैं त्यागी हूँ यह भी बड़ा दुखदाई है, त्याग अत्याग दोनोंके अभिमानके त्याग-ने ही पूरा सुख मिलता है और तू स्वभावसे ही शुद्ध है अमृतरूप है और नित्य

भी है तरेसे भिन्न दूसरा न कोई जीव है और न ईश्वर है किन्तु तू ही सर्व रूप सबका अधिष्ठान है, ऐसा निश्चय कर ॥ ४६ ॥

इति श्रीमद्व्यवहृतगीतायां श्राभिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित-
परमानन्दीभाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ४.

अवधूत उवाच ।

नावाहनं नैव विसर्जनं वा
पुष्पाणि पत्राणि कथं भवन्ति ।
ध्यानानि मन्त्राणि कथं भवन्ति
समासमं चैव शिवार्चनं च ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

न, आवाहनम्, न, एव, विसर्जनम्, वा, पुष्पाणि, पत्राणि,
कथम्, भवन्ति । ध्यानानि, मन्त्राणि, कथम्, भवन्ति, समा-
समम्, च, एव, शिवार्चनम्, च ॥

पदार्थः ।

आवाहनम् = व्यापक चेतनका आवा-
न = नहीं होता है

हनं ही

एवं = निश्चयकरके

विसर्जनम् = विसर्जन भी

न = नहीं होसकता है

पुष्पाणि = पुष्प

वा = अथवा

पत्राणि = पत्र

कथम् = किस प्रकारसे

भवन्ति = समर्पण होते हैं

ध्यानानि = ध्यान

च = और

मन्त्राणि = मन्त्र

कथम् = किस प्रकार

भवन्ति = होसकते हैं

च = और

एव = निश्चयकरके

समासमम् = सर्वत्र समदृष्टि रखनी ही

शिवार्चनम् = कल्याणरूप चेतनका

पूजन है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जब कि वह चेतन आत्मा सर्वत्र व्यापक कल्याणस्वरूप ब्रह्माण्डभरमें एकही है, तब तिसका पूजन और आवाहन तथा विसर्जन कैसे बनसकताहै क्योंकि आवाहन और विसर्जन उसका होताहै जो कि एकदेशमें हो एकदेशमें नहीं अर्थात् परिच्छिन्न देहधारी हो ऐसा तो वह आत्मा नहीं है किन्तु सर्वत्र एकरस पूर्ण है इसवास्ते उसका आवाहन और विसर्जनभी नहीं होताहै और पूजाभी अपनेसे भिन्नकी होतीहै वह रूपसे भिन्न भी नहीं है इसवास्ते उसकी पूजा भी नहीं होसकतीहै । फिर पुंयपत्रादिक उसको दियेजाते हैं कि जिसके घ्राणादिक इन्द्रियें हों देहधारी हो सो उसके तो घ्राणादिक इन्द्रियें भी नहीं हैं इसवास्ते पुण्यपत्रादिकोंका समर्पण करना भी नहीं बनताहै अज्ञानी लोग कहदेतेहैं कि, वह वासनाका भूखा है परन्तु उनको वासनाके अर्थका ज्ञान नहीं होताहै । वासना नाम शुभ अशुभ कर्मोंके संस्कारोंका है सो संस्कार देहधारी परिच्छिन्नमें ही रहतेहैं, देहसे रहित व्यापकमें वासना नहीं रहतीहै । फिर जब कि, उसका आवाहन और विसर्जन ही नहीं बनताहै तब फिर ध्यान और मन्त्र कैसे बनसकतेहैं क्योंकि साकार वस्तुका ही ध्यान होसकताहै निराकारतक तो मन बुद्धि पहुँचही नहीं सकतेहैं क्योंकि मन बुद्धि आदिक सब साकार है दूसरे जड हैं । जडचेतनका किसी प्रकारसे भी विषय नहीं होसकताहै इस वास्ते ध्यान और मन्त्र भी नहीं बनते हैं अतएव सर्वत्र समदृष्टि करनी अर्थात् सबमें एक आत्माको जान करके किसी जीवको भी न स्ताना इसीका नाम शिवपूजन है ॥ १ ॥

न केवलं बन्धविवन्धमुक्तो

न केवलं शुद्धविशुद्धमुक्तः ।

न केवलं योगवियोगमुक्तः

स वै विमुक्तो गगनोपमोऽहम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

न, केवलम्, बन्धविवन्धमुक्तः, न, केवलम्, शुद्धविशुद्ध-

मुक्तः । न, केवलम्, योगवियोगमुक्तः, सः, वै, विमुक्तः,
गगनोपमः, अहम् ॥

पदार्थः ।

केवलम्=केवल

बन्धवित्र- } = सामान्यविशेष
बन्धमुक्तः } रूपी बन्धसे रहित
न=मैं नहीं हूँ किन्तु हूँ

केवलम्=केवल

शुद्धविशु- } = सामान्यविशेषरूपा
द्धमुक्तः } शुद्धविशुद्धिसे रहित
न=मैं नहीं हूँ किन्तु हूँ

केवलम्=केवल

योगवियो- } = सामान्यविशेषयोगसे
गमुक्तः } रहित भी

न=मैं नहीं हूँ किन्तु हूँ

वै=निश्चयकारके

सः=सो मैं

विमुक्तः=मुक्तरूप हूँ

गगनो- } =गगनकी उपमावाला
पमः }

अहम्=मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—दो प्रकारका बन्ध है एक तो सामान्यरूपसे बन्ध है दूसरा विशेषरूपसे बन्ध है । प्राणिमात्रको जो कि अज्ञानकृत बन्ध है सो सामान्यबंध है और स्त्रीपुत्रादिकोंमें जो कि अहन्ताममतारूपी बन्ध है सो विशेष बंध है सो इन दोनों प्रकारके बन्धोंसे मुक्त नहीं हूँ किन्तु अवश्य मुक्त हूँ शुद्धि भी सामान्य विशेषरूपसे अर्थात् आन्धन्तर और ब्राह्म मेदसे दो प्रकारकी है सो मैं दोनों प्रकारकी शुद्धिसे भी रहित हूँ क्योंकि मेरा आत्मा निव्व शुद्ध है और योगवियोगसे अर्थात् संयोगवियोगसे भी मैं रहित हूँ क्योंकि संयोगवियोग भी साकारके होते हैं निराकारके नहीं होते हैं । सो मेरा आत्मा निराकार है किन्तु गगनकी उपमावाला मैं हूँ ॥ २ ॥

संजायते सर्वमिदं हि तथ्यं

संजायते सर्वमिदं वितथ्यम् ।

एवं विकल्पो मम नैव जातः

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

संजायते, सर्वम्, इदम्, हि, तथ्यम्, संजायते, सर्वम्,
इदम्, वितथ्यम् । एवम्, विकल्पः, मम, नैव, जातः,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

इदम्=यह दृश्यमान

सर्वम्=संपूर्ण जगत्

हि=निश्चयकरके

तथ्यम्=सत्य ही

संजायते=उत्पन्न होता है

इदम्=यह दृश्यमान

सर्वम्=संपूर्ण जगत्

वितथ्यम्=मिथ्या ही

संजायते=उत्पन्न होता है

एवम्=इत प्रकारका

विकल्पः=विकल्प ॥ ४

मम=मेरेको

एव=निश्चय करके

न जातः=उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि

अहम्=मैं

अनामयः=रोगसे रहित और

स्वरूपनि- } =स्वरूपसे ही मुक्त रूप

र्वाणम् } हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—यह जितना कि दृश्यमान जगत् है, सो संपूर्ण मिथ्या ही उत्पन्न होता है और फिर यह संपूर्ण जगत् विशेष करके ही मिथ्या उत्पन्न होता है अथवा सत्य ही उत्पन्न होता है इस प्रकारका विकल्प भी मेरेको कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि मैं स्वरूपसे ही मुक्त रूप हूँ, रोगसे रहित हूँ अर्थात् जन्ममरणादि रोग मेरेमें नहीं है ॥ ३ ॥

न साजनं चैव निरञ्जनं वा

न चान्तरं वापि निरन्तरं वा ।

अन्तर्विभिन्नं न हि क्षे विभाति

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

न, साञ्जनम्, च, एव, निरञ्जनम्, वा, न, च, अन्तरम्,
वा, अपि, निरन्तरम्, वा । अन्तर्विभिन्नम्, न, हि, मे,
विभाति, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

साञ्जनम्=मायामलके सहित

एव=निश्चयकरके

न=मैं नहीं हूँ

च वा=और

निरञ्जनम्=मायामलके रहित भी

न=मैं नहीं हूँ

वा=अथवा

वा अपि=निश्चयकरके

अन्तरम्=व्यवधानसहित

वा=अथवा

निरन्तरम्=व्यवधान रहित भी

न च=मैं नहीं हूँ

अन्तर्वि-
भिन्नम् } =व्यवधान और भेद में

मे=मेरेको

न हि=नहीं

विभाति=मान होता है क्योंकि

स्वरूपनि-
र्वाणम् } =स्वरूपसे ही
में मुक्तरूप हूँ

अनामयः=रोगसे रहित

अहम्=मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हम मायारूपी अञ्जन जो मूढ है तिसके सहित
नहीं हैं क्योंकि तीनों कालमें माया हमारेमें वास्तवसे नहीं है और मायारूपी
मलके रहितभी नहीं है क्योंकि हमारेमें ही माया कलित है, तब सहित
और रहित कैसे हम कहसकतेहैं, किन्तु कदापि भी नहीं । फिर हमारेमें
अन्तर अर्थात् व्यवधान और व्यवधानसे रहितपना भी नहीं बनता है ।
व्यवधान और भेद सर्वव्यापकमें हमको मान भी नहीं होताहै क्योंकि हम
जन्मादिरोगसे रहित मुक्तस्वरूप हैं ॥ ४ ॥

अबोधबोधो मम नैव जातो बोधस्वरूपं मम नैव
जातम् । निर्बोधबोधं च कथं वदामि स्वरूपनिर्वा-
णमनामयोऽहम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

अबोधबोधः, मम, न, एव, जातः, बोधस्वरूपम्, मम, वैव, जातम् । निर्बोधबोधम्, च, कथम्, वदामि, स्वरूपनिर्वा-
अहम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अबोधबोधः=बोधरहितता बोध
मम=मेरेको
एव=निश्चयकरके
न जातः=नहीं हुआ
बोधस्व- } =मैं बोधस्वरूप हूँ ऐसा
रूपम् } ज्ञान भी
मम=मेरेको
एव=निश्चयकरके
न जातम्=नहीं हुआ है

च=और
निर्बोध- } =बोधसे रहित बोधवाला
बोधम् } अपनेको
कथम्=किस प्रकार
वदामि=कहूँ क्योंकि मैं
स्वरूपनि- } =स्वरूपसे ही मुक्त-
र्वाणम् } रूप हूँ
अनामयः=रोगसे रहित
अहम्=मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—बोधनाम ज्ञानका है (न बोधः अबोधः) न जो
बोधे ज्ञान उर्माका नाम अबोध अर्थात् अज्ञान है सो अज्ञानका जो बोध
ज्ञान सो भी मेरेको नहीं है क्योंकि अज्ञान जो है सो शुद्धस्वरूप आत्मानें
तीनों काठमें नहीं है जो वस्तु तीनों काठमें है ही नहीं उसका ज्ञान कैसे
क्षेपकताहै किन्तु कदापि भी नहीं मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान भी मेरेको
नहीं हुआ ऐसा ज्ञान तब होवे जो ज्ञान मेरे भिन्न होवे जब ज्ञान अपनेसे
रमिन्न नहीं है तब हम कैसे कह सकते हैं कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, फिर मैं
निर्बोधबोध हूँ अर्थात् ज्ञानसे रहित मैं ज्ञान हूँ ऐसे भी मैं कैसे हूँ ऐसा
कथन भी नहीं बनताहै क्योंकि ज्ञानसे रहित तो जड होताहै वह ज्ञानरूप
रक्त होसकताहै इसकास्ते मैं मोक्षरूप रोगसे रहित हूँ ॥ १ ॥

न धर्मयुक्तो न च पापयुक्तो

न बन्धयुक्तो न च मोक्षयुक्तः ।

युक्तं त्वयुक्तं न च मे विभाति

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

न, धर्मयुक्तः, न, च, पापयुक्तः, न, बन्धयुक्तः, न, च, मोक्षयुक्तः । युक्तम्, तु, अयुक्तम्, न, च, मे, विभाति, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

धर्मयुक्तः=धर्म करके युक्त भी मैं
न=नहीं हूँ
पापयुक्तः=पापकरके भी युक्त मैं
न च=नहीं हूँ
बन्धयुक्तः=बन्ध करके युक्त भी मैं
न=नहीं हूँ
मोक्षयुक्तः=मोक्षकरके भी युक्त मैं
न=नहीं हूँ
च=पुनः

युक्तम्=युक्तपना और
अयुक्तम्=अयुक्तपना
मे=मेरेको
न च=नहीं
विभाति=भाज होताहै
स्वरूपनि- } =मोक्षस्वरूप
र्वाणम् }
अनामयः=रोगसे रहित
अहम्=मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हम मुक्तरूप हैं और जन्ममरणादि रोगसे भी हम रहित हैं इसवास्ते हमको यह मान नहीं होताहै कि, हम धर्मकरके युक्त हैं या पापकरके युक्त हैं या बन्धकरके युक्त हैं या मोक्ष करके युक्त हैं क्योंकि जीवन्मुक्तकी दृष्टिमें एक चेतनसे अतिरिक्त अन्य नहीं दिखाताहै ॥ ६ ॥

परापहं वा न च मे कदाचि-

न्मध्यस्थभावो हि न चारिमित्रम् ।

हिताहितं चापि कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

परापरम्, वा, न, च, मे, कदाचित्, मध्यस्थभावः, हि,
न, च, अरिमित्रम् । हिताहितम्, च, अपि, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

वा = अथवा

परापरम् = पर अपर भाव भी

मे = मेरा

कदाचित् = कदाचित् भी :

न च = नहीं है

मध्यस्थ- } = मध्यस्थभाव भी
भावः }

हि = निश्चयकारके

न च = हमारा नहीं है

अरिमित्रम् = शत्रुमित्रभी

न च = मेरा नहीं है

च = और

हिताहितम् = हित अहित भी

अपि = निश्चयकारके

कथम् = कैसे मैं अपने

वदामि = कथन करो क्योंकि

स्वरूपनि- } = स्वरूपसे जीवन्मुक्त

र्वाणम् } और

अनामयोऽहम् = रागसे रहित मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—कदाचित् भी पर अपर मेरेमें नहीं है क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ और मध्यस्थभाव भी मेरेमें नहीं है क्योंकि मैं द्वैतसे रहित हूँ और मैं अपना हितकारी अहितकारी भी नहीं कहसकताहूँ जब कि मेरेसे बिना दूसरा कोई भी नहीं है तब अहितकारी और हितकारी मैं कैसे कहूँ और द्वैतके अभाव होनेसे मेरा कोई शत्रु और मित्र भी नहीं है क्योंकि मैं जन्मादिक रोगसे रहित मुक्तस्वरूप हूँ ॥ ७ ॥

नोपासको नैवमुपास्यरूपं

न चोपदेशो न च मे क्रिया च ।

संवित्स्वरूपं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

न, उपासकः, न, एवम्, उपास्यरूपम्, न, च, उपदेशः,
न, च, मे, क्रिया, च । संवित्स्वरूपम्, च, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

उपासकः = उपासक

न = मैं नहीं हूँ

एवम् = इसी प्रकार

उपास्यरूपम् = उपास्यरूप भी

न = मैं नहीं हूँ

मे = मेरा

उपदेशः = उपदेश भी

न च = नहीं है

च = और

क्रिया = क्रिया भी

न च = मेरेमें नहीं है

च = और

संवित्स्वरूपम् = ज्ञानस्वरूप भी

कथम् = किस प्रकार

वदामि = मैं कथन करूँ क्योंकि

स्वरूपनिर्वाणम् = स्वरूपसे मुक्त

अनामयः = रोगसे रहित

अहम् = मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मेरेमें उपासक और उपास्यभाव भी नहीं है और उपदेश और क्रिया भी मेरेमें नहीं बनती है क्योंकि एक व्यापक चेतनमें यह सब बातें नहीं हो सकती हैं व्यापकमें क्रिया भी नहीं हो सकती है और मैं ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा कथन भी मेरेमें नहीं बनता है क्योंकि ऐसा कथन भी भेदको लेकरके ही बनता है अभेदको लेकरके नहीं बनता है क्योंकि मैं संसाररोगसे रहित मुक्तस्वरूप हूँ ॥ < ॥

नो व्यापकं व्याप्यमिहास्ति किञ्चि—

न्न चालयं वापि निरालयं वा ।

अज्ञून्यज्ञून्यं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

नो, व्यापकम्, व्याप्यम्, इह, अस्ति, किञ्चित्, न, च,
आलयम्, वा, अपि, निरालयम्, वा । अशून्यशून्यम्, च,
कथम्, वदामि, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस आत्मा ब्रह्ममें

व्यापकम्=व्यापकभाव

व्याप्यम्=व्याप्यभाव

किञ्चित्=किञ्चित् भी

न अस्ति = नहीं है

वा = अथवा

आलयम् = आश्रयपना

वा = अथवा

निरालयम् = निराश्रयपना भी

न च = नहीं है

अशून्य- } = अशून्यपना तथा शून्य
शून्यम् } पना

कथम् = किस प्रकारसे

वदामि = मैं कहूँ क्योंकि

स्वरूपनि- } = मुक्तस्वरूप और
र्वाणम् } और

अनामयः = रोगसे रहित

अहम् = मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—इस आत्मा ब्रह्ममें व्याप्यव्यापकभाव भी किञ्चित् नहीं है, क्योंकि एक ही पूर्णमें व्याप्यव्यापकभाव भी किसी प्रकारसे नहीं बनता है और आश्रय निराश्रयभाव भी एकमें नहीं बनता है और शून्यका अभाव तथा शून्यता भी उसमें नहीं बनती है क्योंकि वह शून्यता भी साक्षी है सो मैं हूँ नित्यमुक्त और रोगसे रहित भी हूँ ॥ ९ ॥

न ग्राहको ग्राह्यकमेव किञ्चि-

न्न कारणं वा मम नैव कार्यम् ॥

अचिन्त्यचिन्त्यं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

न, ग्राहकः, ग्राह्यकम्, एव, किञ्चित्, न, कारणम्, वा,
मम, न, एव, कार्यम् । अचिन्त्यचिन्त्यम्, च, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

ग्राहकः = ग्रहण करनेवाला
एव = निश्चयकरके
मे = हमारा
किञ्चित् = किञ्चित् भी
न = नहीं है
वा = अथवा
मम = मेरा
एव = निश्चयकरके
कारणम् = कारण और
कार्यम् = कार्य भी

न = नहीं है
ग्राह्यकम् = ग्रहण होनेवाला
अचिन्त्य- } = जो कि मनकरके भी
चिन्त्यम् } नहीं चिन्तन किया जात है
कथम् = उसको किस प्रकार
वदामि = मैं कथन करू क्योंकि
स्वरूपनिर्वा- } = मुक्तस्वरूप और
णम् }
अनामयः = संसाररोगसे रहित
अहम् = मैं हूँ ।

भावार्थः ।

दत्तत्रियजी कहते हैं—हमारे प्राण और ग्राहकमो किञ्चित् भी नहीं हैं और मेरेमें कारण कार्यभाव भी किञ्चित् नहीं है क्योंकि वह सब भेदमें ही बनतेहैं एक आत्मामें नहीं बनते हैं । वह आत्मा कैसा है जिसका स्वरूप मन वाणी करके भी चिन्तन नहीं कियाजाता है उसका हम किसकरके कथन करें ? वह मुक्तस्वरूप संसाररोगसे रहित है सोई मैं हूँ ॥ १० ॥

न भेदकं वापि न चैव भेद्यं

न वेदकं वा मम नैव वेद्यम् ।

गतागतं ताल कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ ११ ॥

(१५८)

अव्यूतगीता ।

पदच्छेदः ।

न, भेदकम्, वा, अपि, न, च, एव, ज्ञेयम्, न, वेदकम्,
वा, मम, न, एव, वेदम् । गतागतम्, तात, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयोः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अपि=निश्चयकरके

भेदकम्=मैं भेदका करनेवाला भी

न=नहीं

वा=अथवा

एव=निश्चयकरके

ज्ञेयम्=भेदके योग्य भी

न च=मैं नहीं हूँ

मम=मेरेमें

वेदकम्=जाननापना

वा=अथवा

वेद्यम्=जानने योग्य भी

न=नहीं है

तात=हे तात !

गताग- } =जो कि व्यतीत होगया है

तम् } =जो कि आनेवाला है उसको

कथम्=कित्त प्रकार

वदामि=मैं कहूँ

स्वरूपनिर्वाणम्=मकरूप

अनामयो- } =रोगसे रहित मैं हूँ
ऽहम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—न तो कोई भेदक ही है अर्थात् भेद करनेवाला भी कोई नहीं है और न कोई पदार्थ भेद होनेके योग्य ही है और न कोई जाननेवाला ज्ञान ही है और न कोई जाननेके योग्य ही है हे तात ! वास्तवसे न तो कोई जाता ही है और न कोई आता ही है तब फिर हम कैसे जानेआनेको कहें क्योंकि हमारेमें तो कुछ बनता ही नहीं है हम तो मुक्तस्वरूप संसाररोगसे रहित हैं ॥ ११ ॥

न चास्ति देहो न च मे विदेहो

बुद्धिर्मतो मे न हि चेन्द्रियाणि ।

रागो विरागश्च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

न, च, अस्ति, देहः, न, च, मे, विदेहः, बुद्धिः, मनः,
मे, नहि, च, इन्द्रियाणि । रागः, विरागः, च, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

मे=हमात्मा

देहः=शरीर भी

न च अस्ति=नहीं है

मे=हम

विदेहः=देहसे रहित भी

न च=नहीं ह

च=और

बुद्धिः=बुद्धि तथा

मनः=मन भी

मे=मुझमें

न हि=नहीं है

च=और

इन्द्रियाणि=इन्द्रिय भी

मे न च=मेरे नहीं है

रागः=पदार्थोंमें राग

च=और

विरागः=विराग

कथम्=किस प्रकार

वदामि=मैं कथन करूं ?

स्वरूपनिर्वाणम्=मुक्तरूप

अनामयोऽहम्=रोगसे रहित मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हम न तो शरीरके सहित हैं और न शरीरसे रहित हैं क्योंकि आत्मा देहसे रहित तो है परन्तु संपूर्ण शरीर आत्मामें ही कल्पित है इन कल्पित शरीरोंको लेकर रहित भी हम नहीं हैं और मन बुद्धि इन्द्रियादिक भी हमारे नहीं है क्योंकि यह भी सब कल्पित हैं तब फिर मैं रागविरागको कैसे कथन करूं ! जब कि कोई उत्पत्तिवाला जड़ पदार्थ हमारा नहीं है तब हमारा किसीमें राग और किसीमें विराग कहना भी नहीं बनता है किन्तु मैं मुक्तस्वरूप संसाररूपी रोगसे रहित हूँ ॥ १२ ॥

उल्लेखमात्रं न हि भिन्नमुच्चैरुल्लेखमात्रं न तिरोहितं वै ।

समासमं मित्रकथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् १३

पदच्छेदः ।

उल्लेखमात्रम्, न, हि, मित्रम्, उच्चैः, उल्लेखमात्रम्, न
तिरोहितम्, वै । समासम्, मित्र, कथम्, वदामि, स्वरूप-
निर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

उल्लेखमा-	} =किञ्चिन्मात्र भी जीव ब्रह्मका	न वै=वह नहीं है
त्रम्		मित्र=हे मित्र !
मित्रम्=मेद		समासम्=सम असम
न हि=नहीं है		कथम्=कैसे
उच्चैः=उड़े भारी		वदामि=मैं तिलकी कहूँ क्योंकि
उल्लेखमात्रम्=उल्लेखमात्रकरके भी		स्वरूपनिर्वाणम्=स्वरूपसे मुक्त
तिरोहितम्=छिपा हुआ		अनामयोऽहम्=रोगसे रहित मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—वह आत्मा केवल उल्लेखमात्र ही नहीं है किन्तु उल्लेखमात्रसे भी वह मित्र है अर्थात् उसका लिखनामात्र ही नहीं होता है किन्तु वह छिदनेमें भी नहीं आता है परन्तु ऊँचा लेख जो कि वेदका है उसीमें वह तिरोहित छिपा हुआ है इसीवास्ते हे मित्र ! उसको सम असम भी हम नहीं कहसकते हैं, क्योंकि वह आश्चर्यरूप है सोई मैं हूँ ॥ १३ ॥

जितेन्द्रियोऽहं त्वजितेन्द्रियो वा

न संयमो मे नियमो न जातः ।

जयाजयौ मित्र कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

जितेन्द्रियः, अहम्, तु, अजितेन्द्रियः, वा, न, संयमः,
मे, नियमः, न, जातः । जयाऽजयौ, मित्र, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

तु=पुनः फिर

जितेन्द्रियः=जितेन्द्रिय

अहम् = मैं

वा = अथवा

अजितेन्द्रियः = अजितेन्द्रिय

न = नहीं हूँ

मे = मुझको

संयमः = संयम

नियमः = नियम

न जातः = नहीं उत्पन्न हुआ है

मित्र = हे मित्र !

जयाजयौ = जय अजयको

कथम् = किस प्रकार

वदामि = कथन कलं क्योंकि

स्वरूपनिर्वाणम् = मुक्तरूप

निरामयोऽहम् = भोगसे रहित मैं हूँ

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं जितेन्द्रिय भी हूँ और अजितेन्द्रिय भी मैं हूँ । तात्पर्य यह है कि, इन्द्रियोंवाला इन्द्रियोंको जीतकरके जितेन्द्रिय कहाजाताहै और इन्द्रियोंको न जीतकरके अजितेन्द्रिय भी कहाजाता है जिसके इन्द्रिय ही नहीं है वह अर्थसेही जितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय भी कहाजाताहै क्योंकि इन्द्रियोंसे बिना जितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय व्यवहार ही नहीं होता है और संयम नियम व्यवहार भी नहीं होताहै इसवास्ते स्वामीजी कहते हैं कि, हमारा संयम नियम भी नहीं हुआहै और जय अजयको भी मैं नहीं कहसकताहूँ क्योंकि यह भी इन्द्रियोंके ही अधीन है किन्तु मैं मुक्तस्वरूपसंसार-रोगसे रहित हूँ ॥ १४ ॥

अमूर्तमूर्तिर्न च मे कदाचि-

दाद्यन्तमध्यं न च मे कदाचित् ।

बलाबलं मित्र कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

अमूर्तमूर्तिः, न, च, मे, कदाचित्, आद्यन्तमध्यम्, न, च, मे, कदाचित् । बलाबलम्, मित्र, कथम्; वदामि, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

मे=मैं	मित्र=हे मित्र
अमूर्तमूर्तिः=मूर्तिसे रहित मूर्तिवाला	बलाबलम्=बल और निर्बलताको
कदाचित्=कदाचित् भी	अहम्=मैं
न च=नहीं हूँ	कथम् = किस प्रकार
आद्यन्त- } =आदि और अन्त तथा	वदामि = कथन करूं क्योंकि
मध्यम् } मध्य भी	स्वरूपानि } = मैं स्वरूपसे ही मुक्त-
कदाचित् = कदाचित्	र्वाणम् } स्वरूप
मे = मेरे	अनाम- } =संसाररोगसे रहित हूँ
न च = नहीं है	योहम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मैं मूर्तिसे रहित और मूर्तिवाला भी नहीं हूँ क्योंकि ऐसा व्यवहार भी द्वैतको ही लेकरके होताहै और न मेरा कोई आदि मध्य और अन्त ही है क्योंकि यह सब व्यवहार भी द्वैतको ही लेकरके होताहै अद्वैतमें नहीं होताहै, हे मित्र ! न तो मैं बली हूँ, और न मैं दुर्बल हूँ, दूसरेकी अपेक्षासे बली दुर्बल व्यवहार भी होताहै एकमें नहीं होताहै सो मैं मुक्त-स्वरूप संसाररूपी रोगसे रहित हूँ ॥ १५ ॥

मृतामृतं वापि विषाविषं च

संजायते तात न मे कदाचित् ।

अशुद्धशुद्धं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

मृतामृतम्, वा, अपि, विषाविषम्, च, संजायते, तात, न, मे, कदाचित् । अशुद्धशुद्धम्, च, कथम्, वदामि, स्वरूपनिर्वाणम् अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

तात=हे तात !

मे=मेरेको

मृतामृतम्=मरना न मरना

वा=अथवा

अपि=निश्चयकरके

विषाविषं च=विष और अविष

संजायते=उत्पन्न

कदाचित्=कदाचित् भी

न=नहीं होतेहैं

अशुद्ध- } =अशुद्ध और शुद्ध
शुद्धं च }

कथम्=किस प्रकार

वदामि=मैं कथन करूं क्योंकि

स्वरूपनिर्वाणम्=मुक्तरूप

अहम्=मैं

अनामयः=रोगसे रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हे तात ! मेरेमें मरना, जीना, विष, अमृत और शुद्ध अशुद्ध यह सब कदाचित् भी नहीं हैं क्योंकि मैं मुक्तरूप संसाररोगसे रहित हूँ ॥ १६ ॥

स्वप्नः प्रबोधो न च योगमुद्रा

नक्तं दिवा वापि न मे कदाचित् ।

अतुर्यतुर्यं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

स्वप्नः, प्रबोधः, न, च, योगमुद्रा, नक्तम्, दिवा, वा, अपि, न, मे, कदाचित् । अतुर्यतुर्यम्, च, कथम्, वदामि, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

मे=मेरेको
 वा अपि=निश्चयकरके
 कदाचित्=कदाचित् भी
 स्वप्नः = स्वप्न और
 प्रबोधः = जाग्रत्
 न च=नहीं होते हैं
 योगमुद्रा=योगकी मुद्रा और
 नक्तम् = रात्रि और

दिवा = दिन भी नहीं होते हैं
 अतुर्यतुर्यश्च = अतुरीया और तुरी-
 याको
 कथम् = किस प्रकार
 वदामि = मैं कहूँ
 स्वरूपनिर्वाणम् = मुक्तस्वरूप
 अहम् = मैं
 अनामयः = रोगसे रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—न तो मेरेमें जाग्रत् है, न स्वप्न है, न योगमुद्रा है, न दिन है, न रात्रि है, न तुरीया है, न अतुरीया है, वयोंकि मैं मुक्तस्वरूप हूँ ॥१७॥

संविद्धि मां सर्वविसर्वमुक्तं
 माया विमाया न च मे कदाचित् ।
 संध्यादिकं कर्म कथं वदामि
 स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

संविद्धि, माम्, सर्वविसर्वमुक्तम्, माया, विमाया, न,
 च, मे, कदाचित् । सन्ध्यादिकम्, कर्म, कथम्, वदामि,
 स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

माम्=मुझको

सर्वविसर्व- } =सर्व और सर्वसे
मुक्तम् } रहित

संविद्धि=सम्यक् जान तू

मे=मुझको

माया विमाया=माया विमाया

कदाचित् = कदाचित् भी

न च = नहीं व्यापसकते हैं

सन्ध्यादिकम् = सन्ध्याआदिक

कर्म = कर्म

कथम् = किस प्रकार

वदामि = मैं कथन करूं

स्वरूपनिर्वाणम् = स्वरूपसे मुक्त

अनामयोऽहम् = रोगसे रहित हूँ ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मुझको संपूर्ण प्रपंचको, सहित और संपूर्ण प्रपंचसे रहित भले प्रकारसे तू जान और मायासे और मायाके कार्यसे भी रहित जान और सन्ध्याआदिक कर्मोंके करनेसे भी तू मेरेको रहित ही जान क्योंकि, मैं मुक्तस्वरूप संसाररोगसे रहित हूँ ॥ १८ ॥

संविद्धि मां सर्वसमाधियुक्त

संविद्धि मां लक्ष्यविलक्ष्यमुक्तम् ।

योगं वियोगं च कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

संविद्धि, माम्, सर्वसमाधियुक्तम्, संविद्धि, माम्, लक्ष्य-
विलक्ष्यमुक्तम् । योगम्, वियोगं, च, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

माम् = मेरेको	योगं च = योग और
सर्वसमाधि- } = संपूर्ण समाधिकरके	वियोगम् = वियोगको
युक्तम् } युक्त	कथम् = किस प्रकार
संविद्धि = सम्यक् तू जान	वदामि = मैं कहूँ
माम् = मेरेको	स्वरूपनिर्वा- } = स्वरूपसे मुक्त और
लक्ष्यविलक्ष्य- } = लक्ष्य विवक्ष्य	णम् }
मुक्तम् } रहित	अनामयः = संसाररोगसे रहित
संविद्धि = सम्यक् जान तू	अहम् = मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—संपूर्ण समाधियोंकरके मैं युक्त हूँ, क्योंकि सबका लय मेरेमें ही होताहै और संपूर्ण इन्द्रियादिकोंके वक्ष्यभाव और विगतलक्ष्य-भावसे भी मैं रहित हूँ और योगकरके संयोग और वियोग इन दोनोंमें भी मैं रहित हूँ क्योंकि एकामें संयोग वियोग दोनों बनते नहीं हैं क्योंकि मैं मक्तस्वरूप जन्ममरणरूपी रोगसे रहित हूँ ॥ १९ ॥

मूर्खोऽपि नाह न च पण्डितोऽहं

मौनं विमौनं न च मे कदाचित् ।

तर्कं वितर्कञ्च कथं वदाम

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

मूर्खः, अपि, न, अहम्, न, च, पण्डितः, अहम्, मौनम्, विमौनम्, न, च, मे, कदाचित् । तर्कम्, वितर्कम्, च, कथम्, वदामि, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

आपि=निश्चयकरके
 अहम्=मैं
 मूर्ख=मूर्ख
 न=नहीं हूँ
 अहम्=मैं
 पण्डितः=पंडित भी
 न च=नहीं हूँ
 मौनम्=मौनपना
 विमौनम्=विगतमौन

मे=मुझमें
 कदाचित्=कदाचित् भी
 न च=नहीं है
 तर्क च=तर्क और
 वितर्कम्=वितर्कको
 कथम्=किस प्रकार
 वदामि=मैं कथन करूँ
 स्वरूपनिर्वाणम्=मुक्तस्वरूप मैं
 अनामयोऽहम्=रोगसे रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं मूर्ख नहीं, मैं पण्डित भी नहीं, मैं मितभाषी तथा मौनी भी नहीं हूँ । तर्क वितर्क कुछ भी मैं नहीं करता, मैं आत्माराम और रोगरहित ब्रह्म हूँ ॥ २० ॥

पिता च माता च कुलं न जाति-
 जन्मादिमृत्युर्न च मे कदाचित् ।
 स्नेहं विमोहं च कथं वदामि
 स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

पिता, च, माता, च, कुलम्, न, जातिः, जन्मादिमृत्युः, न,
 च, मे, कदाचित् । स्नेहम्, विमोहम्, च, कथम्, वदामि,
 स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

पिता च=पिता और

माता च=माता और

कुलम्=कुल और

जातिः=जाति भी

न=मेरे नहीं है

जन्मादि- } =जन्मादिक और

मृत्युः } मृत्युभी

मे=मेरे

कदाचित्=कदाचित् भी

न च=नहीं हैं

स्नेहं च=स्नेह और

विमोहम्=विमोहको

कथम्=किस प्रकार

वदामि=मैं कथन करूँ क्योंकि

स्वरूपनिर्वाणम्=स्वरूपसे मुक्त

अनामयो- } =रोगसे रहित मैं हूँ

ऽहम् }

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हमारा न कोई पिता है, न माता है, न कुल है, न जाति है, क्योंकि जिसके जन्मादिक होतेहैं उसीके ही माता पिता और कुल तथा जाति भी होतेहैं हमारे तो जन्मादिक और मृत्यु आदिक ही नहीं हैं इलावास्ते न तो हमारा किसीके साथ स्नेह ही है और न विशेष करके मोहही है क्योंकि हम मुक्तस्वरूप जन्मादिरोगसे रहित हैं ॥ २१ ॥

अस्तं गतो नैव सदादितोऽहं

तेजो वितेजो न च मे कदाचित् ।

सन्ध्यादिकं कर्म कथं वदामि

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

अस्तम्, गतः, न, एव, सदा, उदितः, अहम्, तेजः, वितेजः,
न, च, मे, कदाचित् । सन्ध्यादिकम्, कर्म, कथम्, वदामि,
स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

अहम्=वे	कदाचित्=कदाचित्
अस्तं गतः लयभावको	न च=नहीं है तब फिर
न=प्राप्त नहीं हूँ	सन्ध्यादिकम्=सन्ध्यादिक
एव=निश्चयकरके	कर्म=कर्मको
सदा=सर्वकाल	कथम्=किस प्रकार
उदितः=उदित हूँ	वदामि=म कथन करूं जो मेरे हैं
मे=हमारा	क्योंकि
तेजः=तेज भी	स्वरूपनिर्वाणम्=स्वरूपसे मुक्त
वितेजः=तेजरहित भी	अनामयोऽहम्=रोगसे रहित मैं हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—मैं कभी भी लयभावको प्राप्त नहीं होताहूँ किन्तु सर्वकाल मेरा उदय ही बना रहताहै और सामान्यतेज और विशेषतेज भी कदाचित् मेरेको प्रकाश नहीं करसकतेहैं तब फिर सन्ध्यादिक जो कि मन इन्द्रियादिकोंके कर्म हैं यह मेरे क्या सुधार कर सकतेहैं । किन्तु कुछ भी नहीं क्योंकि मैं बन्धनसे रहित नित्य मुक्तरूप हूँ ॥ २१ ॥

असंशयं विद्धि निराकुलं मा-

मसंशयं विद्धि निरन्तरं माम् ।

असंशयं विद्धि निरञ्जनं मां

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

असंशयम्, विद्धि, निराकुलम्, माम्, असंशयम्, विद्धि, निर-
न्तरम्, माम् । असंशयम्, विद्धि, निरञ्जनम्, माम्, स्वरूपनि-
र्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

माम्=मेरेको

असंशयम्=संशयसे रहित

निराकुलम्=मूलकारणसे रहित

विद्धि=जान तू

माम्=मेरेको

असंशयम्=संशयसे रहित

निरन्तरम्=एकरस

विद्धि=जान तू

असंशयम्=संशयसे रहित

माम् = मेरेको

निरञ्जनम्=मायामलसे रहित

विद्धि = जान तू

स्वरूपनिर्वाणम् = स्वरूपसे मुक्त

अनामयोऽहम् = रोगसे रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—वास्तवसे मेरा कोई कुछ नहीं है अर्थात् उत्पत्तिका मूल कारण मेरा कोई भी नहीं है और मैं एकरस ही सदैव रहता हूँ, घटने बढ़नेसे भी मैं रहित मायामलसे रहित हूँ किन्तु मुक्तस्वरूप ज्योंका त्यों हूँ ॥ २३ ॥

ध्यानानि सर्वाणि परित्यजन्ति

शुभाशुभं कर्म परित्यजन्ति ।

त्यागामृतं तात पिबन्ति धीराः

स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम् ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ।

ध्यानानि, सर्वाणि, परित्यजन्ति, शुभाशुभम्, कर्म, परित्यजन्ति । त्यागामृतम्, तात, पिबन्ति, धीराः, स्वरूपनिर्वाणम्, अनामयः, अहम् ॥

पदार्थः ।

धीराः=धीरपुरुष

सर्वाणि = सर्वपूर्ण

ध्यानानि=ध्यानोका

परित्यजन्ति=त्याग करदेते हे

शुभाशुभम् = शुभ अशुभ

कर्म = कर्मका भी

परित्यजन्ति = त्यागही करदेते हैं

त्यागामृतं = त्यागरूपी अमृतकोही

तात = तात

पिबन्ति = पान करते हैं

स्वरूपनिर्वाणम् = स्वरूपसे ही मुक्त

अनामयोऽहम्=संसाररोगसे मैं रहित हूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो कि धीरपुरुष आत्मज्ञानी हैं अर्थात् जीवन्मुक्त हैं आत्मानन्दमें ही मग्न हैं वह संपूर्ण ध्यान और कर्मोंका त्याग ही करदेते हैं और त्यागरूपी अमृतको ही पान करते हैं और अपनेको मुक्तरूप मानते हैं ॥२४॥

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र

छन्दो लक्षणं नहि नहि तत्र ।

समरसमग्नो भावितपूतः

प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ॥ २५ ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-

कार्तिकसंवादे स्वात्मसंवित्युपदेशे स्वरूपनि-

र्णयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

विन्दति, विन्दति, न, हि, न, हि, यत्र, छन्दः, लक्षणम्, न, हि, न, हि, तत्र । समरसमग्नः, भावितपूतः, प्रलपति, तत्त्वम्, परम्, अवधूतः ॥

पदार्थः ।

परम्=श्रेष्ठ

अवधूतः=अवधूत

समरसमग्नः=एकरस ब्रह्ममें मग्न हुआ २

तत्र=तिस ब्रह्ममें

नहि नहि=नहि लभता है २

यत्र=जिस ब्रह्ममें

छन्दः=छन्द

लक्षणं=लक्षण

विन्दति=लभता है कुछ

विन्दति=लभता है

नहि नहि=नहीं लभता है नहीं लभता है

भावितपूतः=पवित्र हुआ २

तत्त्वम्=आत्मतत्त्वको ही

प्रलपति=कथन करता है

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जीवन्मुक्त श्रेष्ठ अवधूत एकरस आत्मा आनन्दमें ही जो कि मग्न है सो तिस आत्ममें कुछ भी नहीं देखता न लभता है । जिस चेतनमें छन्दरूप मन्त्रादिक भी वास्तवसे नहीं हैं क्योंकि वह आनन्दघन हैं इसवास्ते वह आत्मतत्त्वका ही कथन करता है क्यों कि आत्मासे भिन्न उसकी दृष्टिमें दूसरा कोई भी नहीं है ॥ २९ ॥

इति श्रीमदवधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित-
परमानन्दीभाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः ५.

अवधूत उवाच ।

ओषिति गदितं गगनसमं
तत्र परापरसागरविचार इति ।
अविलासविलासनिराकरणं
कथमक्षरबिन्दुसमुच्चरणम् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

ओम्, इति, गदितम्, गगनसमम्, तत्र, न, परापरसागर-
विचारः, इति । अविलासविलासनिराकरणम्, कथम्, अक्षर-
बिन्दुसमुच्चरणम् ॥

पदार्थः ।

ओम् इति=ओम् इस प्रकार
गदितम्=उच्चारण किया हुआ
गगनसमम्=आकाशके वह तुल्य है
परापरसा- } =पर अपर और
रविचारः } सागरका विचार
इति=इस प्रकार
तत्र न=सो नहीं है

अविलास- } =विलासका अभाव
विलासनि- } और विलासका निरा-
राकरणम् } करण रूप है

अक्षरबिन्दु- } =अक्षरबिन्दुके सहि-
समुच्चरणम् } तका उच्चारण

कथम्=किस प्रकार होगा ?

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—ओम् इस प्रकार जो कि उच्चारण किया जाताहै सो ओंकार ब्रह्मरूप है, क्योंकि ब्रह्मका वाचक है, वाच्यवाचकका किसी प्रकारसे भी भेद नहीं होसकताहै, इसीवास्ते गगनतुल्य व्यापक है । उसी ओंकारमें जगत् रूपी विलासके अभावका और विलासका निराकरण भी है अर्थात् ओंकाररूपी ब्रह्ममें जगत् तीनों कालमें नहीं बनताहै तब विन्दुकरके युक्त अक्षरका भी उच्चारण किसकरके बनेगा किन्तु कदापि भी नहीं बनेगा केवळ अद्वैतही सिद्ध होताहै ॥ १ ॥

इति तत्त्वमसिप्रभृतिश्रुतिभिः

प्रतिपादितमात्मनि तत्त्वमसि ।

त्वमुपाधिविवर्जितसर्वसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

इति, तत्त्वमसिप्रभृतिश्रुतिभिः, प्रतिपादितम्, आत्मनि,
तत्त्वम्, असि । त्वम्, उपाधिविवर्जितसर्वसमम्, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इति=इस प्रकार

तत्त्वमसिप्रभृ- } = " तत्त्वमसि "
तिश्रुतिभिः } प्रभृति श्रुतियोंकरके

प्रतिपादि- } = प्रतिपादन किया
तम् } जो है

आत्मनि=आत्मामें

तत्त्वमसि=सो तू है

त्वम्=तू ही

उपाधिविवर्जि- } = उपाधिसे रहित °
तसर्वसमम् } सर्वमें सम है

किमु=किसवास्ते

रोदिषि=तू रुदन करता है

मानस=हे मन !

सर्वसमम्=सर्वमें तू सम है ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्योंने प्रतिपादन किया है कि जीव ही ब्रह्म है और वास्तवसे उपाधिसे रहित सर्वमें एक ही आत्मा है, जिन उपाधियोंने भेद कर रक्खा है सो सब अज्ञानकार्य है अज्ञानके नष्ट होजानेपर उनका भी नाश होजाताहै इसवास्ते भेदको लेकरके रुदन करना नहीं बनता है ॥ २ ॥

अध ऊर्ध्वविवर्जितसर्वसमं

बहिरन्तरवर्जितसर्वसमं

यदि चैकविवर्जितसर्वसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

अध ऊर्ध्वविवर्जितसर्वसमम्, बहिरन्तरवर्जितसर्वसमम् ।
यदि, च, एकविवर्जितसर्वसमम्, किमु, रोदिषि, मानस,
सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

अध ऊर्ध्वविव- } = नीचे ऊपरसे	एकविवर्जित- } = एकसे रहित सर्वमें
र्जितसर्वसमम् } रहित सर्वमें सम है	सर्वसमम् } सम है
बहिरन्तरव- } = बाहर और भीतर-	किमु = किसवास्ते
र्जितसर्वसमम् } से रहित सर्वमें सम है	रोदिषि = रुदन करताहै ?
यदि च = यदि और	मानस = हे मन !
	सर्वसमम् = सर्वमें सम

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—नीचे और ऊपरके विभागसे रहित वह चेतन सर्वमें सम अर्थात् बराबर ही है, न्यून अधिक किसीमें भी वह नहीं है और बाहर और भीतरके व्यवहारसे भी वह रहित है और एकत्वभावसे भी रहित है किन्तु एकरस सर्वमें बराबर ही है तब ; फिर किसवास्ते रुदन करताहै ॥ ३ ॥

न हि कल्पितकल्पविचार इति
न हि कारणकार्यविचार इति ।

पदसंधिविवर्जितसर्वसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, कल्पितकल्पविचारः, इति, न, हि, कारणकार्य-
विचारः, इति । पदसन्धिविवर्जितसर्वसमम्, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

कल्पितकल्प- विचारः इति	} =यह कल्पित है यह कल्प है इसप्रकार विचार भी	पदसन्धिवि- र्जितसर्वसमम्	} =पद और सं- घस रहित वह सबम सम ही है
न हि = नहीं है			
कारणकार्य- विचारः इति	} =यह कारण है यह कार्य है इस प्रकारकाविचार भी	किमु = किसवास्ते	रोदिषि = रुदन करता है तू
न हि = उसमें नहीं है		मानस = हे मन !	सर्वसमम् = वह तो सबम समही है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—उस चेतनब्रह्ममें यह वस्तु कल्पित है यह कल्प है
इस प्रकारका विचार नहीं हो सकता है । यह कार्य है, यह कारण है इस
प्रकारका विचार करना भी तिसमें नहीं बनता है और पद संधि व्यवहारसे
भी रहित है क्योंकि वह द्वैतसे रहित है किन्तु सर्वत्र एकरस ही है तब फिर
तुम किसवास्ते रुदन करते हो क्योंकि तुम्हारेसे भिन्न तो कोई भी दूसरा
नहीं है ॥ ४ ॥

नहि बोधविबोधसमाधिरिति

नहि देशविदेशसमाधिरिति ।

न हि कालविकालसमाधिरिति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, बोधविबोधसमाधिः, इति, न, हि, देशविदेशस-
माधिः इति । न, कालविकालसमाधिः, इति, किमु,
रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

बोधविबोध- समाधिः	} =सामान्य विशेष ज्ञा नवाली समाधि भी	कालविका लसमाधिः	} =सामान्य विशेष- रूप करके काल और निकालकी समाधि भी
इति=इस प्रकारकी			
न हि=उसमें नहीं है और फिर उसमें		इति = इस प्रकार	
देशविदेश- समाधिः	} =सामान्य विशेषरूप करके देश विदेशकी समाधि भी	न हि = उसमें नहीं है	
इति=इस प्रकार			किमु = किसवास्ते
न हि=उसमें नहीं है ।		मानस=हे मन ! तू	
		रोदिषि = रुदन करता है	
		सर्वसमम् = वह सर्वत्र समरूप है	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जब कि वह ब्रह्मचेतन द्वैतसे रहित एक ही है तब
फिर यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह देश है, यह विदेश है, यह काल है,
यह काल नहीं है, इस प्रकारका विचार भी उसमें नहीं बनता है । तब
फिर जो जीव इस प्रकारके विचारके वास्ते रुदन करते हैं उनका रुदन
करना व्यर्थ है ॥ ५ ॥

न हि कुम्भनभो न हि कुम्भ इति

न हि जीवपुनं हि जीव इति

न हि कारणकार्यविभाग इति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, कुम्भनभः, न, हि, कुम्भः, इति, न, हि, जीव-
वपुः, न, हि, जीवः, इति । न, हि, कारणकार्यविभागः,
इति, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

कुम्भनभः=घटाकाश

न हि=नहीं है

कुम्भः=घट भी

न हि=नहीं है

इति=इसी प्रकार

जीववपुः=जीवका शरीर भी

न हि=नहीं है

जीवः=जीवभी

इति=इस प्रकार

न हि=नहीं है

कारणकार्य-
विभागः इति } =यह कार्य है यह
कारण है इस प्रकार-
का विभाग भी

न हि=नहीं है

किमु=किसवास्ते

मानस=हे मन !

रोदिषि=रुदन करताहै

सर्वसमम्=ब्रह्म सर्वत्र समरूप है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—उस व्यापक आनन्दघन चेतनमें जब कि घट ही तीनों
कालमें नहीं है तब घटाकाशका तो अर्थसे ही अभाव सिद्ध होताहै इसी तरह
वास्तवसे जीव ही उसमें नहीं है तब जीवका शरीर कैसे हो सकता है ? जब कि
कार्यकारण व्यवहार ही उसमें नहीं है तब कार्यकारणके नाशके वास्ते रुदन
करना कहां बनताहै ? क्योंकि वह एकरस सर्वत्र सम है ॥ ६ ॥

इह सर्वनिरन्तरमोक्षपदं

लघुदीर्घविचारविहीन इति ।

न हि वर्तुलकोणविभाग इति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

इह, सर्वनिरन्तरमोक्षपदम्, लघुदीर्घविचारविहीनः,
इति । न, हि, वर्तुलकोणविभागः, इति, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस प्रकरणमें (आत्मा)

सर्वनिरन्तर- } =सर्व एकरस मोक्ष-
मोक्षपदम् } पद है और

लघुदीर्घवि- } लघु दीर्घ विचरसे
चारविहीनः } रहित

इति=इस प्रकारका व्यवहार और

वर्तुलकोण- } =गोलका और कोण-
विभागः } का विभागबाला

इति=इस प्रकारका व्यवहार भी उसमें

न हि=नहीं है तब फिर

किमु=किसके लिये

मानस=इ मन् !

रोदिषि=तुम रुदन करतेहो

सर्वसमम्=वह सर्वत्र सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—निराकार निरवयव मोक्षरूप आत्मामें लघु दीर्घका
विचार और गोलका तथा त्रिकोणादि विभागका विचार भी नहीं बनता है
क्योंकि वह इनसे रहित है ॥ ७ ॥

इह शून्यविशून्यविहीन इति

इह शुद्धविशुद्धविहीन इति ।

इह सर्वविसर्वविहीन इति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

इह, शून्यविशून्यविहीनः, इति, इह, शुद्धविशुद्धविहीनः,
इति । इह, सर्वविसर्वविहीनः, इति, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस आत्मामें

शून्यविशून्य- } शून्य और विशेष
विहीनः } शून्यसे हीन

इति=इस प्रकारका व्यवहार और

इह=इस आत्मामें

शुद्धविशुद्ध- } शुद्ध और विशेष
विहीनः } शुद्धसे हीन

इति=इस प्रकारका व्यवहार और

इह=इसी आत्मामें

सर्वविसर्व- } =सर्व और विशेषकरके
विहीनः } सर्वसे हीन

इति=इस प्रकारका व्यवहार भी
नहीं होताहै

किमु=किसवास्ते फिर तुम

मानस=हे मन !

रोदिषि=रुदन करते हो

सर्वसमम्=बहु सर्व सम है

भावार्थः ।

दत्तत्रेयजी कहतेहैं—यदि कोई ऐसी आशंका करे कि, यदि आत्मा निराकार निरवयव है तो शून्य ही सिद्ध होगा क्योंकि शून्य भी निराकार निरवयव ही होताहै । इसका यह उत्तर है कि, उसमें शून्य अशून्य विचार नहीं बनता है क्योंकि वह शून्यका भी साक्षी है और एकरस व्यापक होनेसे बाहर और भीतर तथा संधिका भी विचार उसमें नहीं होसकताहै और सर्वसे भिन्न अभिन्नका विचार भी उसमें नहीं होसकताहै, तत्र तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है ॥ < ॥

न हि भिन्नविभिन्नविचार इति

बहिरन्तरसन्धिविचार इति ।

अरिभिन्नविवर्जितसर्वसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, भिन्नविभिन्नविचारः, इति, बहिः, अन्तरसन्धि-
विचारः, इति । अरिभिन्नविवर्जितसर्वसमम्, किमु,
रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

भिन्नविभिन्न- } = भिन्न है या भिन्न
 विचारः } नहीं है सो विचारभी
 इति = इस प्रकारका
 न हि = नहीं होसकताहै
 वहिः = वह बाहर है या
 अन्तरसन्धि- } = या भीतरकी
 विचारः } सन्धिमें विचार भी
 इति = इस प्रकारका

नहि = नहीं होसकताहै क्योंकि वह
 अरिमित्राविव- } = शत्रुमित्र. भी उससे
 जितसर्वसमम् } रहित सर्वमें सम है
 किमु = फिर किसवास्ते
 रोदिषि = तू रुदन करताहै;
 मानस = हे मन !
 सर्वसमम् = तू सर्वमें सम है

भांवार्यः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—उस निर्गुण आत्मामें ऐसा विचार भी नहीं होसकताहै कि, वह जगत्से भिन्न है या अभिन्न है बाहर है या इसके भीतर है या इसकी संधिमें है क्योंकि वह सर्वत्र एकरस सम है तब ऐसा विचार कैसे होसकता है कदापि नहीं, फिर वह शत्रु मित्रके भावसे भी रहित है क्योंकि उसमें शत्रु मित्र भाव भी नहीं बनसकताहै तब फिर तुम्हारा रुदन भी व्यर्थ है ॥ ९ ॥

न हि शिष्यविशिष्यसरूप इति ।

न चराचरभेदाविचार इति ।

इह सर्वनिरन्तरमोक्षपदं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, शिष्यविशिष्यसरूपः, इति, न, चराचरभेदाविचारः, इति । इह, सर्वनिरन्तरमोक्षपदम्, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

शिष्यविशि- } = शिष्य और शिष्या-	इह = इस प्रकरणमें [वह आत्मा]
ष्यस्वरूपः } भावस्वरूप भी	सर्वनिरन्तर- } = सर्वका निरन्तर
न हि = वह नहीं है	मोक्षपदम् } मोक्षरूपी पद है
इति = इसी प्रकार	किमु = किसवास्ते
चराचर- } = चर अचरके भेदका	रोदिषि = तू रुदन करता है
भेदविचारः } विचार भी	मानस = हे मन !
न = नहीं है	सर्वसमम् = वह सबमें सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—उसमें शिष्यभाव और शिष्यसे रहित भाव अर्थात् विगताशिष्यभाव दोनों नहीं हैं और चर अचरके भेदके विचारसे भी वह रहित है अर्थात् चर अचर जगत्का उससे भेद है या अभेद ऐसा विचार भी उसमें नहीं बनता है क्योंकि यह जगत् सब वास्तवसे सत्य नहीं है किन्तु कल्पित है और सर्वका आश्रयभूत वह मोक्षरूप है, तत्र फिर जीव तू क्यों रुदन करता है ॥ १० ॥

ननु रूपविरूपविहीन इति

ननु भिन्नविभिन्नविहीन इति ।

ननु सर्गविसर्गविहीन इति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।

ननु, रूपविरूपविहीनः, इति, ननु, भिन्नविभिन्नविहीनः,
इति । ननु, सर्गविसर्गविहीनः, इति, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

ननु = निश्चयकरके

रूपविरूप- } = वह रूपसे और विग-
विहीनः } तरूपसे भी रहित है

इति = इस प्रकार

ननु = निश्चयकरके

भिन्नविभिन्न- } = भेदसे और विगत
विहीनः } भेदसे भी वह रहित है

इति = इस प्रकार

ननु = निश्चयकरके

सर्गविसर्ग- } = उत्पत्ति और प्रलयसे
विहीनः } भी वह रहित है

इति = इस प्रकार जानकर

किमु = किसवास्ते तू

मानस = हे मन !

रोदिषि = रुदन करता है

सर्वसमम् = वह सबमें सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—वह चेतन आत्मारूपसे और रूपके अभावसे भी रहित है और भेदसे तथा भेदके अभावसे भी वह रहित है जगत्की उत्पत्ति और प्रलयसे भी वह रहित है क्योंकि वास्तवसे उसमें न तो जगत्की उत्पत्ति होती है और न प्रलय ही होता है, तब फिर तू किसवास्ते रुदन करता है क्योंकि वास्तवसे तू ही ब्रह्मरूप है ॥ ११ ॥

न गुणागुणपाशनिबन्ध इति

मृतजीवनकर्म करोति कथम् ।

इति शुद्धनिरञ्जनसर्वसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

न, गुणागुणपाशनिबन्धः, इति, मृतजीवनकर्म, करोति कथम् । इति, शुद्धनिरञ्जनसर्वसमम्, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

गुणागुणपा- } =गुण और निर्गुणकी
 शानिबन्धः } पाराकासबंध उसको
 न = नहीं है
 इति = इस प्रकार
 मृतजीवन } मृतकके और जीव-
 कर्म } नके कर्मको
 करोति इति = करता है वह

कथम् = किस प्रकार होसकता है
 शुद्धनिरञ्जन- } =वह शुद्ध निरञ्जन
 सर्वसमम् } सबसम है तब फिर
 किमु = किसवास्ते
 मानस = हे मन !
 रोदिषि = तू रुदन करता है
 सर्वसमम् = वह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो आत्मा ब्रह्म शुद्ध है, मायामलसेरहित ह निरं-
 जन है उसमें सगुणपना और निर्गुणपना और मृतजीवनके कर्मोंका करना-
 यह सब कैसे बनसकता है किन्तु कदापि नहीं बनताहै । फिर तिस आत्माकी
 प्रातिके वास्ते कैसे तुम रुदन करते हो वह तो सर्वमें सम है तुम्हारा अपन
 आप है ॥ १२ ॥

इह भावविभावविहीन इति

इह कामविकामविहीन इति ।

इह बोधतमं खलु मोक्षसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

इह, भावविभावविहीनः, इति, इह, कामविकामविहीनः,
 इति । इह, बोधतमम्, खलु, मोक्षसमम्, किमु, मानस,
 रोदिषि, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह=यहां वह आत्मा

भावविभाव- } =भाव अभावसे हीन है
विहीनः }

इति=इसी प्रकार

इह=यहां वह आत्मा

कामविकाम- } =ज्ञान और कानके
विहीनः } अभावसे रहित है

इति=इसी प्रकार

इह=यहां वह आत्मा

बोधतमम्=ज्ञान स्वल्प है

खलु=निश्चयकरके

मोक्षतमम्=मोक्ष स्वल्प वह है उसके

किमु=कितनास्ते [लिये

मानस=हे मन !

रोदिषि=तू रदन करता है

सर्वसमम्=वह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तःत्रेयजी कहते हैं—हे मन ! इस जगत्में साधारण अज्ञाधारण भाव तथा इच्छाओंसे आत्मा रहित है अर्थात् नानाप्रकारके संकल्प और विकल्पोंसे दित्त भ्रान्त रहता है यह बड़ा अज्ञान है, आत्मा शुद्धज्ञान स्वल्प है यदि इस प्रकार विवेक बुद्धिका आश्रय करे तो मोक्षके तुल्य सुख मिले । हे मन ! तुमको हानि, काम, सुख, दुःख सब कामोंमें समान रहना चाहिये, व्यर्थ दुःख कर क्यों रोते ॥ १३ ॥

इह तत्त्वनिरन्तरतत्त्वमिति

न हि संधिविसन्धिविहीन इति ।

यदि सर्वविवर्जितसर्वसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

इह, तत्त्वनिरन्तरतत्त्वम्, इति, न, हि, सन्धिविसन्धिविहीनः, इति । यदि, सर्वविवर्जितसर्वसमम्, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह = इस ब्रह्म आत्मामें

तत्त्वानिरन्तर- } = यह तत्त्व है या
तत्त्वम् } निरन्तर ही तत्त्व है

इति = इस प्रकारका व्यवहार

न हि = नहीं होताहै और

संधिविसन्धि- } = सन्धि और सन्धि-
विहीनः } के अभावसे हीन है

इति = इस प्रकार भी व्यवहार नहीं

यदि = जब कि वह [होता है,

सर्वविवर्जित- } = सर्वसे रहित और

सर्वसमम् } सर्वमें सम है फिर

किमु = किसवास्ते

मानस = हे मन !

रोदिषि = तू रुदन करता है

सर्वसमम् = यह सब सम है,

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—इस आत्मामें तत्त्वोंका कभी २ सम्बन्ध होताहै या सब तत्त्व उसमें रहतेहैं ? इसमें किसीका मेल भी है या यह किसीका मेलबाल नहीं है जो शास्त्रोंसे यह सिद्ध होजाय कि यह सभी उपाधियोंसे रहित है, सब पदार्थोंमें एकही रूपसे रहनेवाला है तो हे मन ! सुखदुःखरहित सदा एकरस आत्माके लिये क्यों रोताहै ॥ १४ ॥

अनिकेतकुटी परिवारसमम्

इह सङ्गविसङ्गविहीनपरम् ।

इह बोधविबोधविहीनपरं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

अनिकेतकुटी, परिवारसमम्, इह, सङ्गविसङ्गविहीनपरम् ।

इहं, बोधविबोधविहीनपरम्, किमु, रोदिषि, मानस,

सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

आनेके- } = अनियत वास कुटी	इह = ब्रह्म
तकुटी } होनी	
परिवार- } = परिवारके तुल्य सबको	बोधविवोध- } = ज्ञान अज्ञानसे
समम् } जानना	
इह = यह ब्रह्म	विहीनपरम् } रहित श्रेष्ठ है
सङ्गविसङ्गवि- } = संगविसंगसे रहि-	
हीनपरम् } त पंम पवित्र	किमु = किसवास्ते
	रोदिषि = तू रुदन करता है
	मानस = हे मन !
	सर्वसमम् = ब्रह्म सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—निराश्रय होकर रहै, एकान्त झोपडीमें रहै । अथवा परिवारसे भरापूरा रहै सब समान है । थोड़े साथमें रहे, अधिक समूहमें रहे अथवा एकान्तवास करे, थोड़ा बोध हो, अधिक ज्ञान हो अथवा ज्ञानशून्य हो आत्मा सदा एकाकार है हे मन ! उसके लिये तू क्यों रोता है ॥ १९ ॥

अविकारविकारमसत्यमिति

अविलक्षविलक्षमसत्यमिति ।

यदि केवलमात्मनि सत्यमिति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

अविकारविकारम्, असत्यम्, इति, अविलक्षाविलक्षम्, असत्यम्, इति । यदि, केवलम्, आत्मनि, सत्यम्, इति, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

अविकार- } =विकारसे रहितका	यदि=जब कि
विकारम् } विकार यह जगत् है	केवलम्=केवल
इति = इसीवारते	आत्मनि=आत्माही
असत्यम्=असद्रूप है	सत्यम्=सद्रूप है
आविलक्ष- } =अलक्षका यह लक्ष है	इति=इसीवास्ते
विलक्षम् }	किमु=किसवास्ते रुदन करता है ।
इति=इसीवास्ते	मानस=हे मन !
असत्यम्== असत्य है	रोदिषि=तू रुदन करता है
	सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—आत्माका कर्माँ विकार नहीं होता आत्मासे यह नित्य और संसार हुआ जो मानतेहैं यह ठीक नहीं क्योंकि आत्मा नित्य और संसार अनित्य है । जिसका कोई आकार नहीं उस आत्माका यह साकार जगत् हो नहीं सकता इससे यह अनित्य है । जब कि एक आत्माही सत्य है तो हे मन तू क्यों रोता है ॥ १६ ॥

इह सर्वतमं खलु जीव इति

इह सर्वनिरन्तरजीव इति

इह केवलनिश्चलजीव इति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

इह, सर्वसमम्, खलु, जीवः, इति, इह, सर्वनिरन्तरजीवः, इति । इह, केवलनिश्चलजीवः, इति, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

इह=इस संसारमें
खलु=निश्चयकरके
सर्वसमम्=सर्वसे उत्तम
जीवः=जीव है
इति=इस प्रकार
इह=इस संसारमें
सर्वनिरन्त- } =सर्वको निरन्तर जीव
रजीवः } ही है
इति=इस प्रकार

इह=इस संसारमें
केवलनिश्च- } केवल निश्चय जीव
लजीवः } ही है फिर
इति=इस प्रकार
किमु = किसवास्ते
मानस=हे मन !
रोदिषि=तुम रुदन करते हो
सर्वसमम्=यह सब सम हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—यदि ऐसा समझते हो कि, संसारमें प्रत्यक्ष नाना प्रकार
रके जीव देखनेमें आतेहैं वे ही सब कुछ हैं उनसे और आत्मासे कुछ दोष नहीं
है, तब भी कुछ दोष नहीं जीव उस परमात्माका ही अंश है, अधिया आदि
वासनाओंसे मुक्तजीव और परमात्मामें कुछ भेद नहीं होता, ऐसा होनेपर भी
हे मन ! तुम वृथा क्यों रोते हो ॥ १७ ॥

अविवेकविवेकमबोध इति

अविकल्पविकल्पमबोध इति ।

यदि चैकनिरन्तरबोध इति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

अविवेकविवेकम्, अबोधः, इति, अविकल्पाविकल्पम्,
अबोधः, इति । यदि, च, एकनिरन्तरबोधः, इति, किमु,
रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

अविवेक-	} =विवेकका अभाव और	यदि च=यदि च
विवेकम्		विवेक
अबोधः=अबोध ही है		एकनिरन्त-} =एक निरन्तर बोध
इति=इसी प्रकार		रबोधः } मात्र ही है
अविकल्प-	} =विकल्पका अभाव	इति=इस प्रकार जान फिर
विकल्पम्		और विकल्प
अबोधः=अबोध ही है		किमु=किसके वास्ते
इति=इसी प्रकार जानो		मानस=हे मन !
		रोदिषि=तुम रुदन करते हो
		सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—ईश्वरका कभी विकार नहीं, जगत्को तो विकारों देखते हैं इससे यह जगत् असत्य है ईश्वर आंख आदि इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं होता इससे यह मिथ्या है और यदि सत्य है तो वह एक आत्मानें ही है इससे हे मन ! तुम क्यों रोतेहो ॥ १८ ॥

न हि मोक्षपदं न हि बन्धपदं

न हि पुण्यपदं न हि पापपदम् ।

न हि पूर्णपदं न हि रिक्तपदं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, मोक्षपदम्, न, हि, बन्धपदम्, न, हि, पुण्यपदम्,
न, हि, पापपदम् । न, हि, पूर्णपदम्, न, हि, रिक्तपदम्,
किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

मोक्षपदम्=मोक्षपदं
न हि=नहीं है और
बन्धपदम्=बन्धपद भी
न हि=नहीं है
पुण्यपदम्=पुण्यपद भी
न हि=नहीं है
पापपदम्=पापपद भी
न हि=नहीं है और

पूर्णपदम्=पूर्णपद भी
न हि=नहीं है
रिक्तपदम्=अपूर्णपद भी
न हि=नहीं है
किमु=किसके वास्ते
मानस=हे मन
रोदिषि=तू रुदन करता है
सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिसमें पहले बंध होताहै वही पीछे मुक्त भी होताहै आत्मामें पहले बंध ही नहीं है तब फिर पीछे मुक्त कहसके हैकिंगार जिसवास्ते बन्ध मोक्ष दोनों नहीं हैं इसीवास्ते पुण्य और पाप भी आत्मामें नहीं है और यदि प्रथम न्यून होवे तब पीछे पूर्ण होवे सो आत्मामें यह दोनों भी नहीं हैं फिर तू किसवास्ते रुदन करताहै ? वह तो सर्वत्र सर्वदा सम ही है ॥ १९ ॥

यदि वर्णविवर्णविहीनसमं

यदि कारणकार्यविहीनसमम् ।

यदि भेदविभेदविहीनसमं

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

यदि, वर्णविवर्णविहीनसमम्, यदि, कारणकार्यविहीन-
समम् । यदि, भेदविभेदविहीनसमम्, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

यदि=यदि आत्मा

वर्णविवर्ण- } =वर्णभागसे और
विहीनसमम् } वर्णविभागके अभावसे
राहत ह और समभीहै

यदि=यदि वह

कारणकार्यवि- } =कारण और
हीनसमम् } कार्यसे रहित

और सम है

यदि=यदि वह आत्मा

भेदविभदाव- } =भेदसे और भेदा-
हीनसमम् } भावसे रहित है
और सम है

किमु = कित्वास्ते

रोदिषि = तुम रुदन करतेहो

मानस=हे मन !

सर्वसमम् = वह सर्वमें सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—वह आत्मा वर्णविभागसे रहित है अर्थात् तिस आत्मामें तीनों कालमें वर्णविभाग नहीं है क्योंकि एक ही आत्मा सब योनियोंमें जाता है और पशु आदिक योनियोंमें तो पूर्व योनिवाला वर्णविभाग नहीं होताहै इसीसे सिद्ध होता है कि, वर्णविभाग आत्माका धर्म नहीं है और विवर्ण अर्थात् विशेष करके जो कि वर्णजाति है वह भी नहीं है अथवा वर्ण नाम रूपका भी है अर्थात् रूपसे भी वह रहित है और आत्मा न किसीका कारण है न कार्य है इसवास्ते कारणकार्यसे भी रहित है और भेद तथा भेदामात्रसे भी रहित है क्योंकि वह एक ही है तब फिर हे मन ! तिस आत्माके वास्ते तू क्यों रुदन करता है वह तो सर्वमें सम एकरस है ॥ २० ॥

सर्वनिरन्तरसर्वचिते

इह केवलनिश्चलसर्वचिते ।

द्विपदादिविवर्जितसर्वचिते

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वनिरन्तरसर्वचिते, इह, केवलनिश्चलसर्वचिते । द्विपदादि-
विवर्जितसर्वचिते, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

सर्वनिरन्तर- } =सर्वमें एकरस हो
सर्वचिते } करके वह सबके-
चित्तोंमें रहता है

इह = इस संसारमें

केवलनिश्च- } =केवल निश्चल होकर
लसर्वचिते } सबमें रहता है

द्विपदादिविव } =वह दो पाँच आदि-
जितसर्वचिते } कोस भी रहित होकर
सबमें रहता है

किमु=किसवास्ते

रोदिपि=तू रुदन करता है

मानस=हे मन !

सर्वसमम्=वह तो सबमें सम है

भावार्थः ।

दद्यात्रेयजी कहते हैं—हे जीव ! तू क्यों अपने मनमें रुदन करता है ? वह तेरा आत्मा तो सर्वत्र सम है, सबमें एकरस है, संपूर्णमें व्यापक है, निश्चल है, अर्थात् अचल है, दो पाँच या चार पाँच आदिकोसे भी वह रहित है सबके चित्तोंका वही सक्षी है ॥ २१ ॥

अतिसर्वनिरन्तरसर्वगतं

अतिनिर्मलनिश्चलसर्वगतम् ।

दिनरात्रिविवर्जितसर्वगतं

किमु रोदिपि मानस सर्वसमम् ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

अतिसर्वनिरन्तरसर्वगतम्, अतिनिर्मलनिश्चलसर्वगतम् । दिन-
रात्रिविवर्जितसर्वगतम्, किमु, रोदिपि, मानस सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

अतिसर्वनि- } =वह चेतन अतिशय
रतसर्वगतं } करके एकरस सर्वगत है

अतिनिर्मल- } =अतिनिर्मल है
निश्चलसर्वगतम् } निश्चल है सर्वगत है

दिनरात्रिविव- } =दिन और रात्रिसे
र्जितसर्वगतम् } रहित हुआ भी सर्वमें
गत है व्यापक है

किमु=फिर तू किसवास्ते

मानस=हे मन !

रोदिपि=रुदन करता है

सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—यह चेतन, सर्वश्रेष्ठ, नित्य, व्यापक, शुद्ध, क्रियारहित है, दिन और रात्रिके व्यवहारोंसे भिन्न, आकाशके समान सर्वगत है हे मन ! तू ऐसे आत्माको न जानकर क्यों रोता है ॥ २२ ॥

न हि बन्धविवन्धसमागमनं न हि योगवियोग-
समागमनम् । न हि तर्कवितर्कसमागमनं किमु
रोदिपि मानस सर्वसमम् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, बन्धविवन्धसमागमनम्, न, हि, योगवियोगस-
मागमनम् । न, हि, तर्कवितर्कसमागमनम्, किमु,
रोदिपि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

बन्धविव- } न्धसमा- } गमनम् } न हि=नहीं है	=सामान्य और विशेष रूपसेभी बन्धका सम्यक् आगमन आत्मामें	तर्कवितर्कस- } मागमनम् } न हि=नहीं है	{ तर्कवितर्ककी भी उसमें प्राप्ति
योगवियोग- } समागमनम् } न=नहीं होती है	{ संयोग और वियोगकी भी प्राप्ति उसमें	किमु=किसवास्ते	रोदिपि=रुदन करता है
		मानस=हे मन !	सर्वसमम्=वह सबमें सम है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं तू क्यों रुदन करता है वह आत्मा तो तुम्हारा सबमें सम है और सामान्यविशेषबन्धनोंसे भी वह रहित और जन्ममरणरूपोंसे तो सामान्य बंध हैं और स्त्रीपुत्रादिक सब यह विशेष बन्ध हैं अर्थात् बन्धनके कारण हैं इन दोनोंसे आत्मा रहित है जिसवास्ते तिसके किसी प्रकारका भी बन्ध नहीं है इसीवास्ते वह संयोगसे भी रहित है. और तर्कवितर्ककी भी उसमें गम्य नहीं है अर्थात् वह तर्क करके भी नहीं जाना जाता है किन्तु केवल वेद और शास्त्रसे ही वह जानाजाता है ॥ २३ ॥

अभिधानविधानविहीनपरम्, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस ब्रह्ममें

देहविदेह- } =देहसे और विदेहसे
विहीनः } रहित होना

ज्ञति=इस प्रकारका व्यवहार भी नहीं

ननु=निश्चय करके

स्वप्नसुषुप्ति- } स्वप्न और सुषुप्तिसे
विहीनपरम् } भी परमरहित है

अभिधानविधा- } =कथन और
नविहीनपरम् } कथनके अभाव-
से भी रहित है

किमु=किसवास्ते

मानस=हे मन !

रोदिषि=रुदन करता है

सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो कि यह पड़ले अज्ञानावस्थामें देहके सहित होताहै वही पीछे ज्ञानावस्थामें देहसे रहित भी होताहै सो गिराकार व्यापक चेतनमें अज्ञान ही तीनों कालमें नहीं है तब सह विदेह होना कैसे बनताहै किन्तु कदापि नहीं देहके अभावसे स्वप्न और सुषुप्तिका अर्थसे ही उसमें अभाव है तब फिर विधिनियेधका भी अभाव है तब रुदन क्यों करतेहो ॥ १५ ॥

गगनोपमशुद्धविशालसममविसर्वाविवर्जितसर्वसमम् ।
गतसारविसारविकारसमं किमु रोदिषि मानस सर्व-
समम् ॥ २६ ॥

पदच्छेदः ।

गगनोपमशुद्धविशालसमम्, अविस्वविवर्जितसर्वसमम् ।

गतसारविसारविकारसमम्, किमु, रोदिषि, मानस सर्वसमम्, ॥

पदार्थः ।

गगनोपम- } =यह आत्मा गगनकी
शुद्धविशा- } उपमायाल है, शुद्ध है
लसमम् } विशाल है, विस्तर
वाला है, सर्वत्र सम है

अविस्ववि- } विशेषकरके सर्वसे
वर्जितसर्व- } रहित नहीं है किन्तु
समम् } सर्वमें सम है

गतसारवि- } सार विसार और
सारविकार- } विकारसे रहित है
समम् } और सम भी है

किमु=किसवास्ते

मानस=हे मन !

रोदिषि=रु रुदन करताहै

सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं वह चेतन आत्मा गगनकी उपमावाला है और विशाल भी अर्थात् अतिविस्तारवाला और व्यापकभी है और एकरस सम ह संपूर्ण मिथ्या प्रपंचसे भी रहित है फिर वह सार और सारके अभावसे और विकारसे भी रहित है तब फिर उसकी प्राप्तिके लिये जीवका रुदन करना भी व्यर्थ है ॥ २६ ॥

इह धर्मविधर्मविरागतरमिहवस्तुविवस्तुविरागत-
रम् । इह कामविकामविरागतरं किमु रोदिषि
मानस सर्वसमम् ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ।

इह, धर्मविधर्मविरागतरम्, इह, वस्तुविवस्तुविरागतरम् ।
इह, कामविकामविरागतरम्, किमु, रोदिषि, मानस,
सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस संसारमें

धर्मविधर्म-
विरागतरम् } = सामान्य धर्म वि-
शेषधर्मसे विरागका
होना उत्तम है

इह=इस संसारमें

वस्तुविवस्तु-
विरागतरम् } = सामान्यवस्तु और
विशेषवस्तुसे भी वैरा-
ग्यका होना ही श्रेष्ठ है

इह=इस संसारमें

कामविकाम-
विरागतरम् } = सामान्य इच्छा
और विशेष इच्छासे
भी वैराग्यका होना
ही श्रेष्ठ है

किमु=किसवास्ते

मानस=हे मन !

रोदिषि=रुदन करता है

सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं-इस संसारमें दो प्रकारके धर्म हैं, एक तो सामान्यधर्म है, जो कि चारों वर्णोंमें तुल्य है, दूसरे विशेषधर्म हैं, जो कि चारों वर्णोंमें पृथक् हैं इन दोनों प्रकारके धर्मोंसे वैराग्य ही श्रेष्ठ है, और संसारमें जितने सामान्य विशेष

चस्तु है; अर्थात् सामान्य और विशेष भोग हैं उनसे ज्ञातवान्को अतिवै-
राग्य ही होताहै और सामान्य विशेषरूपसे जो पदार्थोंकी इच्छा है वह सब
भी दुःखको ही उत्पन्न करनेवाली है उससे भी वैराग्य ही उत्तम है तत्र
फिर हे अज्ञानजीव ! तू किसवास्ते रुदन करता है वैराग्यको क्यों नहीं प्राप्त
होता ॥ २७:॥

सुखदुःखविवर्जितसर्वसममिहशोकविशोकवि-
हीनपरम् । गुरुशिष्यविवर्जिततत्त्वपरं किमु
रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ २८ ॥

पदार्थः ।

सुखःखविवर्जितसर्वसमम्, इह, शोकविशोकविहीनपरम् ।
गुरुशिष्यविवर्जिततत्त्वपरम्, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

सुखदुःखविव- र्जितसर्वसमम्	} =सुख और दुःखसे रहित वह आत्मा सबमें तुल्य है	गुरुशिष्यविव- र्जिततत्त्वपरम्	} =गुरु और शिष्य व्यवहारसे वर्जित परमतत्त्व है
------------------------------	---	----------------------------------	--

इह=इस आत्मामें

शोकविशोक- विहीनपरम्	} =सामान्य विशेष- रूपसे शोक भी नहीं रहता है
------------------------	---

किमु=किसवास्ते

रोदिषि=रुदन करता है

मानस=हे मन !

सर्वसमम्=वह सबमें सम है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मा सुख और दुःख दोनोंसे रहित है
शोक और मोह विहीन है गुरु और शिष्यभावसे हीन है, केवल तत्त्व-
ज्ञानस्वरूप है ॥ २८ ॥

न किलांकुरसारविसार इति

न चलाचलताम्यविसाम्यमिति ।

अविचारविचारविहीनमिति

किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् ॥ २९ ॥

न, किल, अंकुरसारविसारः, इति, न, चलाचलसाम्यवि-
साम्यम्, इति। अविचारविचारविहीनम्, इति, किमु, रोदिषि,
मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

किल=निश्चयकरके
अंकुरसार - } =अंकुरका सार
विसारः } और विगतसार
इति=इस प्रकारका व्यवहार उसमें
न=नहीं होता है ।
चलाचलसा- } =चल अचल और
म्यविसाम्यम् } समता तथा विषमता
इति=इस प्रकारका भी
न=व्यवहार उसमें, नहीं होता है ।

अविचारवि- } =विचारका अभाव
चारविहीनम् } और विचारसे भी
रहित होना
इति=इस प्रकारका भी
न=व्यवहार उसमें नहीं है
किमु=फिर तू किसवास्ते
रोदिषि=रुदन करताहै ?
मानस=हे मन !
सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—दो प्रकारके कर्म होते हैं एक सारसे सहित
दूसरे सारसे रहित, जो कि जन्मके हेतु कर्म हैं। अज्ञानी जीवोंके वह सारके
सहित होते हैं दूसरे ज्ञानवान्के जो कि कर्म हैं वह सारसे रहित होनेसे
जन्मका हेतु नहीं है सो यह दोनों प्रकारके आत्मामें नहीं है, फिर जिसवास्ते
आत्मा व्यापक है इसीवास्ते चल अचलसे भी वह रहित है और उसका मन
भी जिसवास्ते नहीं है इसीवास्ते विचार और विचारके अभावसे भी वह
रहित है फिर तू क्यों रुदन करताहै ॥ २९ ॥

इह सारसमुच्चयसारमिति कथितं निजभावविभेद इति ।
विषये करणत्वमसत्यमिति किमु रोदिषि मानस सर्व-
समम् ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ।

इह, सारसमुच्चयसारम्, इति, कथितम्, निजभाव-

विभेदः, इति । विषये, करणत्वम्, असत्यम्, इति, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस आत्मामें
सारसमुच्चय- } =संपूर्ण सारोंका भी
सारम् } सार है
इति=इस प्रकार
कथितम्=कथन किया है
निजभाव- } =अपने प्रेमसे ही
विभेदः } विशेष कहा गया है
इति=इस प्रकार
विषये=पार्थिवविषयमें

करणत्वम्=जो कुछेक करना कथन
किया है
असत्यम्=वह असत्य ही कथनः
किया जाता है
इति=इस प्रकार
किमु=किसवास्ते
मानस=हे मन !
रोदिषि=रुदन करते हो
सर्वसमम्=यह सब सम है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं--आत्मामें सारोंका भी सार है यह अपने भावका ही उत्तर अंश है यदि विद्वान् सत्य विचार करने लगताहै तो उपनिषद् आदि आत्मशास्त्रों करके उसका ऐसा संस्कार होजाताहै कि उसको सिद्धान्त ही मालूम पडनेलगताहै विषयवासना झूठी प्रतीत होतीहै जब वह दश है तो तुम क्यों रोतेहो ॥ ३० ॥

बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति यतो विद्यदादिरिदं मृगतोयस-
मम् । यदि चैकनिरन्तरसर्वसमं किमु रोदिषि मानस
सर्वसमम् ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः ।

बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति, यतः, विद्यदादिः, इदम्, मृगतोयस-
मम् । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वसमम्, किमु, रोदिषि, मानस,
सर्वसमम् ॥

पदार्थः ।

बहुधा=अनेक

श्रुतयः=श्रुतियाँ

प्रवदन्ति=कथन करती हैं

व्यक्तः=जिस हेतुसे

इन्द्रम्=यह

द्वियदादिः=आकाशादि प्रपञ्च सब

मृगतोय-
समम् } मृगतृष्णाके जलके
तुल्य है

यदि च = यदि च

एकानिरन्तर- } = एक चेतन ही एक
सर्वसमम् } रस सर्वमें सम है

किमु = किसवास्ते

मानस = हे मन !

रोदिषि = रुदन करता है

सर्वसमम् = यह सब सम है

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहतेहैं—अनेक श्रुतियाँ इस वार्ताको कथन करती हैं जितना कि आकाशादिक यह प्रपञ्च है सो यह सब मृगतृष्णाके तुल्य दिग्ध्या है अर्थात् अत्यन्त असत्य है और एकचेतन ही सर्वत्र सम है नित्यहै अब फिर तुम किसवास्ते रुदन करतेहो रुदन करना तुम्हारा व्यर्थ है ॥३१॥

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र

छन्दो लक्षणं नहि नहि तत्र ।

समरसमग्नो भावितपूतः

प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ॥ ३२ ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-

कार्तिकसंवादे आत्मसंवित्त्युपदेशे समदृष्टि-

कथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

विन्दति, विन्दति, नहि, नहि, यत्र, छन्दः, लक्षणम्, नहि,
नहि, तत्र । समरसमग्नः, भावितपूतः, प्रलपति, तत्त्वम्,
धूमः, अवधूतः ॥

पदार्थः ।

परम्=श्रेष्ठ उत्तम
 अवधूतः—अवधूत
 यत्र = जित्र ब्रह्ममें
 विंदति=कुछ लभताहै
 विंदति = लभताहै
 नहि नहि=नहीं लभता है २
 छन्दः=छन्द

लक्षणम्=लक्षण
 नहि नहि=नहीं लभताहै २ क्योंकि वह
 तत्र=तिस ब्रह्ममें
 समरसमग्नः=एकरस ही मग्न रहताहै
 भावितपूतः-अन्तःकरणसे वह पवित्रहै
 तत्त्वम्=आत्मतत्त्वका ही
 प्रलपति = कथन करता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो कि शुद्ध अन्तःकरणवाला अवधूत है वह उस व्यापक धेतनमें क्या किसी वस्तुको प्राप्त करताहै ? सो यह वार्ता नहीं है और छन्दरूपी कावित्ताको भी नहीं प्राप्त करताहै किन्तु केवल आत्मतत्त्वकोही कथन करताहै ३ २
 इति श्रीमदवधूतगतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित-
 परमानन्दीमापाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

षष्ठोऽध्यायः ६.

अवधूत उवाच ।

बहुधा श्रुतयः प्रवदन्ति वयं
 वियदादिरिदं भृगतोयसमम् ।
 यदि चैकनिरन्तरसर्वशिव-
 मुपमेयमथो ह्युपमा च कथम् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

बहुधा, श्रुतयः, प्रवदन्ति, वयम्, वियदादिः, इदम्, भृगतो-
 यसमम् । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, उपमेयम्, अथो,
 हि, उपमा, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

बहुधा=अनेक
श्रुतयः=श्रुतियों
प्रवदन्ति=कथन करती हैं

वयम् = हम

इदम् = यह जितना

वियद्वादिः=आकाशादि प्रपञ्च है सो

मृगतोयसमम्=मृगतृष्णाके समान है

यदि च = यदि

एकनिरन्तर- } = यह चेतन एक ही
सर्वशिवम् } निरन्तर सर्व कल्याण
रूप है

अयो = अनन्तर

उपमेयम् = यह उपमेय है

हि च = निश्चयकरके और

उपमा = उपमा है

कथम्=किस प्रकार यह होसकता है

भावार्थः—इत्तात्रेवजी कहतेहैं—वेदकी अनेक ऋचाएँ स्वयं कहतीहैं कि, यह आकाश, वायु आदि मृगतृष्णाके समान है जब कि एक, अविनाशी, सर्वगत, कल्याणस्वरूप ही है तो किसकी उपमा दीजाय और किसको दीजाय ॥१॥

अविभक्तिविभक्तिविहीनपरं ननु कार्यविकार्यवि-
हीनपरम् । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं यजनं च
कथं तपनं च कथम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

अविभक्तिविभक्तिविहीनपरम्, ननु, कार्यविकार्यविहीनपरम् ।
यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, यजनम्, च, कथम्,
तपनम्, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

अविभक्तिवि- } = विशेषकरके वि-
भक्तिविही- } भाग और विभागा-
नपरम् } भावसे रहित है

ननु = निश्चयकरके

कार्यविकार्य- } कार्य और कार्यके
विहीनपरम् } अभावसे भी वह
रहित है

यदि च = जब कि वह

एकनिरन्तर- } = एकरस सर्वमें क-
सर्वशिवम् } ल्याणरूप है

यजनम्=पूजन

कथम् = किस प्रकार होसकताहै

तपनं च=और तप करना

कथम् = कैसे होसकताहै

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—उस चेतन आत्मामें विभाग और अविभाग और कार्य तथा कार्याभाव यह सब नहीं है, क्योंकि वह एकरस सर्वमें व्यापक और कल्याणस्वरूप है तब फिर उसमें पूजन करना और तपस्या करना यह सब कैसे बनसकतीहै ? किन्तु कदापि नहीं बन सकता है ॥ २ ॥

मन एव निरन्तरसर्वगतं ह्यविशालविशालविही-
नपरम् । मन एव निरन्तरसर्वशिवं मनसापि कथं
वचसा च कथम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

मनः, एव, निरन्तरसर्वगतम्, हि, अविशालविशालविही-
नपरम्, मनः, एव, निरन्तरसर्वशिवम्, मनसा, अपि, कथम्,
वचसा, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

एव = निश्चयकरके

मनः = मन ही

निरन्तर- } = निरन्तर सर्वगत है
सर्वगतम् }

हि = निश्चय करके

अविशालवि- } = विस्तारके अभाव
शालविही- } और विस्तारसे
नपरम् } रहित है

मन एव = मन ही

निरन्तरस- } निरन्तर सर्वरूपक-
र्वशिवम् } ल्याणरूप है

मनसा = मन करके

अपि = निश्चय करके

कथम् = कैसे जाना जाय

वचसा च = और वाणी करके

कथम् = कैसे कहा जाय

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—मनका ही रचाहुआ यह संसार है इसीवास्ते मन ही सर्वगत है और विस्तार और विस्तारके अभाववाला भी मन ही है और मन ही एकरस कल्याणरूप भी है, क्योंकि मनके शान्त होजानेसे यह जगत् भी सब शांत ही होजाताहै वह ब्रह्म चेतन मनकरके कैसे जानाजाय और वाणी करके कैसे कहा जाय, क्योंकि वह मन वाणीका विषय नहीं है ॥ ३ ॥

दिनरात्रिविभेदनिराकरणमुदितानुदितस्य निरा-
करणम् । यदिचैकनिरन्तरसर्वशिवं रविचन्द्रमसौ
ज्वलनश्च कथम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

दिनरात्रिविभेदनिराकरणम्, उदितानुदितस्य निराकरणम् ।
यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, रविचन्द्रमसौ, ज्वलनः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

दिनरात्रिवि- भेदनिरा- करणम्	} = दिन और रात्रिके भेदका निराकरणे	यदि च = यदि च
उदितानुदितस्य- निराकरणम्		} = उदित और अनुदितका नि- राकरण करना
		ज्वलनः = अग्नि
		कथम् = यह कैसे सिद्ध होसकते हैं

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहतेहैं—उस चेतनमें दिन और रात्रिका भेद मी
नहीं है, जब कि दिन और रात्रिही उसमें नहीं है तब दिन और रात्रिका भेद
कैसे होसकता है और दिन रात्रि सूर्यादिकके उदय होनेसे और अनुदय
होनेसे होतेहैं, सो उदय अनुदय भी उसमें नहीं है, क्योंकि यदि एक चेतन
सर्वत्र कल्याणस्वरूप विद्यमान है तब सूर्य चन्द्रमा और अग्नि भी उसमें
सिद्ध नहीं होते हैं ॥ ४ ॥

गतकामविकामविभेद इति गतचेष्टविचेष्टविभेद
इति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं बहिरन्तरभिन्न-
मतिश्च कथम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

गतकामविकामविभेदः, इति, गतचेष्टविचेष्टविभेदः, इति, यदि,
च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, बहिः, अन्तरभिन्नमतिः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

गतकामवि- } =इच्छा और इच्छाके	यदि च=यदि च वह
कामविभेदः } अभावका भी भेद	एकनिरन्तर- } =एक निरन्तर सर्व-
इति=इस प्रकारका व्यवहार भी	सर्वशिवम् } गत है कल्याणरूप है
उसमें नहीं है	वहिरंतर- } =तब फिर वह बाहर भी-
गतचेष्टविचेष्ट- } =चेष्टा और चेष्टा-	भिन्नमतिः } तर भिन्न है ऐसी बुद्धि
विभेदः } के अभावकाभी भेद	च=और
इति =ऐसा भी नहीं है	कथम्=कैसे बनसकती है

भावार्थः--दत्तात्रेयजी कहते हैं—जब कि सकामता और निष्कामताका भेद उसमें नहीं है और चेष्टा तथा चेष्टाके अभावकाभी भेद उसमें नहीं है क्योंकि वह एकरस कल्याणरूप व्यापक है तब फिर बाहर और भीतर भी नहीं उसमें बनता है क्योंकि वह आनन्दघन है ॥ ५ ॥

यदि सारविसारविहीन इति

यदि शून्यविशून्यविहीन इति ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

प्रथमं च कथं चरमं च कथम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

यदि, सारविसारविहीनः, इति, यदि, शून्यविशून्यविहीनः, इति । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, प्रथमम्, च, कथम्, चरमम्, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

यदि=यदि वह ब्रह्म	एकनिरन्तर- } =किन्तु वह एक ही
सारविस्तार } =सार और विस्तार-	
विहीनः } वस्तुत्वे रहित है	सर्वशिवम् } निरन्तर सर्वरूप
इति=इस प्रकार वेद कहता है	प्रथमम्=तब फिर आदि
यदि=वह वेदान्त	कथम्=उसमें कैसे
शून्यविशून्य- } =शून्यसे और शून्यके	च=और
विहीनः } अभावसे भी रहित है	चरमम्=अन्त उसमें
इति=इस प्रकार शास्त्र कहता है	कथम्=कैसे हो सकते हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जब कि वह वेदान्त ब्रह्म यह सार है यह असार है इस व्यवहारसे रहित है और शून्य तथा शून्यके अभावके व्यवहारसे भी रहित इस प्रकार वेद और शास्त्र और पुनराकारके कहता है, किन्तु वह एक है, एकरस है कल्याणरूप है जब कि वह ऐसा है तब फिर उसमें यह प्रथम है अर्थात् आदि है यह चरम है अर्थात् अन्त है यह व्यवहार कैसे होसकता है किन्तु करामि भी नहीं ॥ ६ ॥

यदि भेदविभेदानिराकरणं

यदि वेदकवेदनिराकरणम् ।

यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं

तृतीयं च कथं तुरीयं च कथम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

यदि, भेदविभेदानिराकरणम्, यदि, वेदकवेदनिराकरणम् । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, तृतीयम्, च, कथम्, तुरीयम्, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

यदि=जब कि वह चेतन
भेदविभेदानि- } =सामान्य विशेष-
राकरणम् } भेदसे रहित है

यदि=जब कि वह
वेदकवेदानि- } =ज्ञाता ज्ञेयके व्यव-
राकरणम् } हारसे भी रहित है

यदि च=यदि च

एकनिरन्तर- } =जब एक है एकरस
सर्वशिवम् } सर्वत्र पूर्ण और कल्या-
ण रूप है तब

तृतीयं च=तीसरा

कथम्=कैसे और

तुरीयं च=चतुर्थ

कथम्=कैसे

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहतेहैं—यदि उस चेतन आत्मामें किसी प्रकारका भी भेद नहीं बनताहै और ज्ञाताज्ञेयका व्यवहार भी उसमें नहीं बनताहै, क्योंकि वह द्वैतसे रहित एक ही सर्वत्र एकरस पूर्ण है तब फिर उसमें तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था कैसे बनताहै किन्तु कदापि नहीं बनतीहै ॥ ७ ॥

गदितागदितं न हि सत्यमिति विदिताविदितं न-
हि सत्यमिति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं विष-
येन्द्रियबुद्धिमनांसि कथम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

यदितागदितम्, न, हि, सत्यम्, इति, विदिताविदितम्, नहि,
सत्यम्, इति, यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, विषयेन्द्रि-
यबुद्धिमनांसि, कथम् ॥ पदार्थः ।

गदिताग- } =कथन किया और
दितम् } कथन न किया दोनों

सत्यम्=सद्रूप

न हि=नहीं हैं

इति=इस प्रकार कहाहै

विदितावि- } =विदित और अवि-
दिनम् } दित भी

सत्यम्=सत्य

न हि=नहीं है

यदि च=यदि च वह चेतन

एकनिरन्तर- } =निरन्तर सर्वभे एक
सर्वशिवम् } है कल्याणरूप है तब

विषयेन्द्रिय- } =यह विषय हैं, इन्द्रिय
बुद्धिमनांसि } हैं, बुद्धि है, मन है

यह सब

कथम्=किस प्रकार होसकते हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जो गदितागदित है, अर्थात् कथन किया गया है और कथन किया जाता है इस प्रकारका व्यवहार भी सत्य नहीं है और जो कि ज्ञात हुआ है और ज्ञात नहीं ऐसा व्यवहार भी सत्य नहीं है क्योंकि, वह चेतन एक है एकमें इस तरहका व्यवहार नहीं बनता है और फिर विषय इन्द्रिय तथा बुद्धि और मन उसमें कैसे बनसकते हैं किन्तु किसी घरहसे भी नहीं बनसकते हैं ॥ ८ ॥

गगनं पवनो न हि सत्यमिति धरणी दहनो न हि
सत्यमिति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं जलदश्च
कथं सलिलं च कथम् ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

गगनम्, पवनः, न, हि, सत्यम्, इति, धरणी, दहनः, न
हि, सत्यम्, इति । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, जलदः,
च, कथम्, सलिलम्, च, कथम् ॥,

गगनम्=आकाश और

पवनः=वायु यह दोनों

सत्यम्=सत्य

न हि = नहीं हैं

इति=इसी प्रकार

धरणी=पृथिवी और

दहनः=अग्नि यह भी

सत्यम्=सत्य

न हि=नहीं है

इति=इसीतरह

यदि च=यदि वह

एकनिरन्तर } = एकही निरन्त सर्व
सर्वशिवम् } व्यापक कल्याणरूप है
तब फिर

च=और

जलदः=बादल

कथम्=किस प्रकार

च=और

सलिलम्=जल

कथम्=किस प्रकार सत्य होसकता है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—आकाश, वायु, पृथिवी, अग्नि यह जो संसारमें कहे जाते हैं यह कुछ नहीं है, जब एक, अविनाशी सदा कल्याणरूप ब्रह्म ही है तो मेघ कहां और जल कहां ॥ ९ ॥

यदि कल्पितलोकनिराकरणं यदि कल्पितदेवनिराकरणम् । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं गुणदोषविचारमतिश्च कथम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

यदि, कल्पितलोकनिराकरणम्, यदि, कल्पितदेवनिराकरणम् । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, गुणदोषविचारमतिः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

यदि=जब कि उसमें

कल्पितलोक } =कल्पित लोकका
निराकरणम् } वेदवाक्योंकरके दूरीकरण होता है,

यदि=फिर जब कि

कल्पितदेवनिराकरणम् } =कल्पित देवताका भी उसमें दूरीकरण होता है

यदि च=जब कि वह चेतन

एकनिरन्तरसर्वशिवम् } =एक है निरन्तर सर्वमें व्यापक कल्याणरूप है

च=तब फिर और

गुणदोषविचारमतिः } =गुण और दोषोंके विचारकी बुद्धि कथम्=कैसे होसकती है

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो कि पृथिवी, स्वर्ग, पाताल आदि लोकोंका निषेक है अर्थात् व्यवहारदशामें यह लोक माने गये हैं परमार्थमें कुछ नहीं, जब कि इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आदि देवता कल्पनामात्रके हैं और जब कि एक, नित्य कल्याणस्वरूप ब्रह्म ही है तो इसमें ये दोष हैं इसके विचारकी बुद्धिही नहीं होसकती है ॥ १० ॥

मरणामरणं हि निराकरणं करणाकरणं हि निराकरणम् । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं गमनागमनं हि कथं वदति ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।-

मरणामरणम्, हि, निराकरणम्, करणाकरणम्, हि,
निराकरणम् । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, गमना-
गमनम्, हि, कथम्, वदति ॥

पदार्थः ।

हि=निश्चयकरके	भी	एकनिरन्तर- सर्वशिवम्	} =वह एक है और तत्र पूर्ण है कल्याण रूप है तत्र
मरणामरणम्=मरण अमरणका उत्तमं			
निराकरणम्=दूरीकरण है		गमनागमनम्=गमन अगमन भी	
करणाकरणम्=करण अकरणका	भी	हि=निश्चयकरके	
हि=निश्चयकरके		कथम्=किस प्रकार	
निराकरणम्=उत्तमं दूरीकरण है		वदति=कथन करना वदता है किन्तु नहीं	
यदि च=जब कि			

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जब कि उस आत्माके जन्ममरण नहीं होते और उसका
कुछ कर्तव्य भी नहीं और अकर्तव्य भी नहीं है जब कि वह अद्वितीय नित्य,
सर्वव्यापक शिव है तब उसके जन्म मृत्यु किस प्रकार होसकते हैं ॥ ११ ॥

प्रकृतिः पुरुषो न हि भेद इति न हि कारणकार्य-
विभेद इति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं पुरुषा-
पुरुषं च कथं वदति ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

प्रकृतिः, पुरुषः, न, हि, भेदः, इति, न, हि, कारणका-
र्यविभेदः, इति । यदि च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, पुरुषा-
पुरुषम्, च, कथम्, वदति ॥

पदार्थः ।

प्रकृतिः=प्रकृति है

पुरुषः=पुरुष है

इति=इस प्रकारका

भेदः=वास्तव भेद भी

न हि=नहीं है और

कारणका- } =कारणकार्यका भेद

र्थाभिभेदः } भी

इति=इस तरहका

न हि=नहीं है

यदि च=जब कि वह

एकानिरन्त- } =एक ही एकरस सर्व
रार्वाशिवम् } रूप कल्याण स्वरूप
है तब फिर

पुरुषाऽपु- } यह पुरुष है यह पुरुष
रुपम् } नहीं है

च=और

कथम्=किस प्रकार

वदति=कथन करता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं--प्रकृति और पुरुषमें कुछ भेद नहीं क्योंकि कारण और कार्यका कुछ भी भेद नहीं होता जब कि एक, नित्य, व्यापक, कल्याण-स्वरूप ब्रह्म ही है तो पुरुष और प्रकृतिका भेद क्यों कहते हो ॥ १२ ॥

तृतीयं न हि दुःखसमागमनं न गुणाद्द्वितीयस्य
समागमनम् । यदि चैकानिरन्तरसर्वाशिवं स्थवि-
रश्च युवा च शिशुश्च कथम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

तृतीयम्, न, हि, दुःखसमागमनम्, न, गुणात्, द्विती-
यस्य, समागमनम् । यदि, च, एकानिरन्तरसर्वाशिवम्,
स्थविरः, च, युवा, च, शिशुः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

तृतीयम्=तीसरा

दुःखसमा- } =दुःखका सम्यक्
गमनम् } भागमन भी

न हि=नहीं है

गुणात्=गुण

द्वितीयस्य=दूसरेका

समागमनम्=समागम

न=नहीं है

यदि च=यदि च

एकनिरन्तर- } =सर्वरूप और
सर्वशिवम् } कल्याणरूप एकही
निरन्तर है

स्थविरः च=बुढ़ापा कैसे

युवा च=और युवा और

शिशुश्च=शिशु अवस्था

कथम्=किस प्रकार

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं तीसरा और कोईभी दुःख नहीं है और अन्यदुःखका अच्छी तरहका आगमन भी होता नहीं है, एक गुणसे दूसरेका समागम नहीं होता है और यदि सर्व प्रपञ्चरूप, कल्याणरूप, और निरन्तर है और जिसकी बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, वृद्धावस्था, भी नहीं होती है ऐसा ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ ॥ १३ ॥

ननु आश्रमवर्णविहीनपरं ननु कारणकर्तृविहीन-
परम् । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवमविनष्टविनष्ट-
मतिश्च कथम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

ननु, आश्रमवर्णविहीनपरम्, ननु, कारणकर्तृविहीन-
परम् । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, अविनष्टविनष्ट-
मतिः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

ननु=निश्चयकरके

आश्रमवर्ण- } =आश्रम और वर्णसे
विहीनपरम् } रहित परम श्रेष्ठ है

ननु=निश्चयकरके

कारणकर्तृ- } =कारणकर्तृसे भी
विहीनपरम् } रहित है

यदि च=यदि च

एकनिरन्तर- } =यह एक है-सर्वरूप
सर्वशिवम् } कल्याणरूप भी है तब

अविनष्टवि- } =नाशसे रहित और

नष्टमतिः च } भाशवाली बुद्धि

कथम्=कैसे है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्माका कोई आश्रम या वर्ण नहीं है तथा कारण और कर्त्ताका भावभी नहीं है ! जब कि आत्मा एक, नित्य, सर्वव्यापक और कल्याणस्वरूप है तो नाश न होनेवाली या नाश होनेवाली बुद्धि उसके विषयमें किस प्रकारसे हो सकती है ॥ १४ ॥

असिताप्रसितं च वितथ्यमिति जनिताजनितं च
वितथ्यमिति । यदि चैकनिरन्तरसर्वाशिवमविना-
शिविनाशि कथं हि भवेत् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

असिताप्रसितम्, च, वितथ्यम्, इति, जनिताजनितम्, च,
वितथ्यम्, इति । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वाशिवम् अविना-
शिविनाशि, कथम्, हि, भवेत् ॥

पदार्थः ।

असिता- } = प्रसनेवाला और प्रसा-	इति=इस प्रकार
असितं च } हुआ दोनों	
वितथ्यम् = मिथ्या है	यदि च=यदि च
इति=इसी प्रकार	एकनिरन्त- } = एक चेतनही सर्व-
जनिताज- } = उत्पन्न करनेवाला और	रसर्वाशिवम् } रूप कल्याणरूप है
नितम् च } उत्पन्न हुआ	अविनाशि- } = नाशसे रहित नाश-
तथ्यम्=यह भी मिथ्या है	विनाशि } वाला
	कथं भवेत् = कैसे हो सकता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जब कि वह चेतन ब्रह्म एक ही निरन्तर सर्वरूप और कल्याणरूप है तब फिर यह प्रसनेवाला है और यह प्रसाज्जाता है यह व्यवहार नहीं बनेता है और इसी तरह यह उत्पन्न करनेवाला है, यह उत्पन्न होता है यह विनाशी है यह नाशसे रहित है, यह संपूर्ण व्यवहार मिथ्या ही सिद्ध होते हैं १५

पुरुषापुरुषस्य विनष्टमिति वनितावनितस्य विनष्ट-
मिति । यदि चैकनिरन्तरसर्वाशिवमविनोदविनोद-
मतिश्च कथम् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

पुरुषापुरुषस्य, विनष्टम्, इति, वनितावनितस्य, विनष्टम्,
इति । यदि च, एकनिरन्तरसर्वाशिवम्, अविनोदविनोदमतिः,
च, कथम् ॥

पदार्थः ।

पुरुषापु- } =पुण्य और अपुण्यका
रुषस्य } भी व्यवहार

विनष्टम् = उसमें नष्ट है

इति = इसी प्रकार

वनिताव- } = स्त्री और नपुंसक व्य-
नितस्य } वहार भी

विनष्टम् = विनष्ट है

इति = इसी प्रकार

अविनोदवि- } = शोक और हर्षबुद्धि
नोदमतिः } उसमें

कथम् = कैसे होसकता है ?

यदि च = यदि च

एकनिरन्तर- } = यह चेतन एक है
सर्वाशिवम् } निरन्तर कल्याण-
स्वरूप है ।

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मामें मनुष्य और मनुष्यका अभाव होना स्त्री
होना या स्त्री न होना यह व्यवहार नहीं होसकता जब कि नित्य, सर्व
व्यापक, कल्याणस्वरूप ब्रह्म एक है तो स्त्रीत्व न करना या स्त्रीत्व करनेकी
बुद्धि किस प्रकार होसकती है ॥ १६ ॥

यदि मोहविषादविहीनपरो यदि संशयशोकविहीन-
परः । यदि चैकनिरन्तरसर्वाशिवमहमोति ममोति
कथं च पुनः ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

यदि, मोहविषादविहीनपरः, यदि, संशयशोकविहीनपरः ।
यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, अहम्, आ, इति, मम, इति,
कथम्, च, पुनः ॥

पदार्थः ।

यदि=जब कि वह चेतन

मोहविषादवि-
हीनपरः } =मोह और विषा-
दसे रहित और
श्रेष्ठ है और

यदि = जब कि वह

संशयशोकवि-
हीनपरः } =संशय और शोक-
से रहित है

यदि च = जब कि वह

एकनिरन्तर-
सर्वशिवम् } =एक ही निरन्तर
सर्वरूप कल्याणस्वरूप
रूप भी है तब फिर

अहम्=मैं हूँ

आ = सब तरफसे

इति =इस प्रकार

मम इति=मेरा है इस प्रकार

कथं च पुनः=फिर कैसे व्यवहार
होसकता है

मावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जब कि ब्रह्म अज्ञान और कष्टसे रहित है,
और सन्देह तथा शोकसे रहित है, सबसे परे है, और एक है, नित्य है,
सर्वव्यापक है, तो मैं और मेरी ऐसी बुद्धि किस प्रकार होसकती है ॥ १७ ॥

ननु धर्मविधर्मविनाश इति ननु बन्धविबन्ध-
विनाश इति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवमिह
दुःखविदुःखमतिश्च कथम् ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

ननु, धर्मविधर्मविनाशः, इति, ननु, बन्धविबन्धविनाशः, इति ।
यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, इह, दुःखविदुःखमतिः, च,
कथम् ॥

पदार्थः ।

धर्मविधर्म- { = धर्म और विरुद्ध धर्म	एकनिरन्त- { = वह एक निरन्तर सर्व-
विनाशः { दोनोंका नाश	रसर्वशिवम् { रूप कर्याणस्वरूप है
इति = इसप्रकारका व्यवहार और	च = और तब फिर
बन्धविवन्ध- { = सामान्य विशेष	इह = इस चेतनमें
विनाशः { बन्धका नाश	दुःखविदुः- { = दुःख और विदुःख-
इति = ऐसा व्यवहार	खमतिः { मति
आदि च = यदि च	कथम् = कैसे बनसकती है

भाषार्थः--दत्तात्रेयजी कहते हैं--जब कि आत्मामें सामान्य तथा विशेष धर्मका नाश है, और साधारण तथा असाधारण बन्धका अभाव है अर्थात् धर्म हो या अधर्म, दोनों ही संसारमें बन्धन करनेवाले हैं, यदि वेदादिविहित कर्म करके धर्मका सञ्चय किया जायगा तो उसका फल स्वर्गमें नानाप्रकारका सुखभोग होगा और यदि पापकर्म किये जावेंगे तो नरक, रोग, शोक, आदि त्रिविध तापोंके वशमें होकर क्लेश सहने पड़ेंगे इससे ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें "शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्" के अनुसार आत्मा सदा त्रिभुक्ति, निर्गुण है देहसे गुणोंके अनुसार जो कर्म होतेहैं उनका आत्मसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा एक नित्य, सर्वव्यापक, कल्याणस्वरूप है इसलिये आत्मामें दुःखी सुखीकी बुद्धि किसी प्रकार नहीं होसकती ॥ १८ ॥

न हि याज्ञिकयज्ञविभाग इति न हुताशनवस्तु-
विभाग इति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं वद
कर्मफलानि भवन्ति कथम् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, याज्ञिकयज्ञविभागः, इति, न, हुताशनवस्तुविभागः,
इति । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, वद, कर्मफलानि,
भवन्ति, कथम् ॥

पदार्थः ।

याज्ञिकयज्ञ-
विभागः } =यज्ञमें होनेवाले
कार्यका यज्ञके
साथ विभाग

इति न = भिन्न २ नहीं है

हुताशनवस्तु-
विभागः } =भूमि और वस्तुका
भी विभाग

इति न = भिन्नताकरके नहीं है

यदि च = यदि य

एकनिरन्तर-
सर्वशिवम् } =वह एक निरन्तर
सर्वरूप कल्याणस्व-
रूप संत्य है तब फिर

कर्मफलानि = कर्मोंके फल

वद = कहो

कथम् = किस प्रकार

भवन्ति = होते हैं

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—यदि च यज्ञमें होनेवाले कर्मका यज्ञके साथ विभाग नहीं है और भूमिमें हवन करी हुई वस्तुका भूमिके साथ भी विभाग नहीं रहता है । इसी तरह एक निरन्तर सर्वरूप कल्याणस्वरूप चेतनका भी किसीके साथ विभाग नहीं है क्योंकि चेतनमें सर्ववस्तु कल्पित है तब फिर कर्म और कर्मके फलोंका भी विभाग कैसे होसकताहै किन्तु कदापि नहीं होसकता है ॥ १९ ॥

ननु शोकविशोकविमुक्त इति ननु दर्पविदर्पविमुक्त
इति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं ननु रागविराग-
मतिश्च कथम् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

ननु, शोकविशोकविमुक्तः, इति, ननु, दर्पविदर्पविमुक्तः,-
इति । यदि, च एकनिरन्तरसर्वशिवम्, ननु, रागविरा-
गमतिः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

ननु=निश्चयकरके वह

शोकविशोक- } =शोक और विशो-
विमुक्तः } कसे रहित है

इति=इस प्रकार

ननु=निश्चयकरके

दर्पविदर्प- } =दर्पविदर्पसे भी वह
विमुक्तः } रहित है

इति = इस प्रकार

यदि च=जब कि वह

एकनिरन्तर- } =एक सर्वरूप और
सर्वशिवम् } शिवरूप निरन्तर है

ननु=निश्चयकरके

रागविराग- } =राग विरागवाली

मतिः } बुद्धि फिर

च=और

कथम्=किस प्रकार होसकती है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—वह चेतन आत्मा साधारणशोकसे और असाधारण शोकसे भी रहित है इसीप्रकार साधारण अहंकारसे और असाधारण अहंकारसे भी वह रहित है अपनी जातिको कष्ट होनेसे जो शोक है, वह साधारण शोक है और अपने स्त्री आदिकोंको कष्ट होनेसे जो शोक है वह असाधारण शोक है और इसी प्रकार अहंकार भी दो तरहका है एक जो जातिका अहंकार कि, हमारी जाति ही उत्तम है सो यह साधारण है दूसरा धनसंबंधियोंका असाधारण अहंकार है जो हम ही धनी और संबंधियोंवाले हैं । इस तरहके शोक और दर्पसे यदि वह रहित है और एक ही सर्वरूप कल्याणस्वरूप है तब फिर किसीमें राग और किसीमें विराग यह बुद्धि कैसे होसकती है किंतु कदापि नहीं ॥ २० ॥

न हि मोहविमोहविकार इति न हि लोभविलोभ-
विकार इति । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं ह्यवि-
वेकविवेकमतिश्च कथम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

न, हि, मोहविमोहविकारः, इति, न, हि, लोभविलोभ-
विकारः, इति । यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम्, हि,
अविवेकविवेकमतिः, च, कथम् ॥

पदार्थः ।

मोहविमो- } =मोह विमोहका
 हविकारः } विकार
 न हि—उसमें नहीं है
 इति=इसी प्रकार
 लोमविलोभ- } =लोभ विलोभका
 विकारः } विकार
 न हि=नहीं है
 इति=इसी प्रकार

यदि च=यदि च
 एकनिरञ्जन- } =एक, निरञ्जन सर्व-
 सर्वाशिवम् } रूप, कल्याणरूप है
 हि=निश्चयकरके
 अविवेकवि- } =विवेकसे रहित और
 वेकगतिः } विवेकवाला
 च आर
 कथम् कैसे है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—ब्रह्ममें साधारण तथा विशेष अज्ञान नहीं है और अज्ञानका किसी प्रकारका विकार भी नहीं है इसी प्रकार साधारण तथा विशेष लोभ तथा उसको विकार भी नहीं है । जबकि एक, नित्य सव्ययपक कल्याणरूप ब्रह्म है तो अविचार और विचार यह बुद्धि किस प्रकार होसकती है ॥ २१ ॥

त्वमहं न हि हन्त कदाचिदपि कुलजातिविचार-
 मसत्यमिति । अहमेव शिवः परमार्थ इति अभि-
 वादनमत्र करोमि कथम् ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

त्वम्, अहम्, न, हि, हन्त, कदाचित्, अपि, कुल-
 जातिविचारम्, असत्यम्, इति । अहम्, एव, शिवः,
 परमार्थः, इति, अभिवादनम्, अत्र, करोमि, कथम् ॥

पदार्थः ।

त्वम्=तू और

अहम्=मैं वह अहंकार

इन्त=(इति खेदे)

कदाचित्=कदाचित्

अपि=भी सत्य

न हि=नहीं है

इति = इसी प्रकार

कुलजाति- } =कुल और जातिका

विचारम् } विचार भी

असत्यम्=असत्य ही है

अहम्=मैं ही

एव=निश्चयकरके

शिवः=कल्याणरूप

परमार्थः=परमार्थ सत्य हूँ

इति=ऐसा होनेपर

अत्र=यहाँ

अभिवादनम्=बंदनाको

कथम् = किस प्रकार

करोमि = मैं करूँ

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—यह मैं हूँ यह तू है इस प्रकारका जो कि मेदज्ञानका अहंकार है यह कदाचित् भी सत्य नहीं है और कुल तथा जाति आदिकोंका जो विचार है हमारा कुल बड़ा उत्तम है और हमारी जाति भी उत्तम है यह भी सत्य नहीं है किन्तु मैं सद्गुण शिवरूप परमार्थस्वरूप हूँ मेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अद्वैतरूप हूँ तब फिर बन्दना करनी भी किसको नहीं बनती है ॥ २२ ॥

गुरुशिष्यविचारविशीर्ण इति उपदेशविचारवि-
शीर्ण इति । अहमेव शिवः परमार्थ इति अभि-
वादनमत्र करोमि कथम् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

गुरुशिष्यविचारविशीर्णः, इति, उपदेशविचारविशीर्णः,
इति । अहम्, एव, शिवः, परमार्थः, इति, अभिवा-
दनम्, अत्र, करोमि, कथम् ॥

पदार्थः ।

गुरुशिष्यविचारविशीर्णः	} -गुरु औरशिष्य- भावका विचार भी निरस्त है	एव=निश्चयकरके
इति=इस प्रकार		शिवः=शिवरूप
उपदेशविचारविशीर्णः	} उपदेशका विचार भी मिथ्या है	परमार्थः=परमार्थस्वरूप हूँ
इति=इसी प्रकार		इति=इसी प्रकार
अहम्=मैं ही		अत्र=यहां
		अभिवादनम्=वन्दनाको
		करोमि=करूँ
		कथम्=कैसे

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—उस अद्वैत चेतनमें यह गुरु हैं यह शिष्य है इस प्रकारका जो कि विचार है सो भी नहीं बनता है। जब कि उसमें गुरुशिष्य भाव ही नहीं तब उपदेश करना भी नहीं बनता है। फिर जब कि, मैं एक ही कल्याण स्वरूप परमार्थसे सत्यरूप हूँ तब अभिवादनव्यवहार भी नहीं बनता है ॥ २३ ॥

नहि कल्पितदेहविभाग इति नहि कल्पितलोक-
विभाग इति । अहमेव शिवः परमार्थ इति अभि-
वादनमत्र करोमि कथम् ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ।

नहि, कल्पितदेहविभागः, इति, नहि, कल्पितलोकविभागः,
इति । अहम्, एव, शिवः परमार्थः, इति, अभिवादनम्,
अत्र, करोमि, कथम् ॥

पदार्थः ।

कल्पितदे-	} = कल्पित देहकरके भी भेद	एव=निश्चयकरके
हविभागः		परमार्थ=परमार्थ
न हि=नहीं सिद्ध होता है		शिवः=शिवरूप हूँ
इति=इसी प्रकार		इति=ऐसे होनेपर तत्र फिर
कल्पितलो-	} = कल्पित लोकोंकरके भी विभाग	अभिवादनम्=वदनाको
कविभागः		अत्र=यहां
न हि=नहीं सिद्ध होता है		कथम्=किस प्रकार
इति=इसी प्रकार		करोमि=मैं करूँ
अहम्=मैं ही		

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—यह देह भी उसी आत्मामें कल्पित है और लोक भी सब उसी आत्मामें कल्पित है कल्पित वस्तुओंकरके उसका भेद किसी प्रकारसे भी सिद्ध नहीं होता है इसीवास्ते मैं ही परमार्थसे शिवरूप कल्याणरूप एक ही हूँ तब फिर अभिवादनव्यवहार कैसे बनता है किन्तु कदापि भी नहीं बनता है ॥ २४ ॥

सरजो विरजो न कदाचिदपि ननु निर्मलनिश्चल
शुद्ध इति । अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवाद्-
नमत्र करोमि कथम् ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ।

सरजः, विरजः, न, कदाचित्, अपि, ननु, निर्मलनि-
श्चलशुद्धः, इति । अहम्, एव, शिवः, परमार्थः, इति,
अभिवादनम्, अत्र, करोमि, कथम् ॥

पदार्थः ।

सरजः=रागके सहित	अहम् = मैं ही
विरजः=विरागके सहित	एव = निश्चयकरके
कदाचित्=कदाचित् भी	शिवः = शिवरूप
अपि=निश्चयकरके	परमार्थः = परमार्थस्वरूप हूँ
न=नहीं है	इति = इस प्रकार
ननु=निश्चयकरके	अत्र = यहां
निर्मल. {=निर्मल और निश्चल	अभिवादनम् = अभिवादनको
निश्चलशुद्धः } तथा शुद्ध है	करोमि = मैं करूँ
इति=इस प्रकारका वह है	कथम् = कसे

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—हम शिवरूप है इसवास्ते हम कदाचित् भी रागके सहित और विरागके सहित नहीं है किन्तु हम निर्मल निश्चय शुद्धरूप हैं हमारेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है इसवास्ते अभिवादन भी नहीं बनता है ॥२५॥

न हि देहावदेहाविकल्प इति अनृतं चरितं न हि सत्यमिति । अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवादनमत्र करोमि कथम् ॥ २६

पदच्छेदः ।

न, हि, देहाविकल्पः, इति, अनृतम्, चरितम्, न, हि, सत्यम्, इति । अहम्, एव, शिवः, परमार्थः, इति, अभिवादनम्, अत्र, करोमि, कथम् ॥

पदार्थः ।

देहविदेह-	} = वह देहवाला है या देहसे रहित है	अहम् = मैंही
विकल्पः		एव = निश्चय करके
इति = इस प्रकारका		शिवः = शिवरूप
विकल्पः = विकल्प भी		परमार्थः = परमार्थस्वरूप हूँ
न हि = उससे नहीं बनता है		इति = इस प्रकार
अनृतम् = मिथ्या और		अत्र = यहां
चारित्र्यम् = सत्य चारित्र्य भी		अभिवादनम् = नामको
इति=इसमें		करोमि = म कहूं
सत्यम् = सत्यरूप		कथम् = कसे
न हि = नहीं है तब फिर		

मौवार्थः ।

स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं--उस चेतनमें इस तरहका विकल्प भी नहीं बनता है कि, वह देहसे रहित है या देहवाला है और मिथ्या चारित्र्य भी उसमें कोई सत्य नहीं है सो मैं हूँ परमार्थ सत्य और कल्याणस्वरूप हूँ तब अभिवादन करना कैसे बनता है किन्तु कदापि नहीं बनता है ॥ २६ ॥

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र च्छन्दोलक्षणं नहि
नहि तत्र । समरसमग्रे भावितपूतः, प्रलपति
तत्त्वं परमवधूतः ॥ २७ ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-
कार्तिकसंवादे स्वात्मवित्युपदेश मोक्षनि-
र्णयो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

विन्दति, विन्दति, नहि, नहि, यत्र, छन्दः, लक्षणम्,
नहि, नहि, तत्र । समरसमग्रे, भावितपूतः, प्रलपति,
तत्त्वं, परमवधूतः ॥

पदार्थः ।

यत्र = जिस ब्रह्मचेतनमें
विन्दति = कछ लभता है
विन्दति = कछ लभता ह
न हि न हि = नहीं २
तत्र = तिस ब्रह्ममें
छन्दः = छन्दरूप
लक्षणम् = कविताभी

नहि नहि = नहीं है २
तत्र = तिस ब्रह्ममें
समरसमग्नः = एकरसमग्न हुआ २
भावितपूतः = शुद्धचित्तवाला
परमवधूतः = परम अवधूत
तत्त्वम् = आत्मतत्त्वको ही
प्रलपति = कथन करता ह

भाषाथः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—शुद्धचित्तवाला परम अवधूत उस ब्रह्ममें एकरस मग्न हुआ २ क्या किसी पदार्थको या छन्दकी कविताको लभता है ? नहीं लभता है क्योंकि उस चेतनमें तीनों कालोंमें दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है इस-वास्ते आत्मानन्दसे भिन्न किसी वस्तुको भी वह नहीं लभता है किन्तु आत्म-नन्दमें ही वह मग्न रहता है ॥ २७ ॥

इति श्रीमदवधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित-
परमानन्दीभाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः ७.

श्रुदत्त उवाच ।

रथ्याकर्षटविरचितकन्थः पुण्यापुण्यविवर्जित पन्थः ।
शून्यागारे तिष्ठति नग्नो शुद्धनिरञ्जनसम-
रसमग्नः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

रथ्याकर्षटविरचितकन्थः, पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः ।
शून्यागारे, तिष्ठति, नग्नः, शुद्धनिरञ्जनसमरसमग्नः ॥

पदार्थः ।

स्थयाकर्पटधिर- चितकन्थः	} = गलियोंमें गिर- पड़े टुकड़ोंकी गुदड़ों वनाकर	शून्यागारे = शून्यमंदिरमें
		नम्रः = नम्र होकरके
पुण्याऽपुण्यवि- वर्जितपन्थः	} -पुण्य और पापके मार्गसे राहत हुआ	तिष्ठति = स्थिर होता है
		शुद्धनिरंजन- समरसमग्नः } = शुद्ध मायामलसे रहित ब्रह्मानंदमें मग्न

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहतेहैं—समरस कौन है ? जिस रसका अर्थात् आनन्दका कभी भी नाश न हो ऐसा ब्रह्मानन्द ही है उसी ब्रह्मानन्दमें मग्न जो कि अवधूत है वह गलियोंमें गिरेपड़े पुराने टुकड़ोंको लेकर उनकी गुदड़ी बनाकर और पुण्यपापके मार्गसे अलग होकर शून्यमंदिरमें जाकर नम्र अवधूत स्थित होता है क्योंकि वह शुद्धचित्तवाला और मायामलसे रहित होता है ॥ १ ॥

लक्ष्यालक्ष्यविवर्जितलक्ष्यो युक्तायुक्तविवर्जित-
तदक्षः । केवलतत्त्वनिरञ्जनपूतो वादविवादः
कथमवधूतः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

लक्ष्यालक्ष्यविवर्जितलक्ष्यः, युक्तायुक्तविवर्जितदक्षः ।

केवलतत्त्वनिरञ्जनपूतः, वादविवादः, कथम्, अवधूतः ॥

पदार्थः ।

लक्ष्यालक्ष्यवि- वर्जितलक्ष्यः	} = लक्ष्य अलक्ष्यसे रहित लक्ष्यस्वरूप	केवलतत्त्व-	} = केवल आत्मतत्त्व- निरञ्जनपूतः } करके पवित्र हुआ २
		अवधूतः = अवधूत है	
युक्तायुक्तवि- वर्जितदक्षः	} = युक्त अयुक्तसे विव- र्जित और चतुर	वादविवादः = वादविवाद फिर	
		कथम् = कैसे ?	

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहतेहैं—एक तो लक्ष्य होता है दूसरा अलक्ष्य होता है जिस वस्तुमें जिज्ञासु लोग अपनी चित्तकी वृत्तिको लगाते हैं वहीं

लक्ष्य होताहै और जिसमें वृत्तिको नहीं लगाते हैं वह अलक्ष्य कहाजाता है सो जो कि केवल आत्मतत्त्वमें लीन होगया है मायामलसे रहित पवित्र अवधूत है सो लक्ष्य अलक्ष्य दोनोंसे रहित हैं और जो कि योगमें जुडाहै वह युक्त कहाजाता है जो नहीं जुडाहै वह अयुक्त कहाजाता है वह युक्तायुक्तसे भी रहित है और षतुर है उसका किसीके साथ वादविवाद करना कैसे बनता है किन्तु नहीं बनता है ॥ २ ॥

**आशापाशविबन्धनमुक्ताः शौचाचारविवर्जित-
युक्ताः । एवं सर्वविवर्जितसन्तस्तत्त्वं शुद्धनि-
रञ्जनवन्तः ॥ ३ ॥**

पदच्छेदः ।

आशापाशविबन्धनमुक्ताः, शौचाचारविवर्जितयुक्ताः ।

एवम्, सर्वविवर्जितसन्तः, तत्त्वम्, शुद्धनिरञ्जनवन्तः ॥

पदार्थः ।

आशापाशवि- } आशा रूप पाशके
बन्धनमुक्ताः } बन्धनसे रहित है

शौचाचारवि- } = बाहरके शौच
वर्जितयुक्ताः } आचारसे रहित वह
आत्मामें जुडे हैं

एवम् = इस प्रकार

सर्वविवर्जिता } = सर्व आचारोंसे
सन्तस्तत्त्वम् } रहितसे तत्त्व है

शुद्धनिरञ्जनवन्तः = शुद्ध मायामलसे
रहित है

भावार्थः--इत्तात्रेयजी कहतेहैं--वह अवधूत जीवन्मुक्त आशा रूपी पाशसे रहित है संपूर्ण बन्धनोंसे रहित है इसीसे वह बाहरके शौच रूपी आचारसे भी रहित है क्योंकि वह आत्मामें जुडाहुआहै और शरीरके भी संपूर्ण तत्त्वोंमें तिसकां अध्यास नहीं है शुद्ध है मायामलसे वह रहित है ॥ ३ ॥

**कथमिह देहविदेहविचारः कथमिह रागविरागवि-
चारः । निर्मलनिश्चलगगनाकारं स्वयमिह तत्त्वं
सहजाकारम् ॥ ४ ॥**

पदच्छेदः ।

कथम्, इह, देहविदेहविचारः, कथम्, इह, रागविराग-
विचारः । निर्मलनिश्चलगगनाकारम्, स्वयम्, इह,
तत्त्वम्, सहजाकारम् ॥

पदार्थः ।

इह=जीवन्मुक्त अवधूतावस्थामें

देहविदेह- } =यह देह है यह विगत
विचारः } देह है इसप्रकारका विचार

कथम्=कैसे होसकता है किन्तु नहीं

इह=इसी अवस्थामें

कथम्=कैसे

रागविराग- } =रागविरागका विचार
विचारः } कैसे होसकताहै क्योंकि

निर्मलनिश्चल- } -वह निर्मल है निश्च-
गगनाकारम् } ल है आकाशकी
तरह व्यापक है

स्वयम्=आपही वह

सहजाकारम्=स्वाभाविक

इह तत्त्वम्=ब्रह्मतत्त्व है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो अवधूत जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त
होगयाहै उसकी दृष्टिमें यह देह नहीं है इस प्रकारका विचार कैसे होसकता
है और किसीमें राग किसीमें विराग ऐसा विचार भी उसकी दृष्टिमें नहीं
होता है क्योंकि वह निर्मल है निश्चल है गगनके आकारकी तरह व्यापक
है स्वभावसे ही सहजाकार है ॥ ४ ॥

कथमिह तत्त्वं विदन्ति यत्र रूपमरूपं कथमिह
तत्र । गगनाकारः परमो यत्र विषयीकरणं कथ-
मिह तत्र ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

कथम्, इह, तत्त्वम्, विन्दति, यत्र, रूपम्, अरूपम्,
कथम्, इह, तत्र । गगनाकारः, परमः, यत्र विषयी-
करणम्, कथम्, इह, तत्र ॥

पदार्थः ।

इह=जीवन्मुक्तअवस्थामें	यत्र=जिस अवस्थामें
तत्त्वम्=तत्त्वको	गगनाकारः=केवल गगनके आकार-
कथम्=किस प्रकार	वाला
विदन्ति=जानताह	परमः=परमतरव है
यत्र=जिस अवस्थामें	तत्र=तिस अवस्थामें
रूपम्=रूप और	इह=इस चेतनमें
अरूपम्=अरूप नहीं है	विषयीकरणम्=विषय करना
इह तत्र=तिस अवस्थामें	कथम्=कैसे होसकताहै
कथम्=कैसे किसको जान सकता है	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस ब्रह्ममें जिस अवधूत अवस्थामें रूप अरूप कोई भी तत्त्व मान नहीं होताहै किन्तु गगनवत् व्यापक परमतरवरूप होजाता है उस अवस्थामें विषयकिरणव्यवहार भी नहीं होताहै ॥ ५ ॥

गगनाकारनिरन्तरहंसस्तत्त्वविशुद्धनिरञ्जनहंसः ।

एवं कथमिह भिन्नविभिन्नं बन्धविवन्धविकार-
विभिन्नम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

गगनाकारविरन्तरहंसः, तत्त्वविशुद्धनिरञ्जनहंसः । एवम्,
कथम्, इह, भिन्नविभिन्नम्, बन्धविवन्धविकारविभिन्नम् ॥

पदार्थः ।

गगनाकारनि- रन्तरहंसः	} =गगनके तुरह्य निरन्तर वह हंसरूप है	एवम्=इस प्रकार होनेपर
		इह=इस आत्मामें
		भिन्नविभिन्नम्=भिन्न भेद
		कथम्=किस प्रकार होसकताहै
तत्त्वविशुद्ध- निरञ्जनहंसः	} =आत्मतत्त्व शुद्ध है मायामुक्ते रहित है हंसरूप है	बन्धविव- } =यह बन्ध है यह नहीं न्धविका- } है ऐसा भेद भी नहीं रविभिन्नम् } बनता है

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहते हैं—वह ब्रह्म आकाशके तुल्य सर्वव्यापक-आत्मरूप है निर्लेप है हंसस्वरूप है इस प्रकार आत्माकी स्थिति होनेपर इससे सदृश अथवा भिन्न किस प्रकार होसकताहै, और यह बन्ध है यह बन्धनरहित है, यह विकाररहित है यह भी नहीं होसकता ॥ ६ ॥

केवलतत्त्वनिरन्तरसर्वं योगिवियोगौ कथमिह
गर्वम् । एवं परमनिरन्तरसर्वमेवं कथमिह सार-
विसारम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

केवलतत्त्वनिरन्तरसर्वम्, योगवियोगौ, कथम्, इह, गर्वम् ।
एवम्, परमनिरन्तरसर्वम्, एवम्, कथम्, इह सारविसारम् ॥

पदार्थः ।

केवलतत्त्व- निरन्तर सर्वम्	} =केवल आत्मतत्त्व ही एकारस सर्वरूप है	परमनिरं- तरसर्वम्	} =परम निरन्तर सर्व- रूप है एव=निश्चयकरके तब फिर इह=इस आत्मानमें सारविचारम्=यह सार है यह असार है कथम्=यह कैसे होसकताहै ? किन्तु नहीं होसकताहै
योगवियोगौ		=संयोग और वियोगका	
इह	=इस आत्मानमें		
गर्वम्	=अंकार		
कथम्	=कैसे बनसकताहै		
एवम्	=इसी प्रकार		

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहते हैं—एक आत्मतत्त्व ही नित्य सर्वव्यापक है उसमें संयोग और वियोग कुछ भी नहीं, संसारमें किसीकी उत्पत्तिके समय जो संयोग और मरणके समय जो वियोग साम्य जाती है यह कल्पनमात्र है इससे कुछ भी अभिमान उचित नहीं ॥ ७ ॥

केवलतत्त्वनिरञ्जनसर्वं गगनाकारनिर्तरशुद्धम् ।
एवं कथमिह संगविसङ्गं सत्यं कथमिह रङ्ग-
विरंगम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

केवलतत्त्वनिरञ्जनसर्वम्, गगनाकारनिरन्तरशुद्धम् । एवम्, कथम्, इह, सङ्गविसङ्गम्, सत्यम्, कथम्, इह, रङ्गविरङ्गम् ॥

पदार्थः ।

केवलतत्त्वनि- रञ्जनसर्वम्	} =केवल आत्मतत्त्व ही मायामलसे रहित सर्वरूप है	सङ्गवि-	} =सत्संग और विरुद्ध कुसंग
गगनाकारनि- रन्तरशुद्धम्		सङ्गम्	
एवम्=ऐसे होनेपर	} =आकाशवत् एकरस वह शुद्ध है	कथम्=कैसे बनसकताहै किन्तु नहीं-	} =कैसे बनसकताहै किन्तु नहीं- इह=इस आत्मामें सत्यम्=सत्य रङ्गविरङ्गम्=रंग और विलक्षण रंग कथम्=कस बनसकताहै किन्तु नहीं बनता है
इह=इस आत्मामें		रङ्गविरङ्गम्	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहतेहैं—कि, केवल आत्मतत्त्व ही मायामलसे रहित सर्वरूप है आकाशवत् एकरस और शुद्ध है ऐसे होनेपर इस आत्मामें सत्संग और इससे-विरुद्ध जो कुसंग है सो कैसे बनसकते हैं, किन्तु नहीं, इस आत्मामें सत्य, रंग, और लक्षणरंग कैसे बनसकताहै किन्तु नहीं बनता है, ऐसा मैं हूँ ॥ ८ ॥

योगवियोगै रहितो योगी; भोगविभोगै रहितो भोगी । एवं चरति हि मन्दंमन्दं मनसा कल्पित-सहजानन्दम् ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

योगवियोगैः, रहितः, योगी, भोगविभोगैः, रहितः, भोगी । एवम्, चरति, हि, मन्दंमन्दम्, मनसा, कल्पितसहजानन्दम् ॥

पदार्थः ।

योगी=आत्मतत्त्वमें मग्न योगी	मनसा=मनकरके
योगवियोगैः=संयोग और वियोगसे	कल्पितसंह- } कल्पितसहजानन्द-
रहितः=रहित है और	जानन्दम् } नन्दको
भोगी=भोगी	हि=निश्चयकरके
भोगीव- } =विहित भोगसे और अ-	मन्दम्=धीरे
भोगैः } हित भोगसे	मन्दम्=धीरे
रहितः=रहित हुआ २	चरति=विचरताह अर्थात्, आत्म नंदा
प्लवम्=इस प्रकारका योगी	को प्राप्त होताह

भावार्थः ।

दूचात्रेयजी कहतेहैं—आत्मतत्त्वमें मग्न हुआ योगी संयोगसे और वियोगसे भी रहित है और योगी भोगसे भी रहित और सहित है इस प्रकारका योगी मनकरके कल्पना किया हुआ सहजानन्दको निश्चय कर धीरे धीरे विचरता है अर्थात् आत्मानन्दको प्राप्त होताह ॥ ९ ॥

बोधविवोधैः सततं युक्तो द्वैताद्वैतैः कथमिह मुक्तः ।
सहजो विरजाः कथमिह योगी शुद्धनिरञ्जनसम-
प्रसभोगी ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

बोधविवोधैः, सततम्, युक्तः, द्वैताद्वैतैः, कथम्, इह, मुक्तः ।
सहजः, विरजाः, कथम्, इह, योगी, शुद्धनिरञ्जनसमप्रसभोगी ॥

पदार्थः ।

बोधविवोधैः=ज्ञान अज्ञान करके युक्त	इह=इस संसारमें
सततम्=निरन्तर	योगी=योगी
युक्तः=युक्त हुआ २ और	सहजः=स्वभावसे ही
द्वैतद्वैतैः=द्वैत और अद्वैतकरके युक्त	विरजाः=रगसे रहित
हुआ २	कथम्=किस प्रकार होवेगा क्योंकि योगी
इह=इस संसारमें	शुद्धनिरञ्जन- } =शुद्ध है मायामलसे रहित आत्मानन्दको समरसभोगी } ही भोक्ता है
कथम्=किस प्रकार	
मुक्तः=मुक्त ह'त ह	

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—ज्ञान और अज्ञान दोनोंसे युक्त तथा द्वैत और अद्वैत दोनोंको माननेवाला अमिश्रित तत्त्ववाला योगी मुक्त नहीं होसकता कदाचित् कहाजाय कि स्वभावसेही रजोगुणके नाश होनेसे शुद्धज्ञान उत्पन्न होजायगा जिससे माया और उससे उत्पन्न हुई वासनाओंसे रहित होकर योगी ब्रह्मानन्दका अनुभव करसकताहै यह नहीं होसकता आत्मज्ञानसे कर्मबन्धके नष्ट होजानेसे और अद्वैतज्ञानके उत्पन्न होनेसे ही मुक्ति होतीहै ॥ १० ॥

भ्रमाभ्रविवर्जितभ्रमो लज्जालज्जविवर्जितलज्जः । एवं
कथमिह सारविसारः समरसतत्त्वं गगनाकारः ॥ ११ ॥
पदच्छेदः ।

भ्रमाभ्रविवर्जितभ्रमः, लज्जालज्जविवर्जितलज्जः, । एवम्,
कथम्, इह, सारविसारः, समरसतत्त्वम्, गगनाकारः ॥

पदार्थः ।

भ्रमाभ्रविव- } =आत्मतत्त्वमें भ्रम	सारविसारः=सारविसार मी
र्जितभ्रमः } अभ्रम नहीं है	कथम्—किसी प्रकारसे भी नहीं है
लज्जालज्जवि- } =लज्ज और अलज्जसे	समरस- } =क्योंकि वह आत्मतत्त्व
र्जितलज्जः } रहित है अर्थात् कि-	तत्त्वम् } एकरस
सासे लज्ज भी नहीं है	गगना- } =गगनाकार है आकाश-
एवम्=ऐसा हानेपर	कारः } वत् व्यापक है
इह=इह आत्मामें	

भावार्थः—इच्छान्नेयजी कहते हैं—आत्मतत्त्व आकाशके समान अनन्त अपार और यथार्थरूपसे जाननेके अयोग्य है आत्माको खण्ड हुआ अखण्ड हुआ अथवा किसी अंशमें खण्ड हुआ और किसी अंशमें अखण्ड हुआ नहीं कहसकते किसीमें लगा हुआ किसीमें नहीं लगा हुआ अथवा किसी अंशमें लगा हुआ किसी अंशमें नहीं लगा हुआ भी नहीं कहसकते, इसी प्रकार आत्मतत्त्वमें कितना सारभाग और कितना असारभाग है यह नहीं कहा जासकता प्रयोजन यह है कि जैसा आकाशका ठीक जानलेना कठिन है ऐसा आत्माका जानलेना भी बहुत कठिन है ॥ ११ ॥

सततं सर्वविवर्जितयुक्तः सर्वं तत्त्वविवर्जितमुक्तः ।
एवं कथमिह जीवितमरणं ध्यानाध्यानैः कथमिह
करणम् ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

सततम्, सर्वविवर्जितयुक्तः, सर्वम्, तत्त्वविवर्जितमुक्तः ।
एवम्, कथम्, इह, जीवितमरणम्, ध्यानाध्यानैः,
कथम्, इह, करणम् ॥

पदार्थः ।

सततम्=निरन्तर योगी

सर्वविवर्जित-
युक्तः } =सर्वसे रहित आत्म-
तत्त्वमेंही जुड़ा रहता है

सर्वम्=संपूर्ण

तत्त्वविवर्जित-
मुक्तः } =तत्त्वसे रहित हुआ
ही मुक्त है

एवम्=ऐसा होनेपर

इह=इस आत्मतत्त्वमें

जीवितमरणम्=जीना और मरण

कथम्=कैसे बनसकता है फिर

इह = इसी आत्मतत्त्वमें

ध्यानाध्यानैः=ध्यान और ध्यानःमा-

करणम् = करना [वक्रा

इह = इसमें

कथम्=किस प्रकार होसकता है;

किन्तु किसी तरहसे नहीं

भावार्थः—इच्छान्नेयजी कहते हैं—आत्मज्ञानी संसारके पदार्थोंसे प्रयोजन न रखकर आत्मामें ही रमता है, प्रकृति सहस्रान्नादि विकारोंसे रहित होनेसे जीवन्मुक्त होजाता है ऐसी दशामें आत्माकी उत्पत्ति और मरण कैसे होसकते हैं, और उसके ध्यान करने और न करनेसे क्या प्रयोजन है ॥ १२ ॥

इन्द्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका ।

अखण्डितघनाकारो वर्तते केवलं शिवः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

इन्द्रजालम्, इदम्, सर्वम्, यथा, मरुमरीचिका ।

अखण्डितघनाकारः, वर्तते, केवलम्, शिवः ॥

पदार्थः ।

इदम्=यह जगत्

सर्वम्=संपूर्ण

इन्द्रजालम्=इन्द्रजालके तुल्य है और

यथा=जैसे

मरुमरी- } =मृगतृष्णाका जल
चिका } मिथ्या होता है तसे यह
भी सब मिथ्या है

अखण्डित- } =नाशसे रहित घना-
घनाकारः } कार

केवलम्=केवल

शिवः=कल्याणस्वरूप आत्मा ही

वर्तते=वर्तता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं--यह सब जगत् इन्द्रजालके समान झूठा है और मार-
वाढदेशमें पानी न होनेसे प्यासे मृगोंको चन्द्रमाके उदय होनेपर घमकते हुए
वाढके कण जैसे पानीके समान दूरसे मालूम पडते हैं पास जानेमें वहां पानीका
केश भी नहीं रहता ऐसा यह संसार है । इसमें फँसेहुए मनुष्यको छीपुत्रादिके
ऊपर जो ममत्व होजाता है वह भ्रान्तिमूलक है उससे कभी शान्ति नहीं
होसकती इस जगत्में भाकर जानने अथवा उपासना करने योग्य यदि कुछ
है तो परिपूर्ण साविदानन्द एक शिव ही है ॥ १३ ॥

धर्मादौ मोक्षपर्यन्तं निरीहाः सर्वथा

कथं रागविरागैश्च कल्पयन्ति ।

१४ ॥

पदच्छेदः ।

धर्मादौ, मोक्षपर्यन्तम्, निरीहाः,

कथम्, रागविरागैः, च, ९

अयम् = हम

धर्मादौ = धर्मसे आदि लेकर

मोक्षपर्यंतम् = मोक्षपर्यंत सर्वविषयोंमें

सर्वथा = सर्वप्रकारकी

निरीहाः = चेष्टाओंसे रहित हैं तत्र फिर

विपश्चितः = मण्डित लाग

कथम् = किस प्रकार

च = और में

रागादि- } = राग और विराग करके

रागैः } युक्त

कल्पयन्ति = कल्पना कर सकते हैं

किन्तु कदापि नहीं

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—धर्मसे लेकर मोक्षतक हम सब प्रकारसे इच्छा रहित हैं । बुद्धिमान् मनुष्य प्रीति अथवा द्वेष किसी पर नहीं करते ॥ १४॥

विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र छन्दो लक्षणं नहि
नहि तत्र । समरसमग्रो भावितपूतः प्रलपति
तत्त्वं परमवधूतः ॥ १५ ॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिका-
र्तिकसंवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

विन्दति, विन्दति, नहि, नहि, यत्र, छन्दः, लक्षणम्,
नहि, नहि, तत्र । समरसमग्रः, भावितपूतः, प्रलपति,
तत्त्वम्, परमवधूतः ॥

पदार्थः ।

यत्र = जिस चेतनमें

छन्दः = छन्दरूपी

लक्षणम् = वेद भी वास्तवसे

नहि नहि = सत्य नहीं २

तत्र = उसी चेतनमें प्राप्त होकर

विन्दति } = कुछ जानता है जानता

विन्दति } है

नहि नहि = कुछ भी नहीं जानता है २

समरसमग्रः = आत्मानन्दमें मग्न

भावितपूतः = शुद्धचित्वाला

परमवधूतः = श्रेष्ठ अवधूत

तत्त्वम् = आत्मतत्त्वको ही

प्रलपति = कथन करता है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस चेतन पदार्थको वेद भी यथार्थ-
रूपसे नहीं जान सकते उसी चेतनको ब्रह्मानन्दमें मग्न हुए शुद्ध आशयवाले
अवधूतराज दत्तात्रेय कहते हैं ॥ १५ ॥

इति श्रीमदवधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचितपर-
मानन्दीभाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ८.

श्रुदत्त उवाच ।

त्वद्यात्रया व्यापकता हता ते ध्यानेन चेतःपरता
हता ते । स्तुत्या मया वाक्परता हता ते क्षमस्व
नित्यं त्रिविधापराधान् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

त्वद्यात्रया, व्यापकता, हता, ते, ध्यानेन, चेतः-
परता, हता, ते । स्तुत्या, मया, वाक्परता, हता, ते,
क्षमस्व, नित्यम्, त्रिविधापराधान् ॥

पदार्थः ।

त्वद्यात्रया=तुम्हारी यात्रासे

व्यापकता=व्यापकता

हता=हत हुई

ते = तुम्हारे

ध्यानिन=ध्यानकरके

चेतःपरता=चित्तकी विषयपरता

हता = हत हुई

ते = तुम्हारी

स्तुत्या=स्तुतिकारके

मया = हमारी

वाक्- } =वाणी परकी स्तुति

परता } =विषयपरता

हता=नष्ट हुई इसवास्ते

ते = तुम्हारेसे

त्रिविधाप- } =तीनप्रकारके अपरा-

राधान् } धोंको

नित्यम् = नित्य ही

क्षमस्व = क्षमा करो

भावार्थः—इत्तात्रेयजी अपने ही आत्मासे कहते हैं—हे चेतन तुम्हारी यात्रा करनेसे अर्थात् तुम्हारी तरफ जिस कालमें हमारे चित्तने चलना प्रारम्भ किया उसी कालमें चित्तकी विषयोंकी तरफसे व्यापकता नष्ट होगई । तुम्हारी यात्रासे पहले चित्त विषयोंमें व्याप्त जाता था अब नहीं व्यापता है और तुम्हारे ध्यान करके चित्तकी विषयपरायणता नष्ट होगई अर्थात् तुम्हारे ध्यानसे पहले चित्त नष्ट विषयको देखता ही उसकी तरफ दौडजाता था अब नहीं दौडता है । फिर तुम्हारी स्तुति वाणीमें जो कि परकी निन्दा स्तुति आदिक दोष या बह भी नष्ट होगया इसीवास्ते में अब नित्य ही तीनप्रकारके अपराधोंसे क्षमाको माँगता हूँ क्यों कि यह तीनों अपराध मेरे नष्ट होगये हैं ॥ १ ॥

कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः ।

अनीहो मितभुक्छान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

कामैः, अहतधीः, दान्तः, मृदुः, शुचिः, अकिञ्चनः ।

अनीहः, मितभुक्, शान्तः, स्थिरः, मच्छरणः मुनिः ॥

कामैः=कामनाकरके

अहतधीः=बुद्धि जिसकी हत नहीं है

अर्थात् जो कि निष्काम है और

दान्तः=बाह्य इन्द्रियोंका भी जिसने

दमन किया है

मृदुः=कोमल स्वभाव

शुचिः=शुद्ध चित्तवाला

अकिञ्चनः=संग्रहसे रहित है

अनीहः=इच्छा भी किसी पदार्थकी जिसको नहीं है

मितभुक्=मितका भोजन करता है

शान्तः=शान्त है

स्थिरः=स्थिर है बलापमान किसी कारके नहीं होता है

मच्छरणः=आत्माकी शरण है

मुनिः=उसीको नाम मुनि है

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहते हैं—जिसकी बुद्धि किसी बातकी इच्छा न करके अर्थात् निष्काम होनेसे द्रष्ट नहीं हुई है अक्षु आदि बाह्य इन्द्रियोंको बशमें जिसने कर रखा है कोमल चित्तवाला हो, पवित्र रहताहो, किसी पदार्थको संग्रह न

करता हो और इच्छा भी किसी बातकी न करताहो, थोडासा भोजन करता हो, शान्त हो स्थिरबुद्धि हो मितभाषी हो, वही आत्मज्ञानी है ॥ २ ॥

अप्रमत्तौ गभीरात्मा धृतिमाञ्जितषड्गुणः ।

अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

अप्रमत्तः, गभीरात्मा, धृतिमान्, जितषड्गुणः । अमानी, मानदः, कल्पः, मैत्रः, कारुणिकः, कविः ॥

पदार्थः ।

अप्रमत्तः=प्रमादसे रहित होमा और	अमानी = मानसे रहित
गभीरात्मा = गंभीरस्वभाष होना	मानदः = दूसरेको मानदेना
धृतिमान् = धैर्ययुक्त होना	मैत्रः कल्पः=करुणाकरके युक्त होना
जितषड्- } =जीतीलिये हैं छः इन्द्रिय	कविः = दाघदशा होना
गुणः } और उसके विषय जिसने	

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—सदा सावधान रहनेवाला, गंभीर स्वभाववाला धैर्य-शील, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन छः विकारोंको जीता हुआ, अभिमान रहित सब कामोंमें कुशल सबसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करनेवाला और दयाशील साधु कहाजाताहै ॥ ३ ॥

कृपालुरकृतद्रोहस्तिक्षुः सर्वदेहिनाम् ।

सत्यासारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

कृपालुः, अकृतद्रोहः, तिक्षुः, सर्वदेहिनाम् । सत्यासारः, अनवद्यात्मा, समः, सर्वोपकारकः ॥

पदार्थः ।

कृपालुः = जो कि कृपालु है
 तितिक्षुः = सहनशील
 सर्वदेहिनाम् = संपूर्ण देहधादियोंके
 साथ जो किं
 अकृत- } = कुछ द्रोहको नहीं
 द्रोहः } करताहै
 समः = सर्वमें एक ही आत्माको देखताहै

सत्यासारः = सत्यका ही जो कि तात्पर्य
 है अर्थात् जिसमें सत्य ही
 मरा है
 अनवद्यात्मा = जन्ममरणसे रहित है
 सर्वोपकारकः = सबका उपकारही
 करताहै

भावार्थः ।

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—जो कृपा करनेवाला सहनशील और संपूर्ण देहधारियोंके साथ जो कि द्रोह करनेवाला नहीं है और सब जगह तम बुद्धि रखनेवाला है और जो सत्यही बोलनेवाला है, जन्ममरणसे रहित है सबका उपकारी है ऐसा मैं हूँ ॥ ४ ॥

अवधूतलक्षणं वर्णैर्ज्ञातव्यं भगवत्तमैः ।

वेदवर्णार्थतत्त्वज्ञैर्वेदवेदान्तवादिभिः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

अवधूतलक्षणम्, वर्णैः, ज्ञातव्यम्, भगवत्तमैः ।

वेदवर्णार्थतत्त्वज्ञैः, वेदवेदान्तवादिभिः ॥

अवधूतलक्षणम् = अवधूतका लक्षण
 भगवत्तमैः = भक्तोंकरके और
 वर्णैः = वर्णोंवालोंकरके और
 वेदवर्णार्थतत्त्वज्ञैः = वेद वर्णोंके अ-
 र्थके तत्त्वको जा-
 ननेवाले

वेदवेदान्तवादिभिः = वेदवादियों—
 करके भी वह लक्षण

ज्ञातव्यम् = जानना उचित है और
 ऊपर जो अपरमतादि
 गुण कहे हैं यह साधारण
 महात्माओंके गुण कहे हैं

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—अवधूतके लक्षण सभी सक्त तथा ज्ञानि-
 योंको जानने चाहिये वेद शास्त्र आदिमें अच्छा ज्ञान हो तथापि अवधूत
 लक्षण सभीको जानना योग्य है ॥ ५ ॥

अब आगेके श्लोकोंमें असाधारण अवधूतके लक्षणको दिखाते हैं और अवधूत-पदके प्रत्येक वर्णके अर्थको प्रत्येक श्लोकोंमें दिखाते हैं ।

तथाच—

आशापाशविनिर्मुक्त आदिमध्यान्तनिर्मलः ।

आनन्दे वर्तते नित्यमकारं तस्य लक्षणम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

आशापाशविनिर्मुक्तः, आदिमध्यान्तनिर्मलः । आनन्दे, वर्तते, नित्यम्, अकारम्, तस्य, लक्षणम् ॥

पदार्थः ।

आशापाश-	} =आशाखी पाशसे जोकि रहित है	नित्यम्=नित्य ही वर्तते=वर्तताहै
विनिर्मुक्तः		
आदिमध्यान्त-	} =आदि मध्य और अन्त तीनों काळों-म जोकि निर्मल है	तस्य=तिसका अकारम्=अकार
निर्मलः		
आनन्दे = ब्रह्मानन्दमें ही		लक्षणम्=लक्षण है

भावार्थः—श्रीस्वामीदत्तात्रेयजी अब अवधूतके लक्षणोंको कहतेहैं—जो कि संसारके पदार्थोंमें अर्थात् भोगोंमें आशाखी पाशसे रहित है अर्थात् जिसकी किसी भोगपदार्थमें आशा नहीं है और जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति यह तीनों अवस्था हैं इन तीनों अवस्थाओंमें जिसका चित्त विषय विकारोंकी तरफ नहीं जाताहै किन्तु शुद्ध है, अथवा भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काळोंमें जिसका चित्त शुद्ध है अथवा कुमार, यौवन, वृद्धा इन तीनों अवस्थाओंमें जिसका चित्त निर्विकार रहता है आर नित्य ही ब्रह्मानन्दमें मग्न रहता है यह लक्षण अर्थात् यह अर्थ अवधूत शब्दके अकारका है ॥ ६ ॥

वासना वर्जिता येन वक्तव्यं च निरामयम् ।

वर्तमानेषु वर्तते वकारं तस्य लक्षणम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

वासना, वर्जिता, येन, वक्तव्यम्, च, निरामयम् ।

वर्तमानेषु, वर्तत, वकारश्च, तस्य, लक्षणम् ॥

पदार्थः ।

येन=जित्त पुर्यने

वासना=वासनाका

वर्जिता=त्याग करदिया है

च=और

वक्तव्यम्=वक्तव्य जित्तना

निरामयम्=रोगसे रहित है

वर्तमानेषु=वर्तमानमें ही

वर्तत=वर्तताहै

तस्य=तिसका

लक्षणम्=लक्षण

वकारश्च=वकार है

भावार्थः—इत्तात्रेयजी अब अवधूत शब्दगत वकार अक्षरके अर्थको कहते हैं जो कि वासनासे रहित है अर्थात् इस लोकके भोगोंसे लेकर ब्रह्मलोकके भोगोंतक जिसके चित्तमें किसी भी भोगको वासना नहीं है । वासना दो प्रकारकी होती है एक दो शुभवासना है दूसरी अशुभवासना है शुभवासना अन्तःकरणकी शुद्धिका हेतु है, अशुभवासना बन्धनका हेतु है सो दोनों प्रकारकी वासनाओंका जिसने त्याग करदिया है, शुभवासनाका त्याग इसवास्ते उसने किया है कि, अब तिसको चित्तकी शुद्धि भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सिद्धावस्थाको प्राप्त होगयाहै और कथन जिसका निरोग है किसीके भी चित्तमें खेदको उत्पन्न नहीं करता है और वर्त्म नपे ही होनेसे पदोंसे शरीरका चिन्ताह करछेता है उसीमें मग्न होके आनन्दमें रहताहै भविष्यत्की चिन्ताको नहीं करत है यह अवधूत शब्दके वकार अक्षरका अर्थ है ॥ ७ ॥

धूलिधूसरगात्राणि धूतचित्तो निरामयः ।

धारणाध्याननिर्मुक्तो धूकारस्तस्य लक्षणम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

धूलिधूसरगात्राणि, धूतचित्तः, निरामयः । धारणाध्यान-
निर्मुक्तः, धूकारः, तस्य, लक्षणम् ॥

पदार्थः ।

घृलिघूस- } =घृलिकरके घूसर हैं	धारणाध्या- } =धारणा और ध्यानसे
रगात्राणि } अङ्ग जिसके	ननिर्मुक्तः } रहित है
धृताचित्तः=योगयागयाहै पापोंसे चित्त	तस्य=तिस शब्दके
जिसका	घूकारः=घूकारका
निरामयः=रोगसे रहित	लक्षणम्=अर्थ है

भावार्थः—अत्र दत्तात्रेयजी अवधूत शब्दके घू अक्षरके अर्थको दिखाते हैं जिसके सब शरीरके अंग घृलिसे घूमिल हैं और देवीसंपदके साधनोंकरके जिसका चित्त धोयागयाहै, फिर जो कि रोगसे रहित है अर्थात् रोगद्वेषादिक रोग जिसमें नहीं है, योगशास्त्रोन धारणा और ध्यानसे भी जो रहित है क्योंकि सर्वत्र ही उसकी ब्रह्मदृष्टि हो रही है, यह सब घू अक्षरका अर्थ है ॥ ८ ॥

तत्त्वचिन्ता धृता येन चिन्ताचेष्टाविवर्जितः ।

तमोऽहंकारनिर्मुक्तस्तकारस्तस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

पदच्छेदः ।

तत्त्वचिन्ता, धृता, येन, चिन्ताचेष्टाविवर्जितः तमो-
हंकारनिर्मुक्तः, तकारः, तस्य, लक्षणम् ॥

पदार्थः ।

येन=जिसने	तमोहंकार- } =धारणा और अहंका-
तत्त्वचि- } =आत्मतत्त्वकी चिन्ताको	निर्मुक्तः } स्ते जो कि रहित है
न्ताधृता } धारण किया है	तस्य=तिसके:
चिन्ताचेष्टा- } =संसारकी चिन्ता और	तकारः=तकारका यह
विवर्जितः } चेष्टासे जो कि रहित है	लक्षणम्=अर्थ है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी अत्र अवधूत शब्दके तकारके अर्थको कहते हैं—जिसने आत्मतत्त्वके चिन्तनको ही धारण किया है और सांसारिक किसी पदार्थका

भी जो कि चिन्तन नहीं करता है फिर जो कि, संसारके मोगोंकी ब्रेश और चिन्तासे रहित है अज्ञानका कार्य जो कि अहंकार, है उससे भी जो कि रहित है यह अर्थ अवधूत शब्दके तत्कारका है ॥ ९ ॥

आत्मानं चामृतं हित्वा अभिन्नं मोक्षमव्ययम् ।

गतो हि कुत्सितः काको वर्तते नरकं प्रति ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

आत्मानम्, च, अमृतम्, हित्वा, अभिन्नम्, मोक्षम्, अव्ययम् । गतः, हि, कुत्सितः, काकः, वर्तते, नरकम्, प्रति ॥

पदार्थः ।

आत्मानम्=आत्माको
अमृतम्=अमृतरूपको
अभिन्नम्=अभिन्नको
मोक्षम्=मोक्षस्वरूपको
अव्ययम्=अव्ययको
हित्वा=त्याग करके

हि=निश्चयकरके
कुत्सितः=मानन्दत
काकः=काक
नरकम्=नरकके
प्रति=प्राति
वर्तते=वर्तता है

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—कुत्सित जो पुत्र्य हैं अर्थात् भेदवादी अज्ञानी पुत्र्य वा विषयी पुत्र्य हैं सो अनृतरूप मोक्षस्वरूप सर्वमें भेदसे रहित जो एक आत्मा है, तिसका त्याग करके बार २ नरकके प्राति ही दौड़ते हैं ॥१० ॥

मनसा कर्मणा वाचा त्यज्यतां मृगलोचनां ।

न ते स्वर्गोऽपवर्गो वा सानन्दं हृदयं यदि ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।

मनसा, कर्मणा, वाचा त्यज्यताम्, मृगलोचना । न, ते, स्वर्गः, अपवर्गः, वा, सानन्दम्, हृदयम्, यदि ॥

पदार्थः ।

मनसा=मन करके	ते=तुम्हारेको
कर्मणा=क्रियाकरके	स्वर्गः=स्वर्गसुख और
वाचा=वाणीकरके	अपवर्गः=मोक्षसुख और
मृगलो- } =मृगके तुल्य नेत्रोंवाली	दा=अथवा
चना } त्रियोंका	हृदयम्=हृदयमें
त्यज्यताम्=त्याग करदेवो	सानन्दम्=आनन्द भी
यादि न=यदि नहीं करोगे तब	न=नहीं होवेगा

भावार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं--मन वाणी और कर्मसे लीको छोडदेना चाहिये संसारमें बन्धन करनेवाली ली ही है, बन्धन ही नाना प्रकारके दुःखोंका कारण है इससे दुःखकी जड ही काटदेना बुद्धिमानका काम है, हे जीव ! जब तेरा मन यदि आनन्दपूर्ण होजाय तो स्वर्ग और मोक्ष किसी पदार्थकी आवश्यकता नहीं है ॥ ११ ॥

न जानामि कथं तेन निर्मिता मृगलोचना ।

विश्वासघातकीं विद्धि स्वर्गमोक्षसुखार्गलाम् ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

न, जानामि, कथम्, तेन, निर्मिता, मृगलोचना ।

विश्वासघातकीं, विद्धि, स्वर्गमोक्षसुखार्गलाम् ॥

पदार्थः ।

न जानामि=हम इस बातको नहीं जानते हैं	विश्वासघा- } =विश्वासको घात
	तकीम् } करनेवाली
तेन=विघाताने	विद्धि = तू जान और
मृगलोचना=मृगके लोचनवालीलीको	स्वर्गमोक्षसु- } =स्वर्ग और मोक्षसुख -
कथम्=किसवास्ते	खार्गलाम् } में विन्नरूप अर्गल है
निर्मिता = रखा वह कैसी है	

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मने अपने मननबाणोंके जाळने संतारको फंसानेवाली जियोंको क्यों बनाया वह तनझने नहीं आता मेरी समझसे तो लीको विधासघात ऐसे बड़े पापोंको करनेवाली स्वर्ग नोक्ष और सुखको नष्ट करनेवाली, पुण्यकी शत्रु समझना चाहिये ॥ १२ ॥

मूत्रशोणितदुर्गन्धे ह्यमेध्यद्वारदूषिते ॥

चर्मकुण्डे ये रमन्ति ते लिप्यन्ते न संशयः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

मूत्रशोणितदुर्गन्धे, हि, अमेध्यद्वारदूषिते । चर्मकुण्डे,
ये, रमन्ति, ते, लिप्यन्ते, न, संशयः ॥

पदार्थः ।

हि = निश्चयकरके

मूत्रशोणितदुर्गन्धे = मूत्र और रक्तके
दुर्गन्धयुक्त

अमेध्यद्वारदूषिते = मलके द्वारोंसे
दूषित

चर्मकुण्डे = इस चर्मकुण्डमें

ये = जो पुण्य

रमन्ति = रमण करते हैं

ते = वे

लिप्यन्ते = दुःखमय संतारमें लिप्त
होते हैं

न संशयः = इसमें तन्देह नहीं है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—जिस लीको कामीलोग विधुवदनी, रम्भोर मृगराजकटी आदिकी उपमा देकर उसके अपक्षित्र देहको अपने सुखकी तामग्री तनझकर उसमें लिप्त रहते और अन्तमें दुःख ही मोगते हैं वह बड़े ही मूढ़ हैं उनको विचारना चाहिये कि मूत्र और रक्तके दुर्गन्धयुक्त और मलके द्वारोंसे भरी हुई ली है उससे चर्मकुण्डमें जो आनन्दलान करते हैं वह दुःखमय संतारमें लिप्त रहते हैं अर्थात् उनका निस्तार कभी नहीं होता ॥ १३ ॥

कौटिल्यदम्भसंयुक्ता सत्यशौचविधिर्जिता ।

केनापि निर्मितानारी बन्धनं सर्वदेहिनाम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

कौटिल्यदम्भसंयुक्ता, सत्यशौचविवर्जिता, । केन, अपि,
निर्मिता, नारी, बन्धनम्, सर्वदेहिनाम् ॥

पदार्थः ।

कौटिल्यद-	} = कुटिलता और दम्भ- करके युक्त जो स्त्री है -सत्यसे और पवित्रतासे रहित है ऐसी स्त्रीको	केन = किसने
म्भसंयुक्ता		अपि = निश्चयकरके
सत्यशौच-		निर्मिता = रचाहै
विवर्जिता		सर्वदेहिनाम् = संपूर्ण जीवोंके बन्धनम् = बन्धनका कारण है

भावार्थः—इत्तात्रेयजी कहतेहैं—कुटिलता और दम्भकरके युक्त जो स्त्री हैं सत्यसे और पवित्रतासे रहित है ऐसी स्त्रीको किसने निश्चयकरके रची है ऐसी स्त्री संपूर्ण बंधोंका कारण है ॥ १४ ॥

त्रैलोक्यजननी धात्री सा भगी नरकं ध्रुवम् ।

तस्यां जातो रतस्तत्र हाहा संसारसंस्थितिः ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

त्रैलोक्यजननी, धात्री, सा भगी, नरकम्, ध्रुवम् ।

तस्याम्, जातः, रतः, तत्र, हाहा, संसारसंस्थितिः ॥

पदार्थः ।

धात्री = जो स्त्री	जातः = उत्पन्न हुआ २ पुरुष
त्रैलोक्यजननी = तीनों लोकोंको उत्पन्न करनेवाली है	तत्र = उसीमें फिर
सा भगी = भगके सहित	रतः = प्रीतिकरताहै अर्थात् उसीको भोगता है
ध्रुवम् = निश्चयकरके	हाहा = बड़ा कष्ट है
नरकम् = साक्षात् नरक ही है	संसारसंस्थितिः = कैसी यह संसारकी स्थिति है
तस्याम् = तिसी स्त्रीमें	

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—कि, जो स्त्री तीनों लोकोंमें उत्पन्न करने-वाली है सो स्त्री भगके सहित साक्षात् नरकही है, तिसी स्त्रीमें उत्पन्न हुआ पुरुष स्वसमें फिर प्रीति करताहै इसी तरह संसारस्थिति बड़ी कष्टकारक है १५॥

जानामि नरकं नारीं ध्रुवं जानामि बन्धनम् ।

यस्यां जातो रतस्तत्र पुनस्तत्रैव धावति ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

जानामि, नरकम्, नारीम्, ध्रुवम्, जानामि, बन्धनम् ।

यस्याम्, जातः, रतः, तत्र, पुनः, तत्र, एव, धावति ॥

पदार्थः ।

नारीम् = स्त्रीको

नरकम् = नरकरूप

जानामि = हम जानतेहैं

ध्रुवम् = निश्चयकरके

बन्धनम् = बन्धनका कारण

जानामि = हम जानतेहैं

यस्याम् = जिसमें

जातः = उत्पन्न होताहै

तत्र = तिसीमें

रतः = क्रीडांको करताहै

पुनः = फिर

एव = निश्चयकरके

तत्र = तिसीमें

धावति = दौडता भी है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—स्त्रीको से नरक समझताहूँ और निश्चय है स्त्री बन्धन है ऐसा जानताहूँ पर मनुष्योंकी ओर जब दृष्टि देकर विचार करता हूँ तो बड़ा खेद होताहै कि जिस स्त्रीसे उत्पन्न हुआ वही आसक्त होजाताहै ओर फिर २ उत्तनी ओर दौडताहै । कैसा अज्ञान है ॥ १६ ॥

भगादिकुचपर्यन्तं संविद्धि नरकार्णवम् ।

ये रमन्ति पुनस्तत्र तरन्ति नरकं कथम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

भगादिकुचपर्यन्तम्, संविद्धि, नरकार्णवम् । ये रमन्ति,

पुनः, तत्र, तरन्ति, नरकम्, कथम् ॥

पदार्थः ।

मगादिकुच-	} = मगादिसे लेकर पर्यन्तम् } कुचों पर्यन्त	तत्र = तिसाम
नरकार्णवम् = नरकका समुद्र तिसको		रमन्ति = रमण करतेहैं
संविद्धि = सम्यक त जान		नरकम् = को
ये = जो पुरुष		कथम् = किस प्रकार वह
पुनः = फिर उसीसे पैदा होकर फिर		तरन्ति = तरजाते हैं

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—वह स्त्री भग आदिसे लेकर स्तनोंतक नरकरूप समुद्र है । जो मनुष्य एक समय (गर्भस्थिति) वहां रहकर भी फिर वहाँ रमते हैं फिर वह नरकसे अलग कैसे होसकतेहैं ॥ १७ ॥

विष्ठादिनरकं घोरं भगं च परिनिर्मितम् ।

किमु पश्यसि रे चित्त कथं तत्रैव धावसि ॥ १८ ॥

पदच्छेदः ।

विष्ठादिनरकम्, घोरम्, भगम्, च, परिनिर्मितम् । किमु,
पश्यसि, रे, चित्त, कथम्, तत्र एव धावसि ॥

पदार्थः ।

विष्ठादिनरकं	} = विष्ठा आदिको घोरम् } करके घोर नरकरूप	किमु = तो फिर तू क्या तू उसमें क्या
भगं च = स्त्रीकी भग		पश्यसि = देखताहै और
परिनिर्मितम् = रचित है		कथम् = किस प्रकार
रे चित्त = हे चित्त !		तत्र = तिसीकी तरफ
		धावसि = दौडताहै

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—विष्ठा मूत्र इत्यादि ही नरकोंमें मरे रहतेहैं स्त्रीकी योनि भी ऐसे अशुद्ध पदार्थोंसे घिरीहुई है, हे अधमचित्त ! तू उसको क्यों देखताहै उसकी ओर तृष्णासे दौडाजाताहै ॥ १८ ॥

भगेन चर्मकुण्डेन दुर्गन्धेन व्रणेन च ।

खण्डितं हि जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

भगेन, चर्मकुण्डेन, दुर्गन्धेन, व्रणेन, च । खण्डितम्,

हि, जगत्, सर्वम्, सदेवासुरमानुषम् ॥

पदार्थः ।

चर्मकुण्डेन=चर्मका एक कुण्डरूप

भगेन=जो स्त्रीका भग है वह

दुर्गन्धेन च=दुर्गन्धिका घर है और

व्रणेन=घावकी तरह अर्थात् जैसे

किसी पुरुषको शस्त्रके लगनेसे

घाव होजाताहै उसीकेआकार-

वाली है उसी भग करके

सर्वम्=संपूर्ण

जगत्=जगत्

खण्डितम्=नाशको प्राप्त होरहा है

सदेवासुर- } =देवता अपुर और

मानुषम् } मनुष्य सहित

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—चर्मके कुण्डरूपी दुर्गन्ध, तथा घावके आकारवाले स्त्रीके भगसे देवता दानव और मनुष्योंके सहित यह जगत् खण्डित हुआहै इसीके कारण इन्द्रको गौतमकी स्त्रीके पाँचे सहस्र भगका शाप हुआ असुरोंके राजा शुंभ निशुंभ भी इसीपर जापसमें लडकरके मरगये मनुष्योंमें वान्डी इसीपर मारागया और बहुतसे इसीपर लडकरके कटगये ॥ १९ ॥

देहार्णवे महाघोरे पूरितं चैव शोणितम् ।

केनापि निर्मिता नारी भगं चैव अधोमुखम् ॥ २० ॥

पदच्छेदः ।

देहार्णवे, महाघोरे, पूरितम्, च, एव, शोणितम् । केन,

अपि, निर्मिता, नारी, भगम्, च, एव, अधोमुखम् ॥

पदार्थः ।

देहार्जवे=छीके शरीररूपी समुद्रमें	अपि=निश्चयकरके
महाघोरे=महान् घोर नरकरूपमें	मोन=किसने
च=और	नारी निर्मिता =छी रची गयी है
एव=निश्चयकरके	जिसने इसके शरीरमें-
शोणितम्=शधिर	मगंच=मगको
पूरितम्=मरा हुआ है	अधोमुखम्=अधोमुख किया है

भाष्यार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—यह शरीररूपी समुद्र बड़ा भयंकर है यह ओहूसे मरा हुआ है, इससे किसीने छीको ऐसा विचित्र बनाया है कि उसका गुप्त इन्द्रिय नीचे मुखवाला होताहै । प्रयोजन यह है कि, ब्रह्माने छीको बनाकर यह स्पष्ट सूचित किया है कि, जिस छीको कामीलोग बड़ी प्यारी समझतेहैं वह मांस, रक्त, हड्डी आदि अपवित्र वस्तुओंकी बनी है उसको छूनेमें भी धृणा होनी चाहिये ॥ २० ॥

अन्तरे नरकं विद्धि कौटिल्यं बाह्यमण्डितम् ।

ललितामिह पश्यन्ति महामन्त्रविरोधिनीम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

अन्तरे, नरकम्, विद्धि, कौटिल्यम्, बाह्यमण्डितम् ।

ललिताम्, इह, पश्यन्ति, महामन्त्रविरोधिनीम् ॥

पदार्थः ।

इह=इस संसारमें	पश्यति=देखता है जिसके
महामन्त्रवि- { =संसारसे छूटनेके	अन्तरे=शरीरके भीतर
रोधिनीम्: { लिये जोकि महान्	नरकम्=नरकको
मन्त्र वैराग्य है उस-	विद्धि=तू जान और
का निरोधी जो राग	कौटिल्यम्=कुटिलता करके युक्त
है उससे युक्त	बाह्यमण्डितम्=ऊपरसे मूषित है
ललिताम्=छीको	

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—इन्द्रायणका फल बाहरसे बड़ा मनोहर देख पड़ता है और भीतर दुर्गन्धि तथा कुरूपपूर्ण है छीं भी ठीक इसी प्रकार भीतर मलमूत्र आदि अशुभ पदार्थोंसे पूर्ण तथा कुटिलतासे भरी हुई है और बाहरसे सुन्दरी देख पड़ती है यह ब्रह्मविचारकी शत्रु है इस कारण बुद्धिमान् लोग इसे दूरसे ही छोड़ देते हैं ॥ २१ ॥

अज्ञात्वा जीवितं लब्धं भवस्तत्रैव देहिनाम् ।

अहो जातो रतस्तत्र अहो भवविडम्बना ॥ २२ ॥

पदच्छेदः ।

अज्ञात्वा, जीवितम्, लब्धम्, भव, तत्र, एव, देहिनाम् ।

अहो, जातः, रतः, तत्र, अहो, भवविडम्बना ॥

पदार्थः ।

अज्ञात्वा=आत्माको न जानकरके

तत्र=उत्त छीमें

जीवितम्=जीवनलान किया

लब्धम्=लान किया

तत्र एव=उत्त छीमें ही

भवः=जन्म हुआ

देहिनाम्=देह धारियोंका

अहो जातः=बड़ा आश्चर्य और हुआ

तत्र=उत्तमें

रतः=फिरमी प्रीतियुक्त हुआ

अहो भव- } =बड़ी संसारका विड

विडम्बना } म्बना आश्चर्यरूप है

भाषार्थः ।

दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मस्वरूप न जानकर जन्म लिया जन्म भी उत्त अनर्घमूलक छीमें लिया वस्तु दो भूलोंके होनेपर भी यदि फिर आत्माके जाननेका यत्न करते तब भी कल्याण था पर उलटा उत्त छीमें आनन्द करने लगा अहो इस जन्ममरणरूपी संसारमें कैसा तिरस्कार है ॥ २२ ॥

तत्र सुग्धा रमन्ते च सदेवासुरमानवाः ।

ते यान्ति नरकं घोरं सत्यमेव न संशयः ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

तत्र, मुग्धाः, रमन्ते, च, सदेवासुरमानवाः । ते, यान्ति,
नरकम्, घोरम्, सत्यम्, एव, न, संशयः ॥

पदार्थः ।

तत्र=तिसी छोमें

मुग्धाः=मूढबुद्धिवाले

सदेवासुर- } =देवतों और असुरी

मानवाः } तथा मनुष्योंके सहित

रमन्ते=रमण करते हैं

ते=वे सब

घोरम्=घोर

नरकम्=नरकको

यान्ति=गमन करते हैं

सत्यम् एव=निश्चयकरके यह सत्य है

न संशयः=इसमें संशय नहीं है

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—आत्मज्ञान न होनेसे ही स्त्रीके गर्भमें वास हुआ वेंहीं जन्म पाया, बड़े आश्चर्यकी बात है कि, गर्भवासका दुःख जानता हुआ भी फिर उसीमें आसक्त होगया यह कैसी संसारकी लज्जाकी बात है यदि मनुष्यको केवल १० महीने गर्भमें रहनेके कष्टका स्मरण रहे तो कभी संसारकी इच्छा न करे ॥ २३ ॥

अग्निकुण्डसमा नारी घृतकुम्भसमो नरः ।

संसर्गेण विलीयेत तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ।

अग्निकुण्डसमा, नारी, घृतकुम्भसमः, नरः, संसर्गेण,
विलीयेत, तस्मात्, ताम्, परिवर्जयेत् ॥

पदार्थः ।

अग्निकुण्ड- } =अग्निके कुण्डके

समानारी } समान स्त्री है

घृतकुम्भसमः=घृतके कुम्भके समान

नरः पुरुष है

संसर्गेण=सम्बन्धसे

विलीयेत=पिचलजाता है

तस्मात्=तिसी कारणसे

ताम्=उस स्त्रीको

परिवर्जयेत्=त्याग करदेवे

भाषार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—स्त्री आगकी मट्टीके समान है, पुरुष धीके घडेके समान है, उन दोनोंका संयोग होते ही कामविकार सिद्ध है इसलिये उन्नति चाहनेवाला पुरुष स्त्रीका परित्याग करे ॥ २४ ॥

गौडी पैष्टी तथा माध्वी विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।

चतुर्थी स्त्री सुरा ज्ञेया यथेदं मोहितं जगत् ॥ २५ ॥

पदच्छेदः ।

गौडी, पैष्टी, तथा, माध्वी, विज्ञेया, त्रिविधा, सुरा ।

चतुर्थी, स्त्री, सुरा, ज्ञेया, यथा, इदम्, मोहितम्, जगत् ॥

पदार्थः ।

त्रिविधा=तीन प्रकारकी

सुरा=शराब

विज्ञेया=जानो

गौडी=एक गुडकी

पैष्टी=दूसरी जाँकी

तथा=उसी प्रकार

माध्वी=तीसरी नैवेकी बनती है

चतुर्थी=चौथी

स्त्री=स्त्रीको

सुरा ज्ञेया=शराब जानो

यथा=जिस स्त्रीरूपी मदिराकारके

इदम्=यह

जगत्=जगत् सब

मोहितम्=मोहको प्राप्त होरहा है

भाषार्थः—दत्तात्रेयजी कहते हैं—गुड, आटा और मधुसे मद्य बनताहै, यह अघम मद्य है परन्तु स्त्रीरूपी चौथा मद्य ऐसा प्रबल है कि जिसने यह संसार वशमें कर लिया है आशय यह है कि, ऊपर कही हुई तीन शराब तो पीकर नशा करती हैं परन्तु यह स्त्रीरूप मद्य ऐसा विचित्र है कि, देखनेसे ही मनुष्यको उन्मत्त कर देता है ॥ २५ ॥

मद्यपानं महापापं नारीसंगस्तथैव च ।

तस्माद्द्वयं परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवेन्मुनिः ॥ २६ ॥

पदच्छेदः ।

मद्यपानम्, महापापम्, नारीसंगः, तथा, एव, च ।

तस्मात्, द्वयम्, परित्यज्य, तत्त्वनिष्ठः, भवेत्, मुनिः ॥

पदार्थः ।

मद्यपानं=जिस प्रकार शराबका पीना	तस्मात् = तिसी कारणसे
महापापम् = महान् पापरूपी है	द्वयम् = इन दोनोंका परित्याग करके
नारीसंगः = स्त्रीका संग भी	मुनिः = मुनि
एव = निश्चयकरके	[है तत्त्वनिष्ठः = अःतमनिष्ठावाला
तथा=वैसाही है अर्थात् महापापरूपही	मवेत् = होवे

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—शराब पीना और स्त्रीका प्रसंग करना बडा पाप है इससे इन दोनोंको छोडकर मुनि तत्त्वज्ञानयुक्त होवै ॥ २६ ॥

चिन्ताक्रान्तं धातुबद्धं शरीरं नष्टे चित्ते धातवो
यान्ति नाशम् । तस्माच्चित्तं सर्वतो रक्षणीयम्
स्वस्थे चित्ते बुद्ध्यः सम्भवन्ति ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ।

चिन्ताक्रान्तम्, धातुबद्धम्, शरीरम्, नष्टे, चित्ते,
धातवः, यान्ति, नाशम् । तस्मात्, चित्तम्, सर्वतः,
रक्षणीयम्, स्वस्थे, चित्ते, बुद्ध्यः, सम्भवन्ति ॥

चिन्ताक्रान्तम्=चिन्तासे दबाया हुआ	यान्ति = प्राप्तहोजातीहै
चित्तं जव कि अतिदुःखित	तस्मात् = तिसी कारणसे
होता है तब तिसकालमें	चित्तम् = चित्तकी
नष्टे चित्ते = चित्तके नाश होनेपर	सर्वतः = सर्व ओरसे रक्षा करनी
धातुबद्धम्=धातुकोंकरके बांधाहुआ	चाहिये क्योंकि
शरीर मी नष्ट होजाताहै	स्वस्थे चित्ते=चित्तके स्वस्थ होनेपर
धातवः = सब धातु भी शरीरकी	बुद्ध्यः=सार असारको विचारनेवाली
नाशम् = नाशको	सम्भवन्ति=उत्पन्न होतीहैं [बुद्धियें

भावार्थः—दत्तात्रेयजी कहतेहैं—प्राणियोंका देह जो कि रस, रक्त, मांस, चर्बी हड्डी, मज्जा और शुक्रसे बंधाहुआ है, वह बहुत फिकर करनेसे मनका नाश कर देताहै, मनके नाश होनेसे धातुओंका नाश होजाताहै, इसलिये सावधानीसे चित्त की रक्षा करनी चाहिये, मनके दोष रहित होनेसे बुद्धि ठीक रहतीहै ॥ २७ ॥

दत्तात्रेयावधूतेन निर्मितानन्दरूपिणा ।

ये पठन्ति च शृण्वन्ति तेषां नैव पुनर्भवः ॥२८॥

इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामिकार्त्तिक

संवादे स्वात्मसँवित्युपदेशोष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

दत्तात्रेयावधूतेन, निर्मिता, आनन्दरूपिणा । ये, पठन्ति,

च, शृण्वन्ति, तेषाम्, न, एव, पुनर्भवः ॥

दत्तात्रेयाव- { =श्रीस्वामीदत्तात्रेयजी
धूतेन } अवधूतेन

आनन्दरूपिणा = आनन्दरूपने

निर्मिता = इतः अवधूतगीताका निर्माण
किया है

ये = जो सुमुखजन

पठन्ति = इसका पाठ करतेहैं

च = और

शृण्वन्ति = या इसको श्रवण, करतेहैं

तेषाम् = उनका

पुनर्भवः = पुनर्जन्म फिर

एव = निश्चयकरके

न = नहीं होताहै

भावार्थः--दत्तात्रेयजी कहतेहैं--आनन्दमूर्ति श्रीदत्तात्रेय योगिराजने यह अवधूतगीता बनाई है जो इसको पढतेहैं अथवा किसीसे सुनते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २८ ॥

उत्तीर्त्तो छत्रसठि सँव्वर, भाद्र द्वादशी शुद्ध ।

ग्रंथ यह पूरण भयो, जानहु सकल सुबुद्ध ॥

इति श्रीमदवधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित-

परमानन्दीमाषाटीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।